



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12—अप्रैल 18, 2008 (चैत्र 23, 1930)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12—APRIL 18, 2008 (CHAITRA 23, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 8 फरवरी 2008

सं. ए-19011/3/2005-प्रशा.-I.--मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशा. विभाग के दिनांक 31.1.2008 के आदेश सं. 9/3/2008-स्था. अधि. (एस. एम. I) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, प्राधिकरण, जहाजरानी विभाग, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रैंक एवं वेतन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री सुरेन्द्रपाल गौड़, भा.प्र.से. (उत्तर प्रदेश-74) को 6 फरवरी, 2008 के अपराह्न से आयोग कार्यालय में सचिव के रूप में उनके कार्य से कार्यमुक्त किया जाता है ताकि वे अपना नया कार्यभार ग्रहण कर सकें।

डा. ए. एस. खान
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. ए-60011/8/05-सू.अधि.अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.).--इस कार्यालय की दिनांक 18 जुलाई तथा 09 अगस्त, 07 की पूर्व अधिसूचना के अनुक्रम में धारा 19 तथा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामोद्घिष्ट किया जाता है :-

केन्द्रीय लोक सूचना विषय वस्तु अधिकारी का नाम	दूरभाष नं.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1	2	3
श्री जसवन्त सिंह, उपसचिव (भर्ती. I)	भ. I संवीक्षा अनुभाग एस पी सी I/II सलाहकार कक्ष, पेनल एवं डाटा बैंक, प्रोग्राम एकक	23098548 सुश्री कल्पना राज- सिंहोत, संयुक्त सचिव (भर्ती-I)

1	2	3	4
श्री ए. के. सिंह, उपसचिव (भर्ती-II आई.एफ.सी)	भ.-II, भ.-III, भ.-VI संवीक्षा अनुभाग, आई.एफ. सी., भ.(सं. एवं नी.) तथा अन्य विविध मामले	23381552 श्री नूरुद्दीन अंसारी, संयुक्त सचिव (भर्ती-II)	
श्री एस. डी. बैजल, उपसचिव (भर्ती- IV)	भ.-IV, भ.-V, संवीक्षा अनुभाग,	23386979 श्री नूरुद्दीन अंसारी, संयुक्त सचिव (भर्ती-II)	

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. पी. तीन-2/2008-कार्मिक-3.--कार्यालय अपर पुलिस उप
महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल गांधीनगर के श्री एम. टी. सखरिया,
प्रशासन/अनुभाग अधिकारी (इरला संख्या-5951) का दिनांक 01.03.08.
(पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार होने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक
01.03.08 (पूर्वाह्न) से प्रशासन/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार त्याग कर
दिया है।

के. के. शिवा प्रसाद
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/0069/3/2/97.--राष्ट्रपति ने श्री अजहर अली
अब्दुल्लाह अंसारी, सहायक लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को दिनांक
26.02.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक
अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- (अपठनीय)
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 26 मार्च 2008

सं. पी. तीन-2/2008-कार्मिक-3.--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु
पूर्ण होने के फलस्वरूप, कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप
केन्द्र, के.रि.पु. बल, तलेगांव, पुणे के श्री पी. के. गाडेकार (इरला-5511)
ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 31.01.2008 (अपराह्न) को
त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-3, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. ई-32015(4)/1/एलडोसीई/2007/कार्मिक.1/67.--राष्ट्रपति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2006 के आधार पर भर्ती हुए
निम्नलिखित अधिकारियों (समूह 'क') को उनके नाम के सामने उल्लिखित इकाईयों में प्राथमिक प्रशिक्षण की तारीख से के.ओ.सुब में सहायक
कमाण्डेंट (कार्य.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

इन अधिकारियों को उसी तारीख से वेतन व भत्ते प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रत्येक के नाम के सामने दी गई के.ओ.सुब इकाई में तैनात किया
जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	संस्थान का नाम	कार्यभार संभालने की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	विपिन कुमार तोमर	निसा हैदराबाद	14.01.2008	रि.प्र.के. आराकोणम
2.	सुधीर कुमार	निसा हैदराबाद	14.01.2008	पांचवीं आ. वा. गाजियाबाद
3.	आशीष कुमार	निसा हैदराबाद	14.01.2008	6वीं डी.एम. वाहिनी आराकोणम
4.	गुरजोत सिंह	निसा हैदराबाद	14.01.2008	7वीं आवा. जयपुर
5.	ए. मोहम्मद हनीफ	निसा हैदराबाद	14.01.2008	रि.प्र.के. आराकोणम
6.	विजय कुमार	निसा हैदराबाद	14.01.2008	6वीं डी.एम. वाहिनी आराकोणम
7.	अशोक जलवानिया	निसा हैदराबाद	14.01.2008	रि.प्र.के. देवली-2
8.	पी.सी. दत्ताई	निसा हैदराबाद	14.01.2008	चतुर्थ डी.एम. वाहिनी मुण्डाली
9.	हेमन्त कुमार ब्रह्मा	निसा हैदराबाद	14.01.2008	चतुर्थ डी.एम. वाहिनी मुण्डाली

ह./- (अपठनीय)
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली
नई दिल्ली-110 002, दिनांक 27 मार्च 2008

सं. प्रशासन का.आ.सं. 183.--इस कार्यालय के श्री एस. एस. कपूर, व. ले. प. अ. दिनांक 1.04.2008 पूर्वाह्न को भारत सरकार की सेवा से स्वेच्छिक सेवा निवृत्त होंगे। उनकी जन्मतिथि 28.11.1948 और नियुक्ति की तिथि 16.9.1972 है।

धर्म सिंह
वरि. उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल
तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. का.स्था(रोकड़)/पेन/10-2/2007-2008.--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

क्र. सं.	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियाँ
1.	श्रीमती एम. एस. विजय- लक्ष्मी अम्मल, उप महालेखाकार	29.02.2008	अधिवाषिकी
2.	श्री पी. के. बालन, व.ले.प. अधिकारी	29.02.2008	अधिवाषिकी
3.	श्री पी. वी. जयचंद्रन नायर, व.ले.प. अधिकारी	29.02.2008	अधिवाषिकी
4.	श्री एम. एस. जोसफ, ले.प. अधिकारी	29.02.2008	अधिवाषिकी
5.	श्री के. आर. मुरलीधरन, ले.प. अधिकारी	29.02.2008	अधिवाषिकी
6.	श्री ए. जी. सुशीलन, सहा.ले.प. अधिकारी	29.02.2008	अधिवाषिकी

पी. उन्नीकृष्णन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171 004, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 5/2008-सी.पी.आई.--फरवरी, 2008 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक बढ़कर 135 (एक सौ पैंतीस) अंकों के स्तर पर रहा।

आर. के. गुप्ता
संयुक्त निदेशक

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. 996ए/ए-32013/3-उपमहानिदेश (भूसा.)/2006/19बी खण्ड-II.-- विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित निदेशक (भू-रसायन)(चयन श्रेणी)को उपमहानिदेशक (भू-रसायन)के रूप में इसी विभाग में रुपए 18,400-500-22,400/- के वेतनमान के वेतन में नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	उपमहानिदेशक (भू-रसायन) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री अनिश कुमार मजुमदार	26.10.2007 (अपराह्न)
2.	डा. आर. जी. विजय	26.10.2007 (अपराह्न)

बी.एम. गालव
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I
कृते महानिदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
बेतार अनुश्रवण, संघटन

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. ए.32012/2/03-प्रशा.(पार्ट).--भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बेतार सलाहकार एतद्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूर संचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन की आशुलिपिक ग्रेड-सी, श्रीमती जानकी शेखर को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में दिनांक 6.04.2008 से 5.10.2008 तक छः माह की अवधि या जब तक कथित पद पर कोई उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी "ख" राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. सिद्दीकी
उप निदेशक
कृते बेतार सलाहकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

एन.एच.4, फरीदाबाद-121001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2-22/2007-प्रशा. प्रथम.--वनस्पति संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-II (रसायन), को उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप वनस्पति संरक्षण अधिकारी (रसायन) के पद पर

6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री डी. एस. सेहरावत	31.12.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री वाई. एस. अधाना	31.12.2007 (पूर्वाह्न)
एच. सी. रूस्तगी अवर सचिव		

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 19 मार्च 2008

संदर्भ : पीडी/11(1)/2008-आर-III/2008/2443--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कुमारी ललिता एस. दास, सहायक लेखाकार को दिनांक 04.02.2008 (पूर्वाह्न) से 07.03.2008 (अपराह्न) तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 24 मार्च 2008

संदर्भ : पीडी/11(1)/2008-आर-III/2008/2495--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी जयरामन, सहायक को दिनांक 04.02.2008 (पूर्वाह्न) से 07.03.2008 (अपराह्न) तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 26 मार्च 2008

संदर्भ : पीडी/11(1)/2008-आर-III/2008/2586--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती श्रीकला रामचंद्र, सहायक को दिनांक 24.01.2008 (पूर्वाह्न) से 22.02.2008 (अपराह्न) तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

मुम्बई-400085, दिनांक 26 मार्च 2008

संदर्भ : पीडी/2(5)/2007-भर्ती-IV/2588--राष्ट्रपति, श्री मुदसिर अहमद परेय को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 28 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेन्द्र दत्त शर्मा
नियंत्रक

सं. 93/अधि./स्था.1A/30980--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	डा. शंकर झा	वै.अ./डी	18.12.2007(अप.)	मृत्यु
2.	डा. राकेश कुमार सिंह	वै.अ./डी	04.02.2008(अप.)	त्यागपत्र
3.	श्री बी. एस. कमलापुर	वै.अ./जी	20.02.2008(पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
4.	श्री के. आर. मारबल्ली	वै.अ./एच	29.02.2008(अप.)	अधिर्वर्षिता
5.	श्री महेन्द्र कुमार नेमा	वै.अ./एच	29.02.2008(अप.)	अधिर्वर्षिता
6.	श्री पदमनाथन रामदास वरिष्ठ निजी सचिव	वरिष्ठ निजी सचिव	29.02.2008(अप.)	अधिर्वर्षिता
7.	श्री डॉ. अनिल कुमार	वै.अ./सी	29.02.2008(अप.)	त्यागपत्र
8.	श्री मनोज संतोष चौधरी	वै.अ./डी	29.02.2008(अप.)	त्यागपत्र
9.	श्री सुभाष बाबराव बोडके	वै.अ./एच	29.02.2008(अप.)	अधिर्वर्षिता
10.	श्री सी. पी. गोविंदन	वै.अ./जी	29.02.2008(अप.)	अधिर्वर्षिता

नरेन्द्र दत्त शर्मा
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(64)/2008-भर्ती/खंड III/231--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग कुमारी सी. शांताकुमारी, सहायक लेखा अधिकारी की लेखा अधिकारी को

रूप में स्थानापन्न होने से रिक्त पद पर श्रीमती गीता के. अय्यर, सहायक लेखाकार रु. 6,500-200-10,500/- वेतनमान, निसेसंप्रति, पऊवि को तदर्थ आधार पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 28.01.2008 (पूर्वाह) से दिनांक 29.02.2008 (अपराह) तक सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. मुरलीधरन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/2(64)/2001-भर्ती/खंड III/232.--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्रीमती वाई. योगेश, वरिष्ठ लेखा अधिकारी की उप लेखा नियंत्रक के रूप में स्थानापन्न होने से रिक्त पद पर कुमारी सी. शांताकुमारी, सहायक लेखा अधिकारी रु. 7,450-225-11,500/- वेतनमान, निसेसंप्रति, पऊवि को तदर्थ आधार पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में दिनांक 28.01.2008 (पूर्वाह) से दिनांक 29.02.2008 (अपराह) तक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. मुरलीधरन
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(230)/2006-भर्ती/खंड VIII/233.--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री पी. वी. धोंगड़ी, लेखा अधिकारी को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 01.09.2007 से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी. मुरलीधरन
प्रशासन अधिकारी-III

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400 094, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. क्र.भनि/11006/भर्ती/1309.--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, ने श्रीमती कनमपिलिल परमेश्वरा मेनन सतीदेवी, लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/-), क्र.भनि, मुंबई, को दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 (पूर्वाह) से अगला आदेश होने तक इसी निदेशालय, में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400 094, दिनांक 24 मार्च 2008

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/5(2)-कै.का./2008/305.--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्रीमती प्रिसिल्ला फर्नांडिस,

2-16 GI/2008

आशुलिपिक ग्रेड.I, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुम्बई को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के पूर्वाह से 30 जनवरी, 2008 के अपराह तक निजी सचिव (एन.एस.) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

आर. पी. आचार्य
प्रशासन अधिकारी

दिनांक 26 मार्च 2008

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/5(2)-कै.का./2008/309.--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्रीपुल्लईकोडि वेटील जगदीशन, सहायक लेखा अधिकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुम्बई को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में दिनांक 04 फरवरी, 2008 के पूर्वाह से 05 मार्च, 2008 के अपराह तक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

आर. पी. आचार्य
प्रशासन अधिकारी

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/5(2)-कै.का./2008/310.--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्रीमती दीप्ति सुकुमारन, सहायक लेखाकार, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुम्बई को रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 04 फरवरी, 2008 के पूर्वाह से 05 मार्च, 2008 के अपराह तक सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

आर. पी. आचार्य
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. : पखनि-16/1/2005-भर्ती/1706.--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एन. श्रीकुमार, लेखाधिकारी (वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/-) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद को दिनांक 01.09.2007 पूर्वाह से अगले आदेश होने तक इसी निदेशालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च 2006

सं. ए. 35018/6/2002-स्था.II.-महानिदेशक, नागर विमानन, नागर विमानन मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के श्री एस. प्रकाश,

सहायक, को नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली के प्रशासन निदेशालय में लेखा अधिकारी के पद पर 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 01 मार्च, 2008 पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाते हैं।

मीना शर्मा
उपनिदेशक प्रशासन

जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 28 मार्च 2008

सं. 3-1623/08-वैज्ञा. स्था./1850.--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित मुख्य सर्वेक्षक को 6,500-200-10,500/- रुपये प्रतिमाह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर अधिकारी सर्वेक्षक (समूह 'ख') (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में अस्थाई आधार पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	कार्य स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री हर भगवान	के.भू.ज.बो., उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़	के.भू.ज.बो., उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़	10.03.2008 (पूर्वाह्न)

वह कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के स्वैच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

मूल चंद वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी

सं. 3-1613/08-वैज्ञा. स्था./1851.--विभागीय प्रोन्नति समूह 'ख' राजपत्रित समिति की सिफारिश पर श्री राजेन्द्र कुमार कलिया, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-जलविज्ञान) को, जो वर्तमान में तदर्थ सहायक जल-वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं को 7,500-250-12,000/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक भू-जल-वैज्ञानिक (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्थाई आधार पर दिनांक 24.01.2008 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत कर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, गुवाहटी में तैनात किया जाता है।

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के स्वैच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

मूल चंद वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एम. टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1980पीटीसी002070/
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी. एम. टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है। कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैम ट्रॉन्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू60231आरजे1980पीटीसी002052/
7.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जैम ट्रॉन्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विजय लक्ष्मी एक्जीक्यूटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू92112आरजे1980पीटीसी002056/
9.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विजय लक्ष्मी एक्जीक्यूटिव्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरि माईनर्स एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1980पीटीसी002073/
11.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हरि माईनर्स एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिंगसिटी एलॉयज एण्ड
कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27101आरजे1980पीटीसी002088/
13.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पिंगसिटी
एलॉयज एण्ड कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना
के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पॉवर फोर्ज प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27107आरजे1980पीटीसी002122/
15.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉवर फोर्ज
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिबेनी टेक्सटाईल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1980पीटीसी002125/
17.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिबेनी टेक्सटाईल्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया

है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विमल वायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31300आरजे1980पीटीसी002128/
19.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विमल वायर
इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विधित्त कर दी गई है। कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. एम. एण्टरप्राइजेज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1980पीटीसी002133/
21.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. एम.
एण्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री सुन्दरदास सेतिया
कोल्डस्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू63022आरजे1980पीटीसी002141/
23.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री सुन्दरदास
सेतिया कोल्डस्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज

कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंघला केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31300आरजे1981पीटीसी002153/25.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंघला केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयूर वाचेस लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू33301आरजे1981पीएलसी002154/27.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मयूर वाचेस लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेवाड़ कैमिकल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24117आरजे1981पीएलसी002156/29.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेवाड़ कैमिकल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एगो आटो शिपिंग होम एप्लायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू50101आरजे1981पीटीसी002164/31.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एगो आटो शिपिंग होम एप्लायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैन हार्डवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू28939आरजे1981पीटीसी002175/33.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जैन हार्डवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्षितिज वूलन एण्ड टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17117आरजे1981पीएलसी002180/35.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्षितिज वूलन एण्ड टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिग्मा पिस्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27201आरजे1981पीटीसी002182/
37.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिग्मा पिस्टन्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मसकोट फैब्रिक्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1981पीटीसी002306/
43.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मसकोट फैब्रिक्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारबन सेओ कम्पनी प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू19201आरजे1981पीटीसी002286/
39.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मारबन सेओ
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री वूल (इण्डिया) प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17117आरजे1981पीटीसी002315/
45.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री वूल
(इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोग्रेसिव टाक प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू14219आरजे1981पीटीसी002213/
41.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रोग्रेसिव टाक
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टैंडर्ड गम्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24139आरजे1981पीटीसी002321/
47.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टैंडर्ड गम्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. एस. प्लास्टो केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू25209आरजे1981पीटीसी002327/49.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के. एस. प्लास्टो केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. के. प्लास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू25209आरजे1981पीटीसी002373/55.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी. के. प्लास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पूजा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27107आरजे1981पीटीसी002374/51.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूजा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुनामा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1982पीटीसी002396/57.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुनामा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री कृष्णा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1981पीटीसी002350/53.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री कृष्णा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्टन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31300आरजे1982पीटीसी002482/59.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल्टन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोधपुर होटल्स एण्ड
इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू55101आरजे1982पीटीसी002430/
61.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जोधपुर होटल्स
एण्ड इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के
प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रयाग सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1982पीटीसी002454/
67.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रयाग सीमेन्ट
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरावली गम एण्ड अलाइड
कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24139आरजे1982पीटीसी002441/
63.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली गम
एण्ड अलाइड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना
के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चेतक टूर्स प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू63040आरजे1982पीटीसी002469/
69.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चेतक टूर्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. जे. प्लास्टिक्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू25209आरजे1982पीटीसी002474/
65.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. जे.
प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हर्ष सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1982पीटीसी002492/
71.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हर्ष सीमेन्ट्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोर्थ वेस्टार सोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू55104आरजे1982पीटीसी002494/73.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोर्थ वेस्टार सोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आमेर मिरर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू33122आरजे1982पीटीसी002522/79.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आमेर मिरर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. एल. आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27107आरजे1982पीटीसी002560/75.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. एल. आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलायड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू14219आरजे1982पीटीसी002564/81.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलायड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयूर टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1982पीटीसी002528/77.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मयूर टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम सीमेन्ट्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1982पीटीसी002586/83.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओम सीमेन्ट्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐंजल ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24232आरजे1982पीटीसी002614/85.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐंजल ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सलो यूनिवर्सल फल्स कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू34400आरजे1983पीटीसी002643/91.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सलो यूनिवर्सल फल्स कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री विजय ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू29308आरजे1983पीटीसी002664/87.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री विजय ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंघवी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31300आरजे1983पीटीसी002645/93.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंघवी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंडिकेट्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू67120आरजे1983पीटीसी002639/89.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंडिकेट्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केडिया सीमेन्ट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1983पीएलसी002652/95.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केडिया सीमेन्ट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपक ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1983पीटीसी002683/97.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीपक ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खेरा रिफाईनरीज लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू15142आरजे1983पीटीसी002840/103.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खेरा रिफाईनरीज लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विजाई (इण्डिया) इण्डस्ट्रीज सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1983पीटीसी002821/99.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विजाई (इण्डिया) इण्डस्ट्रीज सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डीलक्स थ्रेड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17115आरजे1983पीटीसी002820/105.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डीलक्स थ्रेड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदिनी ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू36911आरजे1983पीटीसी002835/101.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आदिनी ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लीला इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51395आरजे1984पीटीसी002910/107.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लीला इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री लीला ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1984पीटीसी002909/109.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री लीला ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फाल्कन गल्फ एण्टरप्राइजेज (आई) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1984पीटीसी002964/115.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फाल्कन गल्फ एण्टरप्राइजेज (आई) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मरूधरा कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24117आरजे1984पीटीसी002931/111.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मरूधरा कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्द्रा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू70109आरजे1984पीटीसी002991/117.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्द्रा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इण्डिया डायमण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू14101आरजे1984पीटीसी002932/113.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इण्डिया डायमण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. टी. रिफाईनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू15143आरजे1984पीटीसी002957/119.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. टी. रिफाईनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. एस. एण्टरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1984पीटीसी002985/121.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. एस. एण्टरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रकाश सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1984पीटीसी003056/127.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रकाश सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नटराज लाईम एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51496आरजे1984पीटीसी003026/123.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नटराज लाईम एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रशान्त फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24124आरजे1984पीटीसी003062/129.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रशान्त फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भारद्वाज एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू45201आरजे1984पीटीसी003047/125.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भारद्वाज एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री राम बोंने क्रैशर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74999आरजे1984पीटीसी003108/131.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री राम बोंने क्रैशर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फोस्टर लेबोरेट्रीज (इण्डिया)
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू85195आरजे1984पीटीसी003123/
133.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फोस्टर लेबोरेट्रीज
(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसबीडी प्राइवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू67120आरजे1984पीटीसी003132/
135.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसबीडी प्राइवेट
लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित
कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीप सिरामिक्स इण्डस्ट्रीज
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26933आरजे1984पीटीसी003136/
137.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीप सिरामिक्स
इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेक फेब (इण्डिया) प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74994आरजे1984पीटीसी003157/
139.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेक फेब
(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खन्ना आयल एण्ड वेजिटेबल
प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू15142आरजे1984पीटीसी003159/
141.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खन्ना आयल
एण्ड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना
के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवीन फिल्म उद्योग प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू92111आरजे1984पीटीसी003163/
143.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नवीन फिल्म
उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेबिके सिस्टम्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51505आरजे1984पीटीसी003165/145.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेबिके सिस्टम्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टी. आर. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31300आरजे1985पीटीसी003241/151.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टी. आर. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रेन्ड इण्डिया लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31909आरजे1985पीटीसी003204/147.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रेन्ड इण्डिया लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोन्टेक इलैक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51505आरजे1985पीटीसी003244/153.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोन्टेक इलैक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राधाकृष्णा फॉब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74994आरजे1985पीटीसी003226/149.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राधाकृष्णा फॉब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज हंस सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1985पीटीसी003251/155.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राज हंस सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पैरागान फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24232आरजे1985पीटीसी003256/157.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैरागान फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभम कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24117आरजे1986पीटीसी003669/163.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुभम कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निर्मल मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू14101आरजे1985पीटीसी003272/159.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निर्मल मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीआईपी फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1986पीटीसी003659/165.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वीआईपी फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिप्रा पॉलिटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू25202आरजे1985पीटीसी003298/161.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिप्रा पॉलिटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महेन्द्रा फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1986पीटीसी003658/167.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महेन्द्रा फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रिशूल पैकेजिंग प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74950आरजे1986पीटीसी003668/
169.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रिशूल पैकेजिंग
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अम्बिका फाउण्डर्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27107आरजे1986पीटीसी003641/
175.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अम्बिका
फाउण्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आनन्द बिल्डर्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू45201आरजे1986पीटीसी003631/
174.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आनन्द बिल्डर्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हनुमान प्रसाद एण्ड ब्रादर्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू45201आरजे1986पीटीसी003667/
177.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हनुमान प्रसाद
एण्ड ब्रादर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम इन्टर ग्रुप्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51311आरजे1986पीटीसी003620/
173.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओम इन्टर ग्रुप्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोयल एण्ड गोयल
इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51395आरजे1986पीटीसी003649/
179.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोयल एण्ड
गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना
के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74944आरजे1985पीटीसी003330/181.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजेश वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17117आरजे1985पीटीसी003353/187.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजेश वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रिशुल लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27201आरजे1985पीटीसी003334/183.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रिशुल लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयंक एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1985पीटीसी003360/189.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मयंक एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परफैक्ट गैस अप्लायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू99999आरजे9999पीएलसी003345/185.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परफैक्ट गैस अप्लायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डीलक्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1985पीटीसी003382/191.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डीलक्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अवन्ती प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू45201आरजे1985पीटीसी003410/
193.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अवन्ती प्राईवेट
लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित
कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेलफा मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड
ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1985पीटीसी003481/
199.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेलफा
मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों
के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना
के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संगीता इंजीनियर्स एण्ड
कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74140आरजे1985पीटीसी003457/
195.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संगीता इंजीनियर्स
एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के
प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुरली रोलिंग मिल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27107आरजे1985पीटीसी003486/
201.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुरली रोलिंग
मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेमिनी इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74199आरजे1985पीटीसी003478/
197.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेमिनी इंजीनियरिंग
इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होटल मार्बल पैलेस प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू55101आरजे1986पीटीसी003509/
203.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होटल मार्बल
पैलेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी. पी. सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1986पीटीसी003516/205.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी. पी. सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टैरेफ इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74140आरजे1986पीटीसी003524/211.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टैरेफ इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री मारवाड़ मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू14219आरजे1986पीटीसी003517/207.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री मारवाड़ मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गौतम सूटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू18108आरजे1986पीटीसी003537/213.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गौतम सूटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टॉवर वूलटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17117आरजे1986पीटीसी003520/209.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टॉवर वूलटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उदय ज्योति सिनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17117आरजे1986पीटीसी003538/215.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उदय ज्योति सिनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिटेक्टिव सिव्युरिटी फाऊण्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74920आरजे1986पीटीसी003547/217.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिटेक्टिव सिव्युरिटी फाऊण्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंजोरा एण्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1986पीटीसी003588/223.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंजोरा एण्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रैवल क्लब (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू63040आरजे1986पीटीसी003575/219.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रैवल क्लब (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोविडेन्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24117आरजे1986पीटीसी003770/225.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रोविडेन्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राची इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू29130आरजे1986पीटीसी003584/221.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्राची इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फार्मा केम लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24117आरजे1986पीटीसी003795/227.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फार्मा केम लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीकानेर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू70101आरजे1986पीटीसी003789/229.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीकानेर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ली ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1986पीटीसी003740/235.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ली ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है। कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयपुर कृषि उद्योग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51214आरजे1986पीटीसी003780/231.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर कृषि उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री सिद्धि विनायक कॉमप्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू30009आरजे1986पीटीसी003751/237.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री सिद्धि विनायक कॉमप्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है। कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभम् टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1986पीटीसी003787/233.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुभम् टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है। कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. वी. कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24114आरजे1986पीटीसी003721/239.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. वी. कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है। कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मूलडवेल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू25209आरजे1987पीटीसी003856/241.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मूलडवेल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शोभित टैक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1987पीटीसी003873/247.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शोभित टैक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिंग सिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू25209आरजे1987पीटीसी003842/243.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पिंग सिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अम्पायर ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24232आरजे1987पीटीसी003891/249.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अम्पायर ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुनाल प्रोटोन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24232आरजे1987पीटीसी003878/245.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुनाल प्रोटोन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्लस ब्राउन रिल्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26953आरजे1986पीटीसी003839/251.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्लस ब्राउन रिल्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित्त कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मरूधर एस्बेस्टॉस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26953आरजे1986पीटीसी003809/253.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मरूधर एस्बेस्टॉस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भागिया इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू51101आरजे1986पीटीसी003804/259.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भागिया इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारवाड़ एस्बेस्टॉस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26953आरजे1986पीटीसी003808/255.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मारवाड़ एस्बेस्टॉस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्मा टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1986पीटीसी003840/261.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्मा टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पंकज स्टील इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू27107आरजे1986पीटीसी003803/257.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पंकज स्टील इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरावली जेम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू36911आरजे1987पीटीसी003967/263.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली जेम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाई-टेक मिम डेवलेपमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू14219आरजे1987पीटीसी003919/267.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाई-टेक मिम डेवलेपमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीकानेर लीजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू67120आरजे1987पीटीसी003953/273.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीकानेर लीजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उत्तम देशी खाद प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24124आरजे1987पीटीसी003983/269.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उत्तम देशी खाद प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू36911आरजे1987पीटीसी003966/275.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मंगल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा इलास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू74999आरजे1987पीटीसी003991/271.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्णा इलास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जगदम्बा रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू15142आरजे1987पीटीसी004028/277.---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जगदम्बा रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गणपति इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू36911आरजे1987पीटीसी004041/279.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गणपति इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टाईकॉन ग्रुप ऑफ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू55101आरजे1987पीटीसी004089/285.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टाईकॉन ग्रुप ऑफ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनराइज सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू18108आरजे1987पीटीसी004044/281.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनराइज सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्शन सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू18108आरजे1987पीटीसी004103/287.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्शन सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गणपति एन्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू28995आरजे1987पीटीसी004058/283.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गणपति एन्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिजर्ट सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24304आरजे1987पीटीसी004110/289.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिजर्ट सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालाजी वायरमैन प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू31300आरजे1987पीटीसी004116/
291.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बालाजी
वायरमैन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भीलवाड़ा डाईंग प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24114आरजे1987पीटीसी004205/
297.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीलवाड़ा डाईंग
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिनी फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1987पीटीसी004124/
293.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गिनी फैंब्रिक्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भीलवाड़ा क्लोथ मिल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1987पीटीसी004207/
299.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीलवाड़ा क्लोथ
मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रिवेणी शूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू18108आरजे1987पीटीसी004135/
295.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रिवेणी शूटिंग्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाई-टेक प्रोसेसर्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17115आरजे1987पीटीसी004219/
301.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाई-टेक
प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इण्डो वॉच पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू33302आरजे1987पीटीसी004228/303.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इण्डो वॉच पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयपुर कोपीमेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू30004आरजे1988पीटीसी004292/309.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर कोपीमेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजा फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1988पीटीसी004271/305.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजा फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलवर पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू22122आरजे1988पीटीसी004293/311.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलवर पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोधपुर टाईपेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू30001आरजे1988पीटीसी004291/307.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जोधपुर टाईपेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अजमेर प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू22211आरजे1988पीटीसी004295/313.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अजमेर प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीकानेर रेप्रोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू30006आरजे1988पीटीसी004296/315.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीकानेर रेप्रोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवांग फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू67120आरजे1988पीटीसी004309/321.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवांग फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उदयपुर प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू22111आरजे1988पीटीसी004298/317.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उदयपुर प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्सेटाईल प्रोडक्ट्स एण्ड प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू22211आरजे1988पीटीसी004342/323.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्सेटाईल प्रोडक्ट्स एण्ड प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंह सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26933आरजे1988पीटीसी004304/319.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंह सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संजय फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17124आरजे1988पीटीसी004443/325.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संजय फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होटल कुण्डभारती प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू55101आरजे1988पीटीसी004386/327.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होटल कुण्डभारती प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चारु सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17118आरजे1988पीटीसी004438/333.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चारु सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोठयारी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17116आरजे1988पीटीसी004405/329.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोठयारी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री कमलदीप फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू67120आरजे1988पीटीसी004478/335.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री कमलदीप फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोलफास्ट पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू22122आरजे1988पीटीसी004435/331.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोलफास्ट पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होटल हयात् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू55101आरजे1988पीटीसी004479/337.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होटल हयात् प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जय प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू17118आरजे1988पीटीसी004481/
339.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जय प्रोसेसर्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लॉयन सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1988पीटीसी004491/
345.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लॉयन सीमेन्ट
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोठारी कलर इण्डस्ट्री लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24114आरजे1985पीएलसी003485/
341.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोठारी कलर
इण्डस्ट्री लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया
गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख
से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिमालय टी लिमिटेड के
विषय में।

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू26943आरजे1988पीटीसी004568/
347.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिमालय टी
लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और
उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित
कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पूनम शूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू18108आरजे1988पीटीसी004488/
343.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूनम शूटिंग्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजदीप डाईम्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू24114आरजे1988पीटीसी004598/
349.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजदीप डाईम्स
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजपूताना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 45201 आरजे 1988 पीटीसी 004510/351.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजपूताना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गंगापुर शूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 18108 आरजे 1988 पीटीसी 004631/359.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गंगापुर शूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हमीर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 55101 आरजे 1988 पीटीसी 004576/355.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हमीर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऑल इण्डिया मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 51101 आरजे 1988 पीटीसी 004644/361.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऑल इण्डिया मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडवांस टेक्नो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 29299 आरजे 1988 पीटीसी 004612/357.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडवांस टेक्नो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनराईज टी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 51226 आरजे 1988 पीटीसी 004647/363.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनराईज टी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आबु ऑयल एक्स्ट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 15142 आरजे 1988 पीटीसी 004670/365.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आबु ऑयल एक्स्ट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स थार केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 24232 आरजे 1988 पीटीसी 004687/371.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स थार केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्डसन एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 51101 आरजे 1988 पीटीसी 004684/367.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्डसन एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोयल सेरावेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 26921 आरजे 1988 पीटीसी 004694/373.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोयल सेरावेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंजली टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 17124 आरजे 1988 पीटीसी 004685/369.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंजली टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एग्रो प्रोसेसिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 51211 आरजे 1988 पीटीसी 004697/375.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एग्रो प्रोसेसिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डायमण्ड सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 18108 आरजे 1988 पीटीसी 004700/377.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डायमण्ड सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवरंग फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 17124 आरजे 1989 पीटीसी 004768/383.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नवरंग फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोरव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 36911 आरजे 1989 पीटीसी 004759/379.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोरव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राम सन्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 51101 आरजे 1989 पीटीसी 004779/385.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राम सन्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुमल मरकेंटाईल एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 17117 आरजे 1989 पीटीसी 004765/381.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुमल मरकेंटाईल एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदित्या जेन्स ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 36911 आरजे 1989 पीटीसी 004783/387.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आदित्या जेन्स ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुजर डिटेलीव्ज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 74920 आरजे 1989 पीटीसी 004816/389.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुजर डिटेलीव्ज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चन्दना होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 55101 आरजे 1989 पीटीसी 004863/395.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चन्दना होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लिबर्टी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 17124 आरजे 1989 पीटीसी 004824/391.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लिबर्टी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मरूधर मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 24232 आरजे 1989 पीटीसी 004872/397.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मरूधर मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साडूवाला सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 26943 आरजे 1989 पीटीसी 004847/393.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साडूवाला सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन फैशनस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 74994 आरजे 1989 पीटीसी 004888/399.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सन फैशनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री गणेश रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 15142 आरजे 1989 पीटीसी 004892/401.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री गणेश रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीनाथ बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 45201 आरजे 1989 पीटीसी 004924/407.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीनाथ बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खुशबु बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 45201 आरजे 1989 पीटीसी 004911/403.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खुशबु बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स घर आंगन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 55101 आरजे 1989 पीटीसी 004966/409.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स घर आंगन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैंडोज आयल एण्ड रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 15142 आरजे 1989 पीटीसी 004913/405.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सैंडोज आयल एण्ड रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोक जीवन प्रैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. आरओसी/जेपीआर/560/यू 22122 आरजे 1989 पीटीसी 004976/411.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लोक जीवन प्रैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनॉन इंटरकेम प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00080/48939/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अनॉन इंटरकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेल्टामार्क कोरोसन कंट्रोल
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00064/48355/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स डेल्टामार्क कोरोसन कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कटवा लैबोरेटरीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00075/48842/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कटवा लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू बॉम्बे प्रोकेम प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00060/48344/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स न्यू बॉम्बे प्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरकेनम फार्माकेम प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00069/48395/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स आरकेनम फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनो सिंथ केम प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00054/48261/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स विनो सिंथ केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिडल इंटरमिडियेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00049/48154/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बिडल इंटरमिडियेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिगल स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00354/137044/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रिगल स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेक्टेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00356/137272/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स टेक्टेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शांखेश्वर पारस्वनाथ गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00359/138890/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शांखेश्वर पारस्वनाथ गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इको गारमेन्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00382/140040/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इको गारमेन्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनिषा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00330/43862/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मनिषा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जया ग्रीन अक्रेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00333/44655/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जया ग्रीन अक्रेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाशिक फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00349/55645/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स नाशिक फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लास-होपर हॉर्टीकल्चरल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00339/45043/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ग्लास-होपर हॉर्टीकल्चरल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पॅरिटी साफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00324/113116/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पॅरिटी साफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मालदुंगे फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00346/54555/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मालदुंगे फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुरली सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00167/47482/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मुरली सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अफोर्ड टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 001768/47601/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अफोर्ड टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मायालेन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00192/47631/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मायालेन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोगनी फैब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00201/47794/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जोगनी फैब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कपासी सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00214/47817/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कपासी सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंजु सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00227/47988/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मंजु सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स करिश्मा फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00237/48166/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स करिश्मा फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सथारीया टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00250/48259/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सथारीया टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पराग नायलोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00259/48270/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पराग नायलोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोमेक्स सिंटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00858/58063/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सोमेक्स सिंटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अखिल फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00861/58256/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अखिल फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव टेक्सटॉरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00864/58495/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शिव टेक्सटॉरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिंगनघाट विविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00871/58608/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हिंगनघाट विविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मानसी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00879/58670/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मानसी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गजानन्द ट्वीस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00898/61498/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गजानन्द ट्वीस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेठ ओवरनार्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00025/111008/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सेठ ओवरनार्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शाह नितवीअर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00901/62279/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शाह नितवीअर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रविराज फिनफॅब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00883/59148/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रविराज फिनफॅब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिस्टल यार्न इंडस्ट्रीज एण्ड इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00908/62533/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स क्रिस्टल यार्न इंडस्ट्रीज एण्ड इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरला सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00911/62760/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सरला सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू दिशा भूमि विकास प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00467/111603/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स न्यू दिशा भूमि विकास प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिस्टल साइजिंग एण्ड व्हिचिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00916/62944/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स क्रिस्टल साइजिंग एण्ड व्हिचिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री सती फाईन फॅब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00639/51031/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्री सती फाईन फॅब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोगनो सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00297/48285/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जोगनो सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जय टेक्सो केमिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00647/51882/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जय टेक्सो केमिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राधारानी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00699/52945/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राधारानी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनरूपजी कोठारी सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00826/55493/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मनरूपजी कोठारी सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विभूति टेक्सो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00708/55052/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स विभूति टेक्सो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनिक यार्न इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00838/57073/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स यूनिक यार्न इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रवि निटिंग एण्ड व्हि्विंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00814/55302/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रवि निटिंग एण्ड व्हि्विंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महादेव वोवेन एण्ड सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00842/57152/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स महादेव वोवेन एण्ड सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खेतिया फ़ैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00850/57488/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स खेतिया फ़ैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रनकपुर सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00309/48295/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रनकपुर सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्डन इन्फॉब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00855/57972/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गोल्डन इन्फॉब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काब्रा टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00399/48883/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स काब्रा टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीके ट्वीस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00233/48279/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बीके ट्वीस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री कृष्णा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00471/49091/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्री कृष्णा सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अँडेप टेक्सटाइल क्रियेशन्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00478/49056/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अँडेप टेक्सटाइल क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूथ टेक्सटाइल प्रोसेसर्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00487/49276/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स यूथ टेक्सटाइल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंडस्ट्रीयल डक्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00498/49525/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इंडस्ट्रीयल डक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेस्टिज सिंथेटिक्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00609/49700/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रेस्टिज सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयदीप टेक्सटाइल मिल्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00617/50014/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जयदीप टेक्सटाइल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्पिता टेक्स-केम इंडस्ट्रीज
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00627/50965/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कल्पिता टेक्स-केम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुशीला सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00159/47414/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुशीला सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नंदगीत ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00207/066897/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स नंदगीत ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिमास ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00221/013453/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सिमास ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एल. जी. एक्सट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00204/149720/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एल. जी. एक्सट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संध्या ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00216/136789/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स संध्या ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वाड् स्वास्तिक ऑयल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00201/149680/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स वाड् स्वास्तिक ऑयल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओमकार ऑयल रिफायनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00198/148807/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ओमकार ऑयल रिफायनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. ई. प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00028/143055/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स के. ई. प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राईम ओलीवोकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00168/147518/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्राईम ओलीवोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इशान ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00225/057367/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इशान ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. आर. ऑयल्स एण्ड स्पायसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00162/144100/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एस. आर. ऑयल्स एण्ड स्पायसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंजल पाईप्स एण्ड ट्यूब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00237/163777/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इंजल पाईप्स एण्ड ट्यूब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दफ्तरी एग्रो सिड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00279/164103/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स दफ्तरी एग्रो सिड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूसा ऑयल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00294/061476/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स यूसा ऑयल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवकी एग्रो ऑयल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00284/142182/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स देवकी एग्रो ऑयल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भवानी एक्सट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00299/061998/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स भवानी एक्सट्रैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हंसराज खिमराज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00289/090817/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हंसराज खिमराज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गणेश ल्यूब ऑयल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00305/064417/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गणेश ल्यूब ऑयल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेणूका एडीबल ऑयल
रिफायनरस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00302/064059/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रेणूका एडीबल ऑयल रिफायनरस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भानुशाली कॉमेडी ब्रोकर्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00311/065201/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स भानुशाली कॉमेडी ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चोखानी रिफायनरस् प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00314/066080/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स चोखानी रिफायनरस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. ओ. फूड एण्ड अलाईड
प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00225/018666/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ए. ओ. फूड एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीपद्मनाथ एग्रो प्रोडक्ट्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00391/059522/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्रीपद्मनाथ एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काबामा फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00378/059024/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स काबामा फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोसारिओ ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00385/059052/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रोसारिओ ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महेश्वरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00351/055333/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स महेश्वरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्राफ्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00371/056153/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स क्राफ्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रब फूड प्रोडक्शन एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00347/055024/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ग्रब फूड प्रोडक्शन एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नम्पू व्यापार केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00358/055238/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स नम्पू व्यापार केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोसंबिया फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00341/054864/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कोसंबिया फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्वाकल्चर्स रिसोर्स
डेवलपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00338/052903/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एक्वाकल्चर्स रिसोर्स डेवलपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्लीस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00321/047418/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ब्लीस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीसद्गुरु मसाला एण्ड
स्पायसेस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00333/052691/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्रीसद्गुरु मसाला एण्ड स्पायसेस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फेयरकोट कमोडीटीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00317/046235/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स फेयरकोट कमोडीटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साईज्योति फूड्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00326/047961/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स साईज्योति फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फिट्स एग्रो फूड प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00311/046060/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स फिट्स एग्रो फूड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केलवर्ट फूड्स (इंडिया)
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00304/043932/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स केलवर्ट फूड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुबिया फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 0285/038985/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुबिया फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरवी ऑयल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00299/043045/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अरवी ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वसंत ऑयल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00271/034686/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स वसंत ऑयल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुलू वैली फूड्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. .--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कुलू वैली फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मॉडर्न एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स
(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00124/052689/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मॉडर्न एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लिम्पीड ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00280/100641/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स लिम्पीड ट्रेडिंग एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोरारजी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00034/08888/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मोरारजी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वासुमती एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00028/117561/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स वासुमती एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किन्ही एगोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00037/149778/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स किन्ही एगोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीयल कन्सलटेन्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00031/019463/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीयल कन्सलटेन्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राईम मूवर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00040/029141/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्राईम मूवर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किंग वैली फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00043/062922/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स किंग वैली फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरीकेन एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00397/104110/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हरीकेन एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रीन पास्टर्स कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00370/073244/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ग्रीन पास्टर्स कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जीएसएस एडवायसरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00148/108012/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जीएसएस एडवायसरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेरार हॉर्टीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00247/110070/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बेरार हॉर्टीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रामेश्वर कृषि विकास प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00019/120749/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रामेश्वर कृषि विकास प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एकता गोद फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00022/116850/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एकता गोद फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीम एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00013/119429/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बीम एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेवा एनवीरोनमेंटल फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00025/114589/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सेवा एनवीरोनमेंटल फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नमीरा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00019/145495/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स नमीरा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टकरानी एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00009/148536/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स टकरानी एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चानहील फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00025/114874/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स चानहील फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीगणेश फर्टिलाइजर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00031/068679/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्रीगणेश फर्टिलाइजर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बागवे एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00057/057619/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बागवे एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नर्बदा मल्टीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00037/133227/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स नर्बदा मल्टीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरबर्ट एग्रो फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00069/073632/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हरबर्ट एग्रो फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विदर्भ पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00046/048542/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स विदर्भ पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आयोजन एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00079/045202/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स आयोजन एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जगन्नाथ गणेशराम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00102/124016/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जगन्नाथ गणेशराम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पान लक्ष्मी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00159/075030/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पान लक्ष्मी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाल्मो एग्रो केमिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00116/066715/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बाल्मो एग्रो केमिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवोगीरी पोल्ट्री फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00165/059871/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स देवोगीरी पोल्ट्री फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोकमंगल प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00148/065535/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स लोकमंगल प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूर्य हॉट सीप टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00168/092500/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सूर्य हॉट सीप टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हितेशी एग्रो डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00172/063408/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हितेशी एग्रो डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेरोलीन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00073/097690/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सेरोलीन सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दक्षिण एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00045/096177/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स दक्षिण एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धन्धानीया एग्रो एण्ड हॉर्टीकल्चर डेवलपमेन्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00076/064064/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स धन्धानीया एग्रो एण्ड हॉर्टीकल्चर डेवलपमेन्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एवरग्रीन वुडस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00066/095808/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एवरग्रीन वुडस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुरालोका फार्मस् एण्ड रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00086/104135/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुरालोका फार्मस् एण्ड रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीलकुंभ एगो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00099/071199/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स नीलकुंभ एगो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डॅनो फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00111/095049/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स डॅनो फार्मस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रगति टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00118/077746/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रगति टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खियावेल ग्रीन फील्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00034/096211/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स खियावेल ग्रीन फील्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फोलीएज एग्रीट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00025/084054/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स फोलीएज एग्रीट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रोव्ह एगो हील इस्टेट एण्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00020/104607/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ग्रोव्ह एगो हील इस्टेट एण्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जनरस फार्मस् एण्ड अलाईड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00011/139836/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जनरस फार्मस् एण्ड अलाईड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्रिवा डिजाइन स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00177/122450/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स त्रिवा डिजाइन स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तरुण मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00115/113582/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स तरुण मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सायोनारा गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00717/013880/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सायोनारा गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दलवी प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00503/101078/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स दलवी प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इटालियन फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00550/103757/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इटालियन फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाबा सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00652/114298/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बाबा सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनी ऑर्गेनिक हैल्थ फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00153/41321/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सोनी ऑर्गेनिक हैल्थ फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वदेशी डेरी एण्ड एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00894/139750/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स स्वदेशी डेरी एण्ड एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवाजी यशवंत हांडे एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00375/48418/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शिवाजी यशवंत हांडे एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तासा एग्रोबेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00786/143666/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स तासा एग्रोबेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोजीलाल फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00179/68984/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मोजीलाल फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैपको इन्डेंटिंग प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00491/107358/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कैपको इन्डेंटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. आर. अग्रवाल प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00688/10934/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स आर. आर. अग्रवाल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवकिरण मार्केटिंग प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00524/106227/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स देवकिरण मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिमली ट्रेडर्स एण्ड सर्विसिस
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00301/134217/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सिमली ट्रेडर्स एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गायत्री हैचरीस प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00274/11277/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गायत्री हैचरीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कामथ प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00069/33059/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कामथ प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लिफ ऑपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00605/50695/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स क्लिफ ऑपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंटरनेशनल कॉटन कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00809/3944/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इंटरनेशनल कॉटन कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कूका फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00872/72193/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कूका फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयंक गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00565/112820/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मयंक गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रियंका अन्तीरेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00582/103343/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रियंका अन्तीरेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बागश्री होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00903/90059/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बागश्री होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पासुकी एग्रो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00214/123211/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पासुकी एग्रो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शाय फूड एण्ड फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00162/32605/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शाय फूड एण्ड फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओवरसीज कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00189/43029/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ओवरसीज कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इपोलिक एक्वाकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00313/70592/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इपोलिक एक्वाकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिस्टल फार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00109/129447/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स क्रिस्टल फार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डूपोन्ट फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00241/50303/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स डूपोन्ट फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किविस एजीम प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00356/87250/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स किविस एजीम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बॉडीकेयर प्रोडक्ट्स (इंडिया)
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00168/94519/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बॉडीकेयर प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनग्लो एग्रो फूड्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00368/96444/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सनग्लो एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चिन्नाचामी एन.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एरोमेटिक इनवेस्ट्रेड प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00258/102067/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एरोमेटिक इनवेस्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रस्ट्यासीअन मरीन प्रोडक्ट्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00556/102361/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स क्रस्ट्यासीअन मरीन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुदामा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00691/102075/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुदामा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैनगंगा लिजिंग एण्ड प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00536/102107/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स वैनगंगा लिजिंग एण्ड प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स की इंपेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00698/102313/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स की इंपेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिनिवस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00577/102315/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जिनिवस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पना कन्ट्रक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00106/103731/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स स्पना कन्ट्रक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एगोस्टीनो इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00093/103732/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एगोस्टीनो इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सालगांवकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00120/103736/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सालगांवकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैग्नम सौरभ इनफीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00128/103739/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मैग्नम सौरभ इनफीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शामा हर्बल कॉस्मेटिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00136/103774/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शामा हर्बल कॉस्मेटिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अवेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00681/103812/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अवेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वसंत आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00212/103843/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स वसंत आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमीत सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00687/103853/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुमीत सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यश कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. 00177/103863/560(3).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स यश कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेटकॉम इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 3027/8754.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नेटकॉम इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीयस फूड एण्ड बेवरेजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 3031/8757.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वीयस फूड एण्ड बेवरेजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुतानु टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 3033/8760.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुतानु टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स थाम्पीस कम्युनिकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 3038/8763.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स

थाम्पीस कम्युनिकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोडल कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2509/8766.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोडल कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वन्दना फेरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2485/8769.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वन्दना फेरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हँकजीयम टेक्नालाजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2781/8772.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हँकजीयम टेक्नालाजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोवा कैंशू स्पेशलिटीस
(इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2798/8775.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोवा कैंशू स्पेशलिटीस (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सतेज इन्जीनियरिंग प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2967/8778.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सतेज इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हालमार्क रिसार्ट्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2303/8781.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हालमार्क रिसार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोस्लाज डिस्टिलरीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2585/8784.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स

रोस्लाज डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनाइटेड पब्लिक रिलेशन्स
एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2843/8787.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनाइटेड पब्लिक रिलेशन्स एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन्की प्लास्टिक प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2802/8790.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सन्की प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलाइड मिलेनियम सैक्युरपैक
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2810.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलाइड मिलेनियम सैक्युरपैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लफाज ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2835/8796.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्लफाज ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोकोस इन्ट्रेक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2825/8799.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोकोस इन्ट्रेक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्लेजर होलीडे रिसार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2815/8802.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स

प्लेजर होलीडे रिसार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चाजोन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2841/8805.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चाजोन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुदर्शन रिसार्ट्स एण्ड क्लब कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 2805/8808.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुदर्शन रिसार्ट्स एण्ड क्लब कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 1 मार्च 2008

सं. आर ए पी/560(3)/सुओ मोटो/डी.स्वर्ण-112/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :--

क्रम संख्या	कम्पनी नं०.	कम्पनी का नाम
1	017008	बाबा टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2	017011	विष्णेश्वरा आग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	017016	ग्लोबीम सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
4	017048	अल्टा ऑटो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	017051	रगिनेनी कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	017052	पेलम आग्री एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	017076	स्टरलिंग एंजिम प्राइवेट लिमिटेड
8	017077	स्मारिटन इंजीनीरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
9	017078	काट एरकन्डीशनिंग लिमिटेड
10	017082	कॉन्डीड डिजिटल इक्विपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
11	017090	फ्लागशिप अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
12	017103	रिवूर आग्री टेक इंटरनैशनल लिमिटेड
13	017110	एम सी वेल इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	017111	ए सी ई रिसोर्स कन्सल्वेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
15	017115	विक्टोरी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	017118	ब्लू लागून अक्वा फार्मास लिमिटेड
17	017119	योखोमा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
18	017126	डोलफिन बयो-प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	017133	सत्या अक्वाबेस प्राइवेट लिमिटेड
20	017149	सन्दाविल्ली कन्सल्वेन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	017153	नीड्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
22	017157	कॉम्पको अक्वाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
23	017168	मददी फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
24	017171	अनन्ता माधावा अक्वामेनैन एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	017174	मेरिक्यूरि इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
26	017175	प्रोग्रेस मेर्केन्टैल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
27	017183	विजय थिम्पेक्स लिमिटेड
28	017186	मिड ईस्ट अक्वा-टेक प्राइवेट लिमिटेड
29	017195	डील वेल पैकेजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
30	017205	ललीता पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

31	017206	हमाकृष्णा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	017213	सिटी मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
33	017225	ए.के.मेटल्स एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
34	017226	व्यो-प्रकाश लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
35	017235	स्टैन्डर्ड फैब्रिक्स लिमिटेड
36	017237	मिदास बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	017238	अक्वा मिरलिंग लिमिटेड
38	017244	अभिलाश ओरिएन कन्सल्टन्स
39	017249	जयनवी फूड्स लिमिटेड
40	017256	इश्वर हेल्थलिक्स लिमिटेड
41	017273	विजया टेलीकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
42	017277	लिनिक्स इंजीनीरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
43	017281	रान्धोप पब्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	017284	ए.पी. एल्लो पेजेस पब्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
45	017289	एम.पी. साफ्टवेयर कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
46	017299	बी.एस.आर. अक्वा फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
47	017309	क्रांति किनण पौल्ट्री कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
48	017311	लेकेश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
49	017318	जपाडिया स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
50	017321	रघू साफ्टवेयर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
51	017329	विष्णुला अक्वा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
52	017333	डात्ता राई इंजीनीरिंग प्राइवेट लिमिटेड
53	017346	पोलारिस अक्वा लिमिटेड
54	017351	के.प्राल इन्सुलेटड कन्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
55	017382	एम.पी. कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
56	017385	ब्रेंडवे इंजीनीरिंग सैन्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
57	017390	विमल पॉलिमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
58	017392	एस.पी.जी. एक्जिम एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
59	017428	वे.एल.के. होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	017435	पिंगाससू एविएशन एण्ड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
61	017441	श्यामाला ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
62	017442	अमूल्य ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
63	017450	अमाला अक्वा फूड्स लिमिटेड
64	017451	मधू अक्वा कल्चर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
65	017464	पी.जी.एम. फूड्स एण्ड फिड्स प्राइवेट लिमिटेड
66	017466	वाक्समान लॉबोरेटरीस (इण्डिया) लिमिटेड
67	017467	रिस्टोन फर्मा (इण्डिया) लिमिटेड
68	017483	बी.एस. एडिफिकल इण्टरसीस लिमिटेड
69	017513	राक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
70	017516	वाल्डमैन एंड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
71	017550	एन.आर.एस. इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
72	017556	जैमि जॉर्ज डेवेलप्स एण्ड ऑटोमोबाइल कांस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
73	017575	एम.के.ए.ए. एविएशन लिमिटेड

74	017584	चेरूकूर मिनिरल्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
75	017624	जशिका आग्रो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
76	017629	डाडिगे एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
77	017637	मैक्रो मेगा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
78	017647	आस्तेकर एप्पारेल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
79	017668	गोल्ड पेट्रो-कैम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
80	017678	बकिश अक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड
81	017691	ज्येश्वर इलेक्ट्रीकल एल्पेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
82	017705	औरा इलेक्ट्रीकलस प्राइवेट लिमिटेड
83	017708	रिजो एलियम प्राइवेट लिमिटेड
84	017709	कॉन्टीनेन्टल ब्लू बॉटर फूड्स लिमिटेड
85	017710	विश्वा शिपिंग एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
86	017711	राधाकिष्णा पौल्डी प्राइवेट लिमिटेड
87	017720	साईनारा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	017726	सिमहापूरि कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
89	017727	एस फार्स्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
90	017728	रवि किरन कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
91	017742	सत्यम अक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड
92	017749	अकेस लेसरकॉर प्राइवेट लिमिटेड
93	017750	मता आग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
94	017757	श्रीजय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
95	017759	सोलमन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
96	017769	लक्ष्मी पोलीफोन प्राइवेट लिमिटेड
97	017776	नैक्टीयस मैक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
98	017862	श्री कालेश्वरि पार्सिल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
99	017900	विन्सटार इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
100	017902	रवितेजा डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
101	017904	अफिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
102	017914	हेच.एस.इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
103	017917	मेगा सोलार सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
104	017921	शीकारा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
105	017931	पंचावति रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
106	017940	नोवा नापकिन्स प्राइवेट लिमिटेड
107	017977	बलाजी एक्सप्लोसीव्स प्राइवेट लिमिटेड
108	017981	अखिल इंजीनीर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
109	017983	श्री साई बोटल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
110	017987	गोल्डेन स्ट्रीक ओवरसीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
111	017997	भाग्यानगर शीप फार्मास लिमिटेड
112	017999	पवन आग्रो-फर्टीयुन्स लिमिटेड

के. लक्ष्मी प्रसाद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 1 मार्च 2008

सं. आर ए पी/560(3)/सुओ मोटो/TV/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनी विघटित कर दी जाएंगी :--

1	रससेल शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	024015
2	अनुषा आग्रो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024017
3	धरनी डयरी एण्ड आग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड	024060
4	नित्या आग्रोस प्राइवेट लिमिटेड	024075
5	विसवास आग्रो - टेक प्राइवेट लिमिटेड	024079
6	राघव्रन्द्रा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड	024101
7	अलबुरहान शिपिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	024114
8	वी.एस. कन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	024125
9	भार्गवि मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	024130
10	इमेज एन्वीरॉनमेन्टल लाब्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024143
11	साफल आग्रोटेक लिमिटेड	024171
12	मोक्कापाटि रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	024180
13	तिरुमाला टूरिस्ट काब्स प्राइवेट लिमिटेड	024184
14	श्री साई विष्णु कन्सल्टन्स लिमिटेड	024187
15	ओरुगल्लू आग्रो फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	024196

16	नेक्सट एज सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	024199
17	नेक्सट एज नेटवर्कस प्राइवेट लिमिटेड	024202
18	तिरुमाला गृहाविकास प्राइवेट लिमिटेड	024203
19	है – विन सरफेस कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	024204
20	सना प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	024205
21	स्टान्डलोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	024208
22	राजवॉरल्ड ऑनलैन प्राइवेट लिमिटेड	024227
23	चारमिनार गैसकेट लिमिटेड	024235
24	मेटाप्लास्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	024243
25	नवयुगा आग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	024264
26	यूनिवर्सल सोलजर, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	024265
27	श्री पाँचेश्वारा हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड	024274
28	रिइनबर्ग वैर्स लिमिटेड	024278
29	के.वी.आर. ग्रीन वेल्थ (इण्डिया) लिमिटेड	024293
30	सुल्तान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	024295
31	नव्या एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	024296
32	वास्तु रक्षा कन्सल्टन्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	024297
33	मरिनेनी फार्मास लिमिटेड	024304
34	करुना एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	024309

35	श्री रुद्रानी कन्सट्रक्शन्स एण्ड आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024318
36	फील्ड होल्डींग्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	024322
37	श्री चैतन्या आग्रो एण्ड शीप फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024323
38	सीयो टेम्पो ट्रेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	024355
39	आर्कटिक एस्टेट्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	024356
40	कीर्तीना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	024357
41	शीपेर्ड फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024365
42	गेमाता डैयरी प्राइवेट लिमिटेड	024367
43	रामेश ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	024372
44	डिल्वेला ट्रावेल्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	024379
45	इन्टीग्रेटेड फाब्स प्राइवेट लिमिटेड	024391
46	वी.वी. एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	024406
47	विशनरी प्रोजेक्ट इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	024422
48	रोडासी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	024467
49	क्रान्ती वरलड तेलुगु रिसार्ट्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	024472
50	प्रशांती कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड	024482
51	शीफान फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	024487
52	मास्टरजी एक्सकावेटर्स लिमिटेड	024488
53	आस्टर आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024493
54	अदवैत्या केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	024495

55	श्रीलेखा आग्री फार्मास एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024510
56	शेल्टर फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024512
57	सिरिशा आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024519
58	सौभाग्या लक्ष्मी आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024522
59	सुलब आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024523
60	गोवेल गोर्ट्स एण्ड आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024530
61	मन्ची एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024604
62	ग्रीनलान्ड्स मल्टि प्रॉजैक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	024639
63	एस.एल.डी.फीलीट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	024675
64	रम्या कम्युनिकेयन्स प्राइवेट लिमिटेड	024679
65	अजिता लाबोरेटरिस प्राइवेट लिमिटेड	024680
66	ब्राकशैर फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड	024683
67	श्री दीवान रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स लिमिटेड	024699
68	शेशसाई पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड	024709
69	चिलप्रिक्श गारमन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024710
70	रिचवेल्ड अग्लोमेरेट लिमिटेड	24712
71	उदयम पब्लिशर्स लिमिटेड	024725
72	उदयम कैपिटल रिसोर्स लिमिटेड	024730
73	सन एण्ड विसाखा रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024736
74	ब्राइट कैम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	024742
75	बिलापुर आग्री-अनिमल हसबेन्डरी प्राइवेट लिमिटेड	024744
76	ए पी जी प्रोफेशीनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	024746
77	वहिट लैन कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	024752
78	सूपर स्टार इंजीनीर्स एण्ड कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	024755
79	अनेजा अडवर्टइजिंग लिमिटेड	024761
80	छारिता निजमान लिमिटेड	024768
81	बेस्ट ग्रुप आग्री प्रॉडैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024788
82	के एन आर पावर कन्वर्शन प्राइवेट लिमिटेड	024792
83	निखिला आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	024802

84	रिची 'न' रिची ग्रीनफिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	024808
85	अरुनोदाया हॉलिडे रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	024831
86	साई जीवन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	024836
87	साफ्टकॉम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	024841
88	गोपी माशीन प्राइवेट लिमिटेड	024849
89	शेशाद्री टूरिस्ट्स रिसोर्ट्स लिमिटेड	024859
90	वैष्णवी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड	024869
91	अक्किनेनी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	024873
92	श्री चक्रा हौसिंग प्राइवेट लिमिटेड	024880
93	सिरी फिनकॉन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	024909
94	रनेहामित्रा आग्रो फार्मास लिमिटेड	024910
95	प्रगति एल पी जी प्राइवेट लिमिटेड	024914
96	हिमालया गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड	024915
97	रूमो लेदर्स लिमिटेड	024918
98	श्रीशाह इन्फोटेक लिमिटेड	024927
99	शिवा शिवानि एस्टेट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	024947
100	एस.वी. रियाल्टि प्राइवेट लिमिटेड	024948
101	सुफाला आर्चेड्स प्राइवेट लिमिटेड	024955
102	एन.एस.आर.इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	024963
103	मित्रा है - टेक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	024971
104	अनेजा फिल्मस लिमिटेड	024976
105	होममेट अप्लाइनसेस (इण्डिया) लिमिटेड	024991
106	सास टाउनशिप प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	024994
107	विजायावासवी ऑटो एण्ड जेनरल एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	025017
108	वेगा न्युस एण्ड विशन्स प्राइवेट लिमिटेड	025022
109	रुमिक सत्या साई फिसकल सर्विसेस प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025032
110	श्री सत्या साई फिसकल्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025053
111	स्मार्ट फिरीफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड	025060
112	पुशपक आर्चेड्स प्राइवेट लिमिटेड	025076
113	पॉवर स्पॉट बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	025077
114	रियल इण्डिया फोरेस्टर्स लिमिटेड	025079
115	कास्टल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	025087
116	वशीष्ठा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025089

117	श्री रंगा एसटैलिन प्राइवेट लिमिटेड	025094
118	सी सी एस आई वॉर्क प्राइवेट लिमिटेड	025111
119	वरिष्ठा एक्सट्रडर्स प्राइवेट लिमिटेड	025112
120	प्रभु रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025115
121	वैट् फिल्ड फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025116
122	हुस्सैन एस्टेट्स लिमिटेड	025117
123	श्री चका जुको टेप्स प्राइवेट लिमिटेड	025118
124	विद्या नेट् सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025123
125	माट्रिक्स सेक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड	025124
126	सिटी लैट कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	025128
127	सिटी लैट आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025129
128	ऑनिक्स मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड	025130
129	एमिनेन्ट पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	025132
130	श्रीनायानि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	025140
131	श्री सत्या साई बाब आग्रो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025143
132	एस.जे.एस.एम. आग्रो फार्मास लिमिटेड	025147
133	पन्चाजन्या एस्टेट्स इण्डिया लिमिटेड	025152
134	बेलसन पिट्रो कैम प्राइवेट लिमिटेड	025160
135	अनुषा कारपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025166
136	एपेक्स एस्टेट्स (इण्डिया) लिमिटेड	025167
137	जासको इरिगेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	025172
138	स्पेक्ट्रा आर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	025175
139	दुर्गा मल्टिवैर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	025177
140	गुल्लिमोट ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड	025181
141	कीर्ति कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	025184
142	भाग्याश्री सिमेन्ट्स लिमिटेड	025192
143	श्री श्रीनिवासा इन्वीरानमेन्टल कन्सलटन्टींग इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	025200
144	विनसाफ्ट इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	025210
145	स्वर्णमुखी एस्टेट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	025220
146	शहेन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	025237
147		025244

	कृष्णा शंति होलिडे रिसार्ट्स इण्डिया लिमिटेड	
148	स्वेता एडिफैसिस प्राइवेट लिमिटेड	025246
149	पारागॉन सिमन्ट्स लिमिटेड	025255
150	रेड सी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	025263
151	पियाकॉक जेम्स लिमिटेड	025271
152	गेपीकृष्णा आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025303
153	श्री सत्या देवा सिमन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025307
154	भवानि फार्मास एण्ड फिड्स प्राइवेट लिमिटेड	025310
155	सौजन्या इको फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	025320
156	जानैस फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025321
157	लोया कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	025329
158	सौजन्या फार्मास एण्ड रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025337
159	ट्रान्स वेव चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	025338
160	संग्राम आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025339
161	विमर्सन एलेक्ट्रनिक्स लिमिटेड	025343
162	श्री आजनेया स्टील्स लिमिटेड	025345
163	प्राजा कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	025348
164	किडेन्स आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025352
165	श्री साईनिधी होम्स प्राइवेट लिमिटेड	025366
166	एविएन ब्रीडिंग फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025369
167	आलयम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	025376
168	आर.के.ई. मेरकेन्डाइसड लिमिटेड	025385
169	प्रियाका आग्री-टेक प्राइवेट लिमिटेड	025391
170	जनाता हेल्थ कैर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025394
171	ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरी फार्मा एण्ड रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड	025395
172	शेरवालि प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	025397
173	जेता टैमरोर सिन्डीकेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	025402
174	शातिश्री रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	025404
175	जे.वी.आर. एण्ड एस.आर्.ए. टेक एण्ड एस्टेट्स लिमिटेड	025423
176	एक्साल्ट आडियो विडियो लिमिटेड	025426
177	एम्बियन्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	025430
178	श्री धुनि फिरेकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025434
179	दिव्याक्षेत्रा रिसार्ट्स एण्ड होटल्स लिमिटेड	025437
180	सूर्या भार्गवा काटल फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	025446
181	विकि एण्ड ब्रोस ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	025451
182		

	स्कै एण्ड सी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025459
183	शाक्ति फार्मा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	025464
184	गोल्डलैन आग्रो प्राइवेट लिमिटेड	025465
185	एक्सक्लूसिव आल्लायस एण्ड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड	025468
186	सौभग्या एक्सट्रैक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	025476
187	कृष्णावेणी लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड	025482
188	कैवलायम टेक्सटाइल्स एण्ड इंजीनीरिंग लिमिटेड	025494
189	धानाधरशिनी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	025498
190	सुधा पोलिमेर्स लिमिटेड	025499
191	बाग्स इन्डमेट प्राइवेट लिमिटेड	025526
192	वेराइटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	025528
193	श्री नवोदया पार्सिल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025537
194	तुल्सी कान्द्राक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	025546
195	रेड-वेल्ली आग्रो-टेक प्राइवेट लिमिटेड	025558
196	कुमार्स बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड	025560
197	श्री वेंगी फार्मास एण्ड ब्रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड	025566
198	डिल्लक्स होम नीड्स प्राइवेट लिमिटेड	025616
199	साई दशीनी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	025618
200	डील्लक्स रियल्टर्स एण्ड इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	025623
201	सॅनरैस हार्डवेर एण्ड साफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड	025624
202	प्राभवा मार्केटर्स प्राइवेट लिमिटेड	025625
203	शाह एण्ड शाबान कोच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	025629
204	वसावि ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	025634
205	वीवी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	025636
206	आदर्शा शोरटन प्राइवेट लिमिटेड	025637

207	जे आर आर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	025638
208	वैस मेन कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	025640
209	इन्डो पेन्नीसीलवानिया हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड	025648
210	जेम डिटरजेन्ट्स एण्ड सोप्स प्राइवेट लिमिटेड	025649
211	स्नेहा कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड	025656
212	इन्डो-टेक अब्रासिव्स प्राइवेट लिमिटेड	025664
213	प्रेस एक्सपोजिशनस लिमिटेड	025673
214	प्रेमसाई सी फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025678
215	बृन्दा रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025682
216	दिव्या साई ऑइल्स प्राइवेट लिमिटेड	025691
217	जोन्नालागड्डा हेन्डलूम हाउस प्राइवेट लिमिटेड	025707
218	प्लास्टिकोस मेशिनरि इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	025713
219	पद्मावती स्टीव्स प्राइवेट लिमिटेड	025716
220	शाहाना प्रॉजेक्ट्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड	025718
221	श्री नागा साई कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड	025730
222	कान्तीनेन्टल फोरेस्ट इण्डिया लिमिटेड	025776
223	सुमित्रा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	025778
224	हिल टॉप ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	025779
225	ईपुरि टेलिकॉम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	025781
226	रामा चन्द्रा स्ट्रॉ प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	025790

227	हेमानजालि आग्री फूड्स लिमिटेड	025791
228	डॉक्टर्स सिन्डीकेट हेल्थ ऐड्स प्राइवेट लिमिटेड	025795
229	ओवरटॉप बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	025804
230	हैद्राबाद ऑप्टो-एलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	025814
231	उषा कान्ती रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025816
232	श्रीगम एक्जिम्स प्राइवेट लिमिटेड	025822
233	ऑस्सी ब्रिक्स एण्ड सिमेन्ट्स लिमिटेड	02524
234	काव्या एन्टरप्रेसेस प्राइवेट लिमिटेड	025826
235	गंगा गार्डन्स इण्डिया लिमिटेड	025832
236	दीपिका क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	025833
237	फलै डाक कोरियर प्राइवेट लिमिटेड	025834
238	साई शाहारा आग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025842
239	हैसेक कारडियो वास प्राइवेट लिमिटेड	025847
240	विनसारि फिनटेक लिमिटेड	025854
241	अबोड इण्डिया फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	025867
242	नासर इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	025869
243	श्री कादाम्बरि अग्रीकल्चरल इंजीनीरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	025870
244	गोल्डेन वुड फोरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	025901
245	कॉम्फोनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	025909
246	अलाकापुरि बिल्डर्स लिमिटेड	025913
247	सूपर स्टमपिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	025922
248	एस्टेट्स एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड	025929
249	कामाधेनु चीस स्पेशलीटीस लिमिटेड	025932
250	पंचाजन्या आग्री इण्डिया लिमिटेड	025939

251	क्रिड-एड कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	025945
	श्री पेन्नी प्रोपर्टीस डेवलपर्स लिमिटेड	025948
252		
253	साई एन्टरप्राइसेस (ट्रान्समिशन) प्राइवेट लिमिटेड	025951
254	इन्टेक कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	025966
255	हैदराबाद हेप्पी होम्स एण्ड ऑरचेर्ड प्राइवेट लिमिटेड	025975
	हन्सा कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड	
256		025979
257	मितुना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	025982
258	एल.डी. टेररी टेक्स प्राइवेट लिमिटेड	025984
	रीच आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	
259		025991
	भान्धवी इंजीनीरिंग प्राइवेट लिमिटेड	
260		025992
	ग्लीम आग्रोस एण्ड फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	
261		026000
	मनि शैला रि-रोल्लिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	
262		026009
	मैक्रो टेक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	
263		026010
	फार्मा कन्सल्टेशन कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	
264		026013
	साइसन एण्ड स्पानसान इंजीनीरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	026021
265		
266	पेन्यूल आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	026023
267	डिविर्टेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	026026
268	पिसिएन कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	026033
269	ग्रीन्सकूट्स एक्सप्रोस राबिस प्राइवेट लिमिटेड	026047
270	अल्पा मिडिट्रेड लिमिटेड	026051
	इन्टीग्रेटेड चैन्स एण्ड स्प्रोकेंटर लिमिटेड	026057
271		
272	नीरज प्रिकारट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	026064

273	धारानिधारा इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	026076
274	अल-मिर्जा मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	026081
275	साई श्रीराम है-टेक ग्रीनेरीस लिमिटेड	026084
276	बतिना एण्ड मन्दवा कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	026092
277	भीमन्नापाटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	026093
278	सन-स्कान हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	026096
279	श्री साई कृपा होम्स प्राइवेट लिमिटेड	026101
280	नव्या कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड	026103
281	वे.एस.आर. एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड	026113
282	मधुलिका इंजीनीरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	026122
283	अरहन्त लैमिनेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	026126
284	पी.आर.सी. कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	026130
285	श्री अन्नापुर्ण टान्नीरीस प्राइवेट लिमिटेड	026136
286	विपनी सेविंग्स एण्ड आग्री कमर्सीयल सर्विसेस लिमिटेड	026142
287	मोनार्च आर्चेड्स लिमिटेड	026157
288	श्री सिद्दी मारुति ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड	026170
289	युनि रॉयल इन्टरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड	026174
290	सिनडीकेट एक्विजम (इण्डिया) लिमिटेड	026179
291	सिनर्जी ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड	026192
292	विन्डसर-मिनि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	026193
293	वन्या हरिनि आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	026219
294	अमिस इन्फोरमेटिक्स लिमिटेड	026224
295	ट्रान्सविशन कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	026228

296	ग्रीन फियुचर फार्मस एण्ड फोरेस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	026238
297	प्रेरणा कोरपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	026239
298	सुकैम क्लोरे प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	026241
299	साई कॉम्पट्रा प्राइवेट लिमिटेड	026250
300	मेगा रिसोर्ट्स एण्ड होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	026251
301	माक्सकूल रिफ्रिजिरेशन प्राइवेट लिमिटेड	026268
302	श्री वैशनो प्रिंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	026273
303	सैबर अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	026274
304	श्री वेंकटासाई आग्री एण्ड डेयरी फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	026275
305	मेन्नूर फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	026279
306	न्यूट्रामेक्स लॉबोरेटोरिस प्राइवेट लिमिटेड	026280
307	एलर्ट डोमेस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	026284
308	ट्राक कोरियर्स एण्ड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	026288
309	नस्वा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	026290
310	अक्वा स्पीन्निंग (इंड) लिमिटेड	026294
311	विग्नेशवारा आग्रो-टेक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	026295
312	भाग्याश्री कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	026300
313	भाग्याश्री इण्डस्ट्रियल लिमिटेड	026301
314	रनेशमित्रा फिनटेक लिमिटेड	026304
315	प्रगति शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	026311
316	भाग्याश्री आइसक्रीम एंड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	026313

317	भाग्याश्री सिनि फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	026314
318	धोल एण्ड घोरानि कन्सट्रक्शन्स एण्ड फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	026315
319	वरिमनगर मारुति मोटर क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड	026318
320	वैभव मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड	026319
321	एस्सार कैम लैन्स प्राइवेट लिमिटेड	026950
322	डाविडसन तिरापियुटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	026959
323	कावेरिपट्टनम कार्स लिमिटेड	026964
324	स्पान अडोब ब्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड	026978
325	एस.आर.ए. इम्पेक्स लिमिटेड	026982
326	जनाहिता इन्टरप्रिनियुर्स लिमिटेड	026992
327	सूर्या वंशी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	026995
328	विश्वा विकास रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	026996
329	ग्लोबल एक्सप्रेस ट्रान्समिटर्स प्राइवेट लिमिटेड	026998
330	चुक्कापल्ली कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	027005
331	मेगनेट बिजिनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	027016
332	विन्नाकोटा स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड	027020
333	रेडियन्ट लिविंग एन्वीरॉनमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	027028
334	ए.सी. एलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	027030
335	श्री सन्नीधी रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	027037
336	साई दुर्गा कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड	027038
337	फानि मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	027042
338	विजया साई आग्रो-साप टेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	027043
339	मल्लिकार्जुना आग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड	027047

340	ट्राक प्रोपर्टी मैनेजमेन्ट लिमिटेड	027049
341	तरनाका कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	027056
342	नेक्सट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	027059
343	मार्ला आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	027061
344	भारनी एक्जिम्स प्राइवेट लिमिटेड	027065
345	श्री साईतेजा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	027069
346	पौलोमि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	027076
347	पोलिस्टार फूड्स ट्रेडिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	027088
348	साफाला कमर्सियल्स प्राइवेट लिमिटेड	027089
349	मुक्ति रिसोर्ट्स एण्ड एस्टेट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	027102
350	कोल्लीपारा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	027105
351	श्री कृष्ण तेजा मार्केटिंग एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड	027112
352	वर्षा इन्टेक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड	027113
353	इमेज पफ प्राइवेट लिमिटेड	027115
354	पारामौन्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड	027123
355	स्वर्णा कैबल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	027126
356	वी.सी.एल. फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	027128
357	स्नीगधा इन्फो-टेक लिमिटेड	027131
358	इन्ट्रुन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	027134
359	साई अक्षाता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	027135
360	अलिसन आग्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	027148
361	वेन्काटा रामणा हैर पर्वेस लिमिटेड	027151
362	सूजी एलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	027172
363	सेलिस्टल इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	027183
364	इम्माडि फेस्टीलैसर्स एण्ड आग्री ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	027185
365	पोलडा कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	027186
366	प्रेम रिलीजस प्राइवेट लिमिटेड	027190

367	फर्सट मिडिया एण्ड इन्टरटेनमेंट लिमिटेड	027208
368	देवी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	027215
369	फिलिक एलैक्ट्रानिक्स इण्डिया लिमिटेड	027229
370	विजयालक्ष्मी हान्डीकाफ्ट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	027243
371	रिड्ज एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	027248
372	माक्रो पेस्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड	027259
373	फाल्कोन डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड	027261
374	रिची ड्रग्स लिमिटेड	027263
375	ग्रीन टर्फ स्पोर्ट्स मैनेजमन्ट प्राइवेट लिमिटेड	027267
376	बोगोलू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	027274
377	सुमेक एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	027290
378	मान पोलि अल्लाइस लिमिटेड	027300
379	रेज आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	027303
380	अरुणा साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	027304
381	रास साफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	027313
382	राज्यालक्ष्मी हैर पर्चेस लिमिटेड	027314
383	साई सादन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	027315
384	आर्क इंजीनीरिंग एण्ड ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	027318
385	विदुरा आग्रो फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	027321
386	रजनि वरंगल गैड प्राइवेट लिमिटेड	027331
387	साम्बासिवा एक्सट्राक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	027334
388	चेतन ऑटो-टेक प्राइवेट लिमिटेड	027354
389	गृहालक्ष्मी होम्स प्राइवेट लिमिटेड	027358
390	आल्टा-विस्टा ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड	027359
391	कॉपकोर इन्फो टेक (इण्डिया) लिमिटेड	027362
392	रावलि हैर पर्चेस एण्ड फैनान्स इण्डिया लिमिटेड	027365
393	पद्मावप्रिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	027369
394	चिक्केनटा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	027376
395	माधावा फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	027381
396	पनुगन्ती एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	027383

397	मित्रा एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	027408
398	कोतारि प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	027411
399	ब्रिन्दावन मानजियम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	027415
400	हिमान एर्त मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड	027423
401	नगामनि आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	027425
402	सिनोवा साफ्टवेर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	027426
403	सॉग्रास साफ्टवेर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	027429
404	साई तेजा शिपिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	027433
405	पील साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	027434
406	पाब्बा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	027438
407	साईकिष्णा सिल्कस प्राइवेट लिमिटेड	027439
408	मानसा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	027448
409	अमूल्या मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	027453
410	श्रीमान बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	027454
411	हिमाजा डेयरि प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	027465
412	पोलामुरु आग्री-टेक प्राइवेट लिमिटेड	027468
413	प्रति हेंड्रो पार्ट्स एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	027474
414	झीम साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	027478
415	पद्मावति क्रीटिकल कैर सेन्टर लिमिटेड	027480
416	श्रीमान कैशचिव प्राइवेट लिमिटेड	027487
417	विदेहि आग्री एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	027488
418	वेंकटरामना आग्रीटेक (इण्डिया) लिमिटेड	027497
419	तुला मोनी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	027502
420	आदित्या स्पोक्स प्राइवेट लिमिटेड	027506
421	डॉ आर एम्स ड्रस प्राइवेट लिमिटेड	027507

के. लक्ष्मी प्रसाद
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 1 मार्च 2008

सं. आर ए पी/560(3)/सुओ मोटो/V.S.-238/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :--

क्रम संख्या	कम्पनी नं०	कम्पनी का नाम
1	005587	वकातीया सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2	005590	मस्त मार्केटिंग लिमिटेड
3	005607	होइलिक्स ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
4	005609	नागावल्ली आगो इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
5	005611	सबा स्टील री-रोल्लिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	005613	राविबाला मार्केटिंग एण्ड एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
7	005614	कॉन्टीनेन्टल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	005623	रविंद्रा स्पीन्निंग मिल्स लिमिटेड
9	005626	पद्मालाया पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	005630	एक्सेन पोलिमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	005633	वार्द ऑर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	005639	एल वी एड्वान्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
13	005647	जी वी जी मरैन कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	005648	दीप्ती श्री कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
15	005650	एक्सपो मोटोर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	005657	विसू प्रान्चैसेस प्राइवेट लिमिटेड
17	005662	है-पेर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	005664	एसियन लाप्स प्राइवेट लिमिटेड
19	005665	लॅक्की गोल्ड स्टार कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	005673	कोस्टल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
21	005674	डी वी आर ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	005675	वासू ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड

23	005679	बी आर अण्ड बी एस कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	005680	इन्टेल वैनस प्राइवेट लिमिटेड
25	005683	फार्मालेन्ड फूड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
26	005684	सरोजिनि होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	005700	सन्धमित्रा प्रिन्ट ऐड्स प्राइवेट लिमिटेड
28	005706	अकुट्स प्लारिटक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	005710	नॉबिल्ड काफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	005711	दीप्ती क्वार्टर्जैट मैन्स प्राइवेट लिमिटेड
31	005713	बलाजी स्टोन वेर पैप्स अण्ड रिफाक्टोरिस प्राइवेट लिमिटेड
32	005714	पोटेन्सीयल मार्केटिंग अण्ड अडवर्टइसिंग प्राइवेट लिमिटेड
33	005717	बयो-मास फूल्स इण्डिया लिमिटेड
34	005718	जयाराम इंजीनीरिंग इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
35	005720	ऑपको वैनस प्राइवेट लिमिटेड
36	005723	है-लइट एड्स लिमिटेड
37	005753	विसाखा ओवरसीस मेकन्टैल प्राइवेट लिमिटेड
38	005760	अक्षाया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
39	005762	नगू बिसिनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
40	005766	सूपर फैन ऑइल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
41	005777	आनन्द मरैन्स प्राइवेट लिमिटेड
42	005782	केन्नारा अल्लोय स्टील प्राइवेट लिमिटेड
43	005786	हेमा प्रोसेसड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
44	005799	रोम कार ग्रानैट डीसेस प्राइवेट लिमिटेड
45	005800	सेवन-मेग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
46	005806	सेवन स्टॉर्स लिक्विडर्स प्राइवेट लिमिटेड
47	005811	जीवागड्डा पब्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
48	005821	सबा सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
49	005824	कामाकोटि एलैक्ट्रनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
50	005826	कोस्टल इन्स्टर्स लिमिटेड
51	005827	श्री सम्पूर्ण होटेल एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
52	005829	राघवेंद्रा फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
53	005836	विगवेन फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

54	005846	रिलयन्स इन्डस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड
55	005855	शंकर फिलामेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
56	005877	मानैर इलैक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
57	005881	ईस्ट कोस्ट सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	005890	गाजानान्दा स्टील री-रोल्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
59	005902	अक्काम्मा फूट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	005907	साई ट्रेडिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
61	005915	जेल्ट्रॉन इनस्ट्रुमेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
62	005920	ग्रो मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	005939	चन्द्रा प्रकाश कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
64	005950	श्री दुर्गा टोबाको कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
65	005959	निर्मल विशन्स प्राइवेट लिमिटेड
66	005962	ज्योति गनेश प्लारिस्टिक इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
67	005968	कामाधेनू सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
68	005971	स्नीग्दा ग्रनैट्स प्राइवेट लिमिटेड
69	005973	कॉस्मीक बिसिनेस इक्विपमेन्ट्स एण्ड एड्स प्राइवेट लिमिटेड
70	005976	ताण्डर डैयरि एण्ड आग्रो फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	005989	निर्मल कन्सुमर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
72	005994	क्रिसपेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
73	006002	ग्रानैट्स एण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
74	006005	एलमेक इण्डस्ट्रीयल इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड
75	006006	मेघाना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
76	006009	मेहिनिसूरा डिस्टिल्लेरीस प्राइवेट लिमिटेड
77	006017	कॉसमोट्रॉन एलैक्ट्रनिक्स लिमिटेड
78	006020	सन्ताज इलैक्ट्रोप्लै लिमिटेड
79	006022	सुवर्णा काम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
80	006036	तुलसी मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
81	006041	सान्ड्स कैमिकल्स इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
82	006042	पदमावासीनि कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
83	006051	श्यामालाम्बा इंजीनीरिंग इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
84	006055	लिवेल्लस फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

85	006063	जगन्नात फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
86	006067	साईकिपा ट्रान्स फ्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
87	006071	कौशाला हडसिंग डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
88	006073	ओनियन मार्केटिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
89	006074	ओरियन बिसीनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
90	006083	रवीरेला सिमेन्ट्स लिमिटेड
91	006098	माइनर स्टील रि रोल्लींग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
92	006099	विक्रम फूट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
93	006103	के वी इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
94	006120	सत्यावर्लड ट्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड
95	006139	राधा ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
96	006140	राधा कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
97	006145	यूटी कैमिकल्स एण्ड एलैड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
98	006162	श्री विजाया क्रिष्णा मिनिरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
99	006172	एक्सॉन पैकेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
100	006180	नित्या स्वीचगियर प्राइवेट लिमिटेड
101	006190	ब्राइट साक्स प्राइवेट लिमिटेड
102	006203	ब्राइट हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
103	006213	हैदराबाद जामिनैट्स प्राइवेट लिमिटेड
104	006220	वर्मा इण्डस्ट्रीयल कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
105	006224	अपूर्वा इण्डस्ट्रीयल एण्ड रिजुवेशन कन्सलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड
106	006226	है-व्हील्स ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
107	006227	तिरुपति स्ट्रीप्स लिमिटेड
108	006228	वसू कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
109	006232	खेरा फूड्स एण्ड मेरैन्स लिमिटेड
110	006233	डिलैट मेनैन फूड्स स्पेशलिटीस लिमिटेड
111	006240	बालाजी रि-रोल्लींग मिल्लस प्राइवेट लिमिटेड
112	006242	लक्ष्मी बारियम प्राइवेट लिमिटेड
113	006245	है-फ्ले ऑइल्स प्राइवेट लिमिटेड
114	006246	विकास कॉन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
115	006248	सुविशाल सेल्स एण्ड सर्विसेस (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
116	006256	पास्ट - ओ - मैल्ड प्राइवेट लिमिटेड
117	006259	सिन्दु सिस्मस एण्ड इलैक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड

118	006272	ऑरिक इलैक्ट्रो लिमिटेड
119	006288	मोडर्न हाबिटाट एण्ड नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
120	006293	एल.वी.गैस एण्ड फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
121	006295	किशानाया इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
122	006297	श्री देवी मल्टी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
123	006299	करुना फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
124	006306	कॉन्सेप्ट इंजीनीरिंग प्राइवेट लिमिटेड
125	006311	शेनान्क क्वालिटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
126	006315	गौतमी प्रोपर्टीस लिमिटेड
127	006317	सरोवर कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
128	006322	बयोमेड लॉबोरेटरीस प्राइवेट लिमिटेड
129	006378	शानॉक मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
130	006379	नेनि कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
131	006384	एस आर इण्डस्ट्रीयल कारबन्स प्राइवेट लिमिटेड
132	006401	अक्षिता एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
133	006416	सॅनकोला एलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
134	006423	युटिलिटी ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
135	006424	कॉप्टैन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
136	006438	रिशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
137	006457	नेप्ट्यून फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड
138	006462	श्री पद मेटल्स एण्ड एल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड
139	006471	वम्शी पैप्स प्राइवेट लिमिटेड
140	006474	श्री साईनाथ। रोल्लींग शॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड
141	006475	कॉन्डीड एडवर्टइजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
142	006479	भाग्यानागर रिफ्रैक्टरीस प्राइवेट लिमिटेड
143	006489	सुधी डीसील लिमिटेड
144	006490	डेक्कन प्लास्मोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
145	006496	एपील अरविंद कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
146	006499	प्लॉस कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
147	006500	इण्डोसाका सिल्क्स लिमिटेड
148	006504	पैग फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
149	006512	अवंती सेल्यूलोस प्राइवेट लिमिटेड
150	006514	हैदराबाद मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

151	006515	टेली-पूर्णा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
152	006526	वाजब पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
153	006530	रायुडू कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
154	006532	लिली ड्रग्स एण्ड कोस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
155	006534	कैर कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
156	006535	अई आर ए मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
157	006547	डॉन मेरेन्स प्राइवेट लिमिटेड
158	006558	कोलोराक प्राइवेट लिमिटेड
159	006559	राज कैम प्राइवेट लिमिटेड
160	006564	मनाई सेल्स कॉन्सोर्टीयम प्राइवेट लिमिटेड
161	006581	फस्ट रिइनफोर्सड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
162	006599	बृमेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
163	006606	झाकस मेरेन्स फूड्स लिमिटेड
164	006613	बजाज इलेक्ट्रो स्टील्स ब्राइवेट लिमिटेड
165	006618	पराजीना मिनिरल्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
166	006621	बोप्पान्ना प्लान्टेशन्स एण्ड ओर्गेड्स प्राइवेट लिमिटेड
167	006622	ओरियन्ट मैको साफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
168	006630	पार्तसारथी पैकेजिंग्स ब्राइवेट लिमिटेड
169	006634	श्री वेट कैमिकल्स ब्राइवेट लिमिटेड
170	006636	स्कॉम्बो पोली लिमिटेड
171	006653	सुधा प्लास्टीक्स ब्राइवेट लिमिटेड
172	006670	कपिल इन्नोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस ब्राइवेट लिमिटेड
173	006677	सून्कारा रगलाइंग टेन्डरिंग कान्स्ट्रक्टींग को. ब्राइवेट लिमिटेड
174	006679	टी.पी.के. फार्मासियुटिकल्स ब्राइवेट लिमिटेड
175	006680	मिओलै फिलॉन्डर्स ब्राइवेट लिमिटेड
176	006684	गार्डेन वाल्ली कैमिकल्स ब्राइवेट लिमिटेड
177	006693	साप फार्मासियुटिकल्स ब्राइवेट लिमिटेड
178	006696	शिविकारस सिमेन्ट्स लिमिटेड
179	006697	अई.एम.एरा. बिसिनेस मचिन्स ब्राइवेट लिमिटेड
180	006702	अडियोमिन मॅल्टीमीडिया एण्ड मार्केटिंग ब्राइवेट लिमिटेड
181	006706	पेनगुइन पोलिमेयर्स लिमिटेड
182	006724	माहनन्दी बॉटलिंग ब्राइवेट लिमिटेड
183	006726	ब्लूबेड प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
184	006727	स्टीटस प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

185	006750	स्कान्डीया टेक्निकल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
186	006753	अक्कू डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
187	006754	मॉक इलैक्ट्रीकल एण्ड एस्सेसोरीस प्राइवेट लिमिटेड
188	006762	कोवान्स एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
189	006773	समूद्रिका होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
190	006780	प्रीमियर प्रोसेस्सोकोल फूड लिमिटेड
191	006782	ऑगस्ट लॉबोरोटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
192	006798	प्रियांका सॅर्जीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
193	006799	कॉडूर प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
194	006801	एन्सकोन्का बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
195	006807	रास्मी डैस एण्ड अल्लोइस प्राइवेट लिमिटेड
196	006814	मिनाल प्रोडॅक्ट्स इण्डिया लिमिटेड
197	006821	भग्यानागर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
198	006823	ककातीया हॅट्चरीस प्राइवेट लिमिटेड
199	006832	वी.एस.एल. आग्री ऐड्स प्राइवेट लिमिटेड
200	006836	एस बी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
201	006840	ऑंध्रा यफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
202	006845	हैदराबाद टोबाको मानुफाक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
203	006847	श्री वर्धमान साई पैप्स प्राइवेट लिमिटेड
204	006855	सनद्रा टूर्स एण्ड ट्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड
205	006859	विपनि न्युस पैपर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
206	006871	एस मार्केटिंग एण्ड अडवर्टाइसिंग प्राइवेट लिमिटेड
207	006874	मोल्ड इन्जी प्राइवेट लिमिटेड
208	006876	फॅस्ट फ़ैट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
209	006901	पर्फेक्ट पेद्रो प्रोडॅक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
210	006903	गुसानि स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
211	006909	कॉनेल इलैक्ट्रानिक्स (इण्डिया) लिमिटेड
212	006913	कन्सोलिडेटड लूब्रिकेन्ट्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
213	006915	श्री वेंकटालक्ष्मी ऑंध्रा काराम मासाला प्राइवेट लिमिटेड
214	006940	अनन्तापूर कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
215	006953	कार्तीक लॉम्पस एण्ड कॉम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
216	006969	मोनोडेन फिशीरीस प्राइवेट लिमिटेड
217	6978	आरकि एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

218	6990	मानडाडि हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
219	6991	मयूरी कैपिटल मार्केट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
220	6993	ट्रैक्कर्स (सौत) प्राइवेट लिमिटेड
221	6996	बीटा लैन्स प्राइवेट लिमिटेड
222	6999	कोब्रस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
223	7006	ओरियन्टल ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
224	7007	क्लारिस्सिक पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
225	7010	एस.एल.एस. लैकिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
226	7015	एम.गुरूनाथ एण्ड असोसीएट्स प्राइवेट लिमिटेड
227	7022	हारटेक्स टेर्स प्राइवेट लिमिटेड
228	7025	गुड ग्लारा ऑप्टिकल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
229	7026	युनिवर्सल मेनैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
230	7029	गोल्डस्टार एण्ड फाट्स लिमिटेड
231	7035	फालकोन डिटेक्टिव एण्ड सेक्युरीटी प्राइवेट लिमिटेड
232	7037	इन्टीग्रेटेड टैरबोहन्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
233	7038	सुजाता मेरैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
234	7039	टवेनटी फेस्ट सन्चुरी पैकेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
235	7041	आई-आसा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
236	7045	स्पार मेरैन प्राइवेट लिमिटेड
237	7048	इन्टेक बिसिनेस मेचीन्स प्राइवेट लिमिटेड
238	7052	लार्सेन अल्लोय स्टील प्राइवेट लिमिटेड

डी. रामकृष्णन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 1 मार्च 2008

सं. आर ए पी/560(3)/सुओ मोटो/MA-336/2008---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :--

क्रम संख्या	कम्पनी नं०	कम्पनी का नाम
1	028032	करोना इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	028034	ऑर्धा कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	028052	पंचशील मॅशरूम फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
4	028053	वेदम हँउफसिंग क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
5	028061	टेक्नो विशन आग्री फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड
6	028063	रामावरम ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
7	028078	श्री राम साफ्टवेर आर्चिटेक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
8	028079	टी रामि रेड्डी फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	028099	लाम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
10	028151	श्री एरकोन प्राइवेट लिमिटेड
11	028162	स्मैल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
12	028174	मेजेस्टिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
13	028186	प्रियांका ग्लास प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	028224	मुगाम्बीका हैर पर्वेस एण्ड लीसिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	028230	धरामपुरि वेंकटासाई है-पर एण्ड फैनान्स लिमिटेड
16	028262	रेखा इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
17	028282	बोल्लीनेनि महेश्वरि रियल एस्टेट्स एण्ड हउसिंग फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड

18	028299	सिम्हाद्री साफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
19	028316	विबग्यो मार्केटिंग लिमिटेड
20	028334	माग्निफिक होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	028339	अल्प मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
22	028353	काकातिया एन्टरप्राइसेस कोलेज प्राइवेट लिमिटेड
23	028375	प्रित्वी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	028378	इंण्डिया सेन्टर फर ऑब्जेक्ट टेक्नोलोजि प्राइवेट लिमिटेड
25	028393	सिरिशा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
26	028411	तेजा पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
27	028425	राजा योगा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
28	028443	सॅल फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
29	028474	शिवा इन्सट्रुटयुट आफ सॉफ्टवेर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	028522	अल्ट्रैन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
31	028523	श्री साई वृषा भाद्रि एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
32	028535	स्वायम सॉफ्टवेर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
33	028551	डैमॉन्ड बॅल्क मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	028553	सिरेन्स डिसेनर्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
35	028575	पछदानाम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	028578	स्पीनिक्स कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
37	028597	जाम्पाना लैबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
38	028609	राघवा राईन्स प्राइवेट लिमिटेड
39	028614	राडैस सॉफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड

40	028615	साक्षी कान्दक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
41	028620	नागेन्द्रा आग्री कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
42	028621	बाबू पोजेक्ट्स लिमिटेड
43	028624	शेशचाला टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
44	028646	मास्टर मीटर मानुफाक्चरिंग कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड
45	028650	इन्टरकोस्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
46	028658	श्री नामाडाराका रिसोर्ट्स एण्ड इन्स प्राइवेट लिमिटेड
47	028674	एल.ए.के. टीक प्राइवेट लिमिटेड
48	028676	के.सी.कम्प्यूटर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
49	028696	चेयुता कन्सल्टन्स एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	028708	चन्द्रामौलि टोबाको प्राइवेट लिमिटेड
51	028715	सप्तागिरि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
52	028725	साई तेजा सेक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
53	028742	सक्कू ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
54	028743	होवेल हउसिंग डेवलपमेन्ट फैनान्स लिमिटेड
55	028745	बृन्दा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
56	028746	मैसा डैयरिस प्राइवेट लिमिटेड
57	028752	वरंगल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
58	028757	जी बी हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
59	028758	प्रेम डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
60	028761	श्री साबरिशा फौण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
61	028764	मन्नीडि टेक्सटाइल्स प्रोसेस्स प्राइवेट लिमिटेड
62	028769	कारसॉन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
63	028772	योगि डैरि फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
64	028776	श्री भाराद्वाजा रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
65	028787	नेवेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
66	028792	समको अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
67	028796	अम्रित एविएशन सर्विसेस लिमिटेड

68	028808	रामजी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
69	028811	प्रकाश सुपर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
70	028820	मिराकल प्ले इक्विपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	028823	पनतेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
72	028824	प्रासन्ना ज्युट टिवैन्स प्राइवेट लिमिटेड
73	028825	जनाविश्वा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
74	028827	ए.एस.डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
75	028835	मल्टी सॉफ्ट इन्फोटेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
76	028843	श्री कनकादूर्गा राटैट फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
77	028860	वैराज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
78	028872	एल ए इन्फोर्मेटिका टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
79	028885	रेखा बयो-फर्टिलेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
80	028889	ईश्वाराश्री आर्गोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
81	028890	हैदराबाद सोलार एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
82	028894	ओम साई ऑइल एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
83	028896	अखिला इन्सट्र्यूट आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
84	028900	इमानि सोलटेक प्राइवेट लिमिटेड
85	028910	सैबर नेट मेक्री प्रोसेसर्स इण्डिया लिमिटेड
86	028917	एल ए इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
87	028919	कोककटि हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
88	028922	अमॅस चैन्स प्राइवेट लिमिटेड
89	028929	श्री विस्वा ग्रैनेज प्राइवेट लिमिटेड
90	028932	फिव — सागर इटालिया हैड्रॉलिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
91	028942	पॉल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
92	028946	एल्जी ऑडियो लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
93	028951	हैमस्टर क्लैच हउस प्राइवेट लिमिटेड
94	028955	एस.के. ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
95	028958	टिनि ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
96	028966	कट्यानि इलेक्ट्रिकल्स एण्ड डीसिल प्राइवेट लिमिटेड
97	028973	पेरिग्रैन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
98	028975	श्याम केस्टल प्राइवेट लिमिटेड
99	028980	साई एंटरटेन एंटेन्यूस प्राइवेट लिमिटेड
100	028990	इन्डो-अमेरिकन साफ्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
101	028992	वैशोवि एंटर एण्ड विन्डोस प्राइवेट लिमिटेड

102	028993	वैश्रोवी मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
103	029012	ईफीन लॉबोरेटरीस प्राइवेट लिमिटेड
104	029020	एमकेयार इन्फोटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
105	029025	श्री साने इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
106	029028	श्रीवेन मार्कनेट प्राइवेट लिमिटेड
107	029029	समता हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
108	029036	कोरविल्लास रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
109	029041	सिलेक्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
110	029043	डी वी के पोली-वेर प्राइवेट लिमिटेड
111	029045	पद्माजा फाबनित प्राइवेट लिमिटेड
112	029049	रिजेन्सी गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
113	029053	श्रीधर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
114	029068	श्री राघनन्दीनि कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
115	029080	कामना इम्पेस प्राइवेट लिमिटेड
116	029086	हैवेन सॉफ्टलोजीक्स प्राइवेट लिमिटेड
117	029087	आस्का सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
118	029094	लक्ष्मी बिजिनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड
119	029101	स्मैल्स एण्ड स्मैल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
120	029111	कैलासा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
121	029113	एनट्रस्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
122	029124	साज बोडी कैर प्राइवेट लिमिटेड
123	029134	एस जी के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
124	029142	ए एन आर कारगो मूवर्स एण्ड कोरियर्स लिमिटेड
125	029150	सुगुना श्री सेक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
126	029152	श्री दूर्गा फ्लोरिटेक लिमिटेड
127	029159	जे.एम. ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
128	029169	श्री सत्यासाई एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
129	029171	सौम्या फेब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
130	029172	आर के वेलटेल इन्सट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
131	029183	एप्पील होम्स प्राइवेट लिमिटेड
132	029202	सूजारास सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
133	029218	रान इन्टरटेनमेन्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
134	029221	टापाति ग्रैनैट्स प्राइवेट लिमिटेड
135	029236	वेमूरि हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
136	029238	ईमर्स इक्वि प्राइवेट लिमिटेड

137	029251	नागाल्ला कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
138	029253	पेरर्णा कथेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
139	029267	कोन्नुसियर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
140	029270	टिप्स काम्प्यूटर्स एण्ड इलैक्ट्रनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
141	029272	सापर्या होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
142	029273	रामकृष्णा डैयरि फार्म प्राइवेट लिमिटेड
143	029286	ड्योडेसिमल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
144	029290	रिवेन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
145	029295	के टी पात फैंडर्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
146	029303	नेटवर्क सिलिकोन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
147	029309	साई सूर्या वाटर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
148	029313	उज्ज्वा डैयरि फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
149	029315	पृद्धि पौल्ट्रि फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
150	029333	शुसूत कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
151	029340	कोशल्या ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
152	029343	वैश्नावि फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड
153	029348	हेरिटेज ग्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
154	029351	कोरेस इन्टरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
155	029352	छात्रा पौल्ट्रि प्राइवेट लिमिटेड
156	029357	ब्लूबर्ड इन्फोवेस प्राइवेट लिमिटेड
157	029362	विन्नी एड्युकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
158	029379	सन इन्फोरमेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड
159	029385	अबू मार्केटिंग असोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
160	029395	टमिता अल्युकिनियम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
161	029400	ग्वालियर हैटेक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
162	029405	नस सॉफ्ट-टेक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
163	029408	श्री रामा कृष्णा साई स्पीन्निंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
164	029425	वी आर के ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड
165	029433	शेशसयना इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
166	029434	रैनबो गिफ्ट एण्ड कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
167	029477	मेड्यल वाटर्स प्राइवेट लिमिटेड
168	029495	सोडी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
169	029498	रुटन कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
170	029507	पी एम एल हैटेक प्लेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
171	029513	केन्च सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	029522	डेच आर एस टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड

173	029534	च्यल्ला ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
174	029540	श्रीनिवासा सिल्वर मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
175	029549	वी आर के मार्केटिंग सोल्यूशन्स एण्ड नेट वर्क प्राइवेट लिमिटेड
176	029555	हेच.डी पब्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
177	029556	अनुभव ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
178	029563	महिसाई हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
179	029571	वन्गा साविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
180	029606	मारस्प इंजीनीरिंग प्राइवेट लिमिटेड
181	029607	रोहोन्स इन्फोटे प्राइवेट लिमिटेड
182	029628	शालोम एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
183	029630	जगदाम्बीका ऑइल्स एण्ड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
184	029640	श्री लक्ष्मी नारासिम्हा स्वामी सेक्यूरिटी सर्विसेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
185	029646	वोका पौल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
186	029647	मोड्यूलर रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
187	029652	ग्रीन एड्ज कोफी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
188	029656	विगेरना इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
189	029678	ग्लैड इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड
190	029683	मधूर मेडिकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
191	029684	मारुती पोल्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
192	029685	मेगा सिटी ऐड्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
193	029688	कोटी विहारा हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
194	029699	हैदराबाद फ्लइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड
195	029701	जगन एर-कन्डीशनर्स प्राइवेट लिमिटेड
196	029702	सुस्मीता प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड
197	029713	पिन्यू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
198	029719	ए पी कैम्पार्क स्पेशलिटीस लिमिटेड
199	029725	विम्टा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
200	029726	वोइस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
201	029728	धयाना सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
202	029736	इण्डेस हैटेक ऑफिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
203	029738	पीटल सॉफ्टवेर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

204	029743	बेररीस एपारेल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
205	029744	नुकाम्बीका कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
206	029746	आर. के. टेक्नोफाब इलैक्ट्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड
207	029759	डी.एस. क्रियेटिव कम्प्यूटर पेरिफिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
208	029760	मूतवरपू स्टोरेजस प्राइवेट लिमिटेड
209	029762	गोल्डेन चैन मार्केटिंग लिंक प्राइवेट लिमिटेड
210	029785	डी वी एस इंजीनीरिंग कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
211	029790	चिट्टूरगाड गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
212	029795	हैदराबाद कोमेक्स एडवेंसोरि प्राइवेट लिमिटेड
213	029800	साई कृपा टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
214	029803	काकातिया इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
215	029820	प्रवीन कॉम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
216	029833	वैष्णवी ग्रील्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
217	029835	अरहम लॉबोरेटरीस लिमिटेड
218	029842	प्रनुति लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
219	029846	पातक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
220	029848	आरप्रीता ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड
221	029849	वैट्ला ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
222	029856	श्री मारुति बोट्टलर्स प्राइवेट लिमिटेड
223	029857	घानुक्या लॉबोरेटरीस प्राइवेट लिमिटेड
224	029863	अट्टीक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
225	029875	हेच.एस. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
226	029880	मैटी टेक्नोलॉजी इन्फोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
227	029891	सी.के. कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
228	029901	लूसिज बिग बर्ड्स इण्डिया लिमिटेड
229	029905	साई वेज्जेक्ट्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
230	029933	श्री तेजा डायर लिमिटेड

231	029937	डोलफिन फेरिफेराल्स प्राइवेट लिमिटेड
232	029940	यू.एस. कम्प्यूटर्स एण्ड टेक्नोलोजीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
233	029947	श्रीमान एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
234	029963	ए एम फेब-टेक प्राइवेट लिमिटेड
235	029965	वैभव ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
236	029968	शबाना एडवटैसिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
237	029969	मेडिकोन्डा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
238	029981	एन एम बी फोरमूलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
239	029989	पटलूरि कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
240	029992	डूंदूप्रिया मौल्डस एण्ड प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड
241	029998	विजाया नावाता टैंउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
242	030007	डॉक्टर आमरनाथ कॉन्फेक्शनारि प्राइवेट लिमिटेड
243	030019	चार्मीनार कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
244	030025	पी एस जे एडवान्सड टेक्नीकल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
245	030027	श्रीमालिक मरकनटैल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
246	030059	यूनैटेड टेलिलिंक्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
247	030077	टी एस आर हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
248	030079	टोमारास पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
249	030085	ग्रेट इण्डिया कैर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
250	030086	निकिता इंजीनीरिंग प्राइवेट लिमिटेड
251	030090	जीवनधारा डैयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
	030093	क्रम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
252		
253	030097	विन्टेज डेवलोर्स प्राइवेट लिमिटेड
254	030114	प्रनेश इंजीनीर्स एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
255	030116	ट्रोजन कैमि काम्पोन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
256	030121	लार्क कम्यूनिकस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
257	030122	शिवा-राम कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

258	030123	कपोक नैटवियर प्राइवेट लिमिटेड
259	030137	प्रकृति एक्विजम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
260	030144	डेक्कन हैटेक एर्त मूविंग स्पेर्स हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
261	030147	पाम इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
262	030148	श्री कपिला रैस एण्ड प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड
263	030149	जी आर सॉफ्टवेर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
264	030150	इण्डियाना वेइब्रिड्ज एण्ड स्केल्स प्राइवेट लिमिटेड
265	030151	प्रानव मीडिया सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
266	030152	समीप ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
267	030153	श्री साम्बशिवाकन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
268	030156	अखिला रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
269	030161	श्री साई माहाराज प्रोपर्टी डेवलपर्स लिमिटेड
270	030198	सुजी सिमेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड
271	030223	आर्टीकुलेट कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
272	030230	वर्जीनिया एस्टेट्स लिमिटेड
273	030240	बी.टी इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
274	030241	आवुला कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
275	030264	एस हेच एस सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
276	030266	पारवे सॉर्जिकल्स एण्ड सिरन्जीस प्राइवेट लिमिटेड
277	030268	कोसलॉन्ड कोरियर्स एण्ड कारगो प्राइवेट लिमिटेड
278	030282	टी वी आर प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
279	030284	एस.के.स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
280	030285	विंग्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
281	030295	टी वी एन फलोरो पोलिमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
282	030306	अखिरत टेक्नोलॉजी लिमिटेड
283	030308	चन्द्रा कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
284	030313	कन्त एण्ड कन्त हउसिंग एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
285	030321	विबग्योर एक्विजम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
286	030327	श्रीसु इंटरप्रैसेस प्राइवेट लिमिटेड
287	030358	शीर्डी साई सॉफ्टवेर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
288	030365	मधावाराम टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
289	030376	भार्गव वाशोमेट प्राइवेट लिमिटेड

290	030384	स्वर्णान्द्रा कन्सुमर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
291	030400	अनुभव सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
292	030407	डॉ.आर.एस. टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
293	030427	श्री गोमाता श्रीनिवासा अयुर्वेदा आश्रमं लिमिटेड
294	030430	श्री साई सावन्ती डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
295	030443	एस के एम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
296	030451	जॉन्टी होम प्राइवेट लिमिटेड
297	030453	लोरवैन एड्वरटैस हउस प्राइवेट लिमिटेड
298	030456	आरो एड्वरटैसिंग प्राइवेट लिमिटेड
299	030461	स्पेक्टा अई टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
300	030467	सी पी बी खम्म ऑइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
301	030474	बालान्जेनेया फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड
302	030475	लिपिका कार्डस प्राइवेट लिमिटेड
303	030480	वाल्फू लैन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
304	030482	रघू ईआरपी पीपुल प्राइवेट लिमिटेड
305	030492	जे वी डी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
306	030495	छलेट सिमेन्टीट्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
307	030497	ओम-जीत कार्गो कैरीस प्राइवेट लिमिटेड
308	030507	मार्कबिस हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
309	030508	डेक्कन कमोडिटी एक्सचेन्ज (इण्डिया) लिमिटेड
310	030514	डिस्कोवरी डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
311	030532	इडिफिक एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
312	030536	रेन्डीज्वस डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
313	030539	सिगमेड फोर्मूलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
314	030548	ऑनलैन इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
315	030550	वी आर हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
316	030566	लक्ष्मी एण्ड तेजा अक्वा मिनिरल प्राइवेट लिमिटेड

317	030572	एम.डी डिस्ट्रिबुटर्स प्राइवेट लिमिटेड
318	030573	झागोन सिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
319	030584	रोबोटिक्स इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड
320	030594	हैदराबाद ऑनलैन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
321	030596	के.आर. कॉटन्स प्राइवेट लिमिटेड
322	030608	मन्दू मरेन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
323	030612	सुप्राजा पोलिमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
324	030613	बी एस आर मरीटेक प्राइवेट लिमिटेड
325	030616	पेतुकुची स्पीनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
326	030622	आक्मी सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
327	030632	स्वर्णा भारति पाराबोईल्ड प्राइवेट लिमिटेड
328	030634	सुनिता है-टेक पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
329	030654	अज्वा ट्रेडर्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
330	030657	श्री साईसतविक टेलीसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
331	030658	ओरुगल्लू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
332	030659	माचेर्ला इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
333	030663	ब्लूबेल आग्रीनेका प्राइवेट लिमिटेड
334	030664	सीसीमाफोर सॉफ्टवेयर सर्विसेस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
335	030666	मिधुना कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
336	030667	विन्टेज रिथल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

(पी.सी.नन्दा कुमार)

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

औध प्रदेश:

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. आर ए पी/560(3)/सुओ मोटो/2008---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनी विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	032005	रुशालि गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	032014	हेरिटेज टॉनशीप्स प्राइवेट लिमिटेड
3	032015	श्रीविल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
4	032016	मनुदार एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
5	032033	एम.आर.सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	032034	दीपिका बयो-पोइर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
7	032038	वी आर पोइर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	32041	प्रिसम यो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
9	032042	महेश्वरि फेटीलइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	032046	एसाफ्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
11	032058	डॉ. जगत रेड्डीस हेड्रोसइकिलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	032060	ऐका कम्प्युटेक प्राइवेट लिमिटेड
13	032062	कोर्ब टेक्नोलोजीकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
14	032069	वारवेल डिसपोसाबुल वेर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	032070	कोसमोस अइटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	032071	मास्टर साफ्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
17	032075	रिमाक्स होटेल्स एण्ड ट्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	032077	कौन्डन्या कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
19	032088	एस एस आर गिफ्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
20	032087	सूर्या अटॉम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
21	032090	कल्पाका साफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
22	032091	डिजिग्राफ टेक्नोलोजीस लिमिटेड
23	32096	श्री एस एस वी पॉवर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
24	032099	प्रोफिसियन्ट साफ्ट एक्सपो कन्सलटेन्सी लिमिटेड
25	032100	श्री चका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड
26	032105	गेवेल नेटवर्क मार्केटिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
27	032109	माट्रिक्स अड्वान्स टेक्नोलोजीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
28	032113	बोर्डेपल्ली फूड्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	032115	एजीबी इन्टरआक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
30	032123	जीयोन मेडिकल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
31	032131	प्रयोग ट्रेडिंग एण्ड मानुफाक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
32	032132	गेबी साफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
33	032136	श्री श्रीनिवासा बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड
34	032138	श्रीपद्मावा ज्युट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
35	032139	भूपति ट्रांस्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

36	032140	साई किरण कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
37	032144	स्प्रींग साफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	032145	गुन्डीपेट बोटलींग को. प्राइवेट लिमिटेड
39	032150	निकिता मरैन्स प्राइवेट लिमिटेड
40	032154	कौसर टेसनीम एण्ड सन्स आग्री फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
41	032165	एक्सेस एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	032167	वस कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
43	032169	अग्रानि सौबर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
44	032237	इण्डियन ग्री गोरो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
45	032239	याहवेह इम्पेक्स (इण्डिया) लिमिटेड
46	032242	ए.वी.आर. प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
47	032243	विशेशिका निरमान प्राइवेट लिमिटेड
48	032250	साई सिन्दू बयो मास पावर प्राइवेट लिमिटेड
49	032252	उन्नति ट्रेनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
50	032259	परकार पोलिमेस प्राइवेट लिमिटेड
51	032262	ए एन डिटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
52	032263	वेबटेल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
53	032266	आलपा फार्मासी प्राइवेट लिमिटेड
54	032267	अप्पी इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
55	032269	दीपिका साफ्ट - टेक लिमिटेड
56	032274	एस ए पी मैन्स एण्ड मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
57	032276	मनिस्रेनि मेनेजीरियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
58	032279	मनोरूप आग्री फार्मास इण्डिया लिमिटेड
59	032283	हिमगिरि इण्डस्ट्रियल कॉम्पौनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	032284	सिम्हापुरि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
61	032285	सहेती एलेक्ट्रिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
62	032286	अरश्या फार्मा हउस प्राइवेट लिमिटेड
63	032288	ग्रीन हारनेट साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
64	032299	अल-हमरा हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
65	032305	कलर्स स्टोरि इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
66	032308	स्नेहा गोल्डेन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
67	032310	टीटैस टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
68	032314	हरिनि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
69	032316	श्री सोमनाथ हर्बल एण्ड कन्सुमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
70	032319	गेट्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
71	032322	श्री साई मेगा मिश्रकल रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
72	032330	सहिल रब्लर प्राइवेट लिमिटेड
73	032334	नीराजा फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
74	032341	मित्रा हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
75	032347	कुमारसाई आग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
76	032348	शक्ति रिटैनिंग सिम्स प्राइवेट लिमिटेड
77	032353	आर.जी.माक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
78	032356	चेतन मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
79	032373	हुम्मिंग बर्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
80	032380	घजी अग्रो थ्रीप फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
81	032384	वी बी जी एक्विज प्राइवेट लिमिटेड

82	032387	विशाखा टूरिसम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
83	032389	एनअइ क्युर कर मिडिकल प्राइवेट लिमिटेड
84	032392	राजकाटारि होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड
85	032404	भरद्वाज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
86	032406	गुरुदत्ता गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	032409	सब जेन टेक्नीकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
88	032423	कबइस्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
89	032425	हेच एन सी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
90	032429	विन्रो टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
91	032434	नेटअइ ऑनलेन प्राइवेट लिमिटेड
92	032436	आर.जे.रिसोर्स नेटवर्क इन्टरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड
93	032458	अलटेक ऑनलेन प्राइवेट लिमिटेड
94	032460	एपीपी गैस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
95	032461	बाई रेड्डी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
96	032471	श्री सत्या आड-विशन्स प्राइवेट लिमिटेड
97	032481	एनवी टेक्नोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
98	032482	प्रेविन टेक्नीकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
99	032485	विबगयोर सोल्युशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
100	032494	दुति प्रोजेक्ट्स कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
101	032495	दुति होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड
102	032505	दुति एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
103	032507	एडिटि कॉन्ट्राक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
104	032508	पर्फेक्ट ग्रानेट्स प्राइवेट लिमिटेड
105	032521	गोल्डेन हइट्स एस्टेट्स लिमिटेड
106	032526	पद्मा पॉवर टेक प्राइवेट लिमिटेड
107	032528	श्री वेन्की इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
108	032530	बे रिटी रीफ्यूजरा एक्वापोर्टरा प्राइवेट लिमिटेड
109	032534	मावुरम कम्प्युटिंग प्राइवेट लिमिटेड
110	032598	अनुराशी इन्फोटेक एण्ड नेटवॉर्क टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
111	032599	सूपर साफ्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
112	032604	ए.आर.फिल्टरकॉम्पस प्राइवेट लिमिटेड
113	032605	चोडे अप्पाराव स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
114	032606	परिकामा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
115	032608	नेहाक्ष होम्स प्राइवेट लिमिटेड
116	032610	सदभावाना सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
117	032617	टी वी पी ग्राफिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
118	032620	पनिनि लोजिक्स लिमिटेड
119	032633	रोहित द्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
120	032641	अलशैक इनामुल्हासान रिसेर्च एण्ड पब्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
121	032644	ग्रेटर हैदराबाद पब्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
122	032646	जनगम धर्म स्टॉक एण्ड शैर्स प्राइवेट लिमिटेड
123	032649	सुखीभवा हउसिंग
124	032658	नॉर्ट सैल्स एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
125	032659	वैकटसाई ट्रान्सकैब प्राइवेट लिमिटेड
126	032660	मीटैर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
127	032670	मार्वल मेटाफेब प्राइवेट लिमिटेड
128	032675	बनाना सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

129	032676	आदर्शा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
130	032678	अरूकु वेल्ली रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
131	032687	माभूमी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
132	032691	वनाजा साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
133	032694	आलिशान होम्स प्राइवेट लिमिटेड
134	032696	जील नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
135	032706	सूर्यान्श ट्रान्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
136	032720	ग्रेटवे मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
137	032722	सिम्स होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड
138	032730	मरासा आग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
139	032747	पेरुरि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
140	032748	साईसादन इन्स प्राइवेट लिमिटेड
141	032751	डी एस डी आर एजेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
142	032753	श्री अनुशा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
143	032755	मॉनेरिमार्ग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
144	032762	डैयग्नल डाटा सोल्युशन्स लिमिटेड
145	032765	नानदीपाटी आग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
146	032767	अदिलाबाद इन्सट्यूट आफ इन्फोर्मेशन एण्ड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
147	032774	क्यूबा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
148	032776	यूनिक ग्राफिक आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
149	032778	ट्वीन सिटीस ऑनलैन हास्पिटैलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
150	032783	विटनेट साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
151	032787	दीकेश साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
152	032798	श्री शिवग ग्रैगेज प्राइवेट लिमिटेड
153	032801	विनद्रान ट्रान्सटेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
154	032809	ट्रोपिकल डेयरि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
155	032810	एम एस. लॉन्स प्राइवेट लिमिटेड
156	032840	सरास एक्विज प्राइवेट लिमिटेड
157	032842	ए एस पी ई एन सोल्युशन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
158	032847	मेरचान्द सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
159	032858	बिरिगेस नेटवर्क इन्टरनेशनल लिमिटेड
160	032860	श्री रामानजानेया पाराबोईल्ड प्राइवेट लिमिटेड
161	032860	श्री रामानजानेया पाराबोईल्ड प्राइवेट लिमिटेड
162	032862	मेडगेट मेडिकल्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
163	032875	मीडिविशन कम्प्यूटर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
164	032877	मेजोटिनि ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
165	032882	श्री लक्ष्मी इंजीनियरिंग कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
166	032886	लीसी इन्फो प्राइवेट लिमिटेड
167	032887	वी.एस.इन्फो प्राइवेट लिमिटेड
168	032890	मिल्लीनियम स्मार्टकार्ड्स लिमिटेड
169	032892	मिल्लीनियम मेको शिरडगरा लिमिटेड
170	032904	कोटमराजू कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
171	032905	अविरद्युल वर्ल्ड साफ्टवेयर लिमिटेड
172	032908	साईलक्ष्मी पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
173	032912	बिनारि सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
174	032918	उदायाश्री कन्सल्टन्ट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
175	032920	एफ.आर.पी. कोरमलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

176	032921	रिसिनोलीक स्पेशलिटी कैमिकल्स लिमिटेड
177	032923	आदर्श इन्सटीट्यूट आफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
178	032926	अवंती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
179	032929	प्रिन्सी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
180	032960	भार्गव रोड लैन्स प्राइवेट लिमिटेड
181	032967	रिवर वाल्ली पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
182	032970	तेजिता पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
183	032983	स्वान मस्कीटो कोइल्स प्राइवेट लिमिटेड
184	032988	अक्ष बिजिनेस साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
185	032992	रासाश्री सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
186	033010	अक्वा जोन इयोन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
187	033020	जिगनदज ग्रैन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
188	033031	एस एस आर साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
189	033048	बलाजी डेवलपमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
190	033066	यूनिटेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
191	033072	4सी एस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
192	033079	एडिस्टा कॉम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
193	033081	ओसिएनसाफ्ट साफ्टवेयर डेवलपमेंट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
194	033086	नेटबिओसिस इन्फॉर्मिक प्राइवेट लिमिटेड
195	033089	साई ग्रागा पानासिया प्राइवेट लिमिटेड
196	033098	कॉम-ई-साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
197	033106	कमाला सारास्वति आग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
198	033112	ग्रेटर हैदराबाद डेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड
199	033115	द्रान्स इन्फो साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
200	033119	सन्नीस स्पेक्द्रा सोल्यूश प्राइवेट लिमिटेड
201	033125	निम्बल वेम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
202	033130	स्वर्णान्द्रा पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
203	033144	आर्गोनिका इन्डिका प्राइवेट लिमिटेड
204	033148	रेजुवेनाटिंग अप्रोचेस प्राइवेट लिमिटेड
205	033154	अइ टी आर इन्टराक्टिव ईडुसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
206	033155	इमिनेन्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
207	033170	किमटी मिलीनियम पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
208	033175	स्वारनानजाली एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
209	033191	ई-क्यूब टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
210	033203	कूसी सिस्टम्स लिमिटेड
211	033208	कोलीटी साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
212	033214	अल्फा मिडिकामन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
213	033221	श्रीस्टी ट्रेडिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
214	033241	मेगासिस्टम्स इन्फोरमाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
215	033249	श्री कीष्णा डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
216	033257	वेलूगोन्डराया हउसिंग एण्ड एस्टेट्स लिमिटेड
217	033259	आलापाटि राजेन्द्रा प्रसाद पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
218	033266	तिरुमाला एजेन्सीस फार्मासियुटिकल डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
219	033270	गोल्डेन एडिफिक एलिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
220	033280	साई किष्णा ड्रम्स प्राइवेट लिमिटेड
221	033286	पी.वी.आर. टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
222	033289	सैबरटेल इन्फोमिडिया (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

223	033299	इन्डो भराति पॉवर लिमिटेड
224	033320	पाब्बा साफ्ट-टेक प्राइवेट लिमिटेड
225	033325	भाषा पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
226	033334	ब्रिटिंग टेक्निक्स एण्ड मीडिक अप्लाइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
227	033345	अययाला साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
228	033348	सगाराम कम्प्युटर साफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
229	033365	अक्वा सोलार प्राइवेट लिमिटेड
230	033369	जेम इन्टेल्लीकोम लिमिटेड
231	033377	से 2 टी सी एस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
232	033390	पवन सिस्टम्स एण्ड सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड दूर्गा सेक्युरिटी एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
233	033394	
234	033415	टोलीडो नेट वर्क बिसीनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
235	033422	श्री मारुति बयो- फर्टीलैसर्स प्राइवेट लिमिटेड
236	033433	ऑरचास्प प्रोपार्टीस लिमिटेड
237	033454	जोगी एण्ड रिशी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
238	033457	गोदावीर खनि सिटी रिक्रिएशन क्लब प्राइवेट लिमिटेड
239	033466	बुदुकु हडसिंग एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
240	033470	गुहासीगा गार्कटिंग प्राइवेट लिमिटेड
241	33490	ई2के कॉम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
242	033500	निधीश पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
243	033503	इल्यूशन इन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
244	033516	वेब अईकोन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
245	033524	श्री साई प्रभू कम्प्यूटर्स एड्युकेशन प्राइवेट लिमिटेड
246	033529	श्री दूर्गा लक्ष्मी कवारी एण्ड कृशर्स प्राइवेट लिमिटेड
247	033534	गेपाल रियल एस्टेट्स एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
248	033536	एन्नार सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
249	033538	चका गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
250	033558	यू.एस. दूर्ग एण्ड डेवेलप्स प्राइवेट लिमिटेड
251	033561	फान्तासी कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
252	033572	वेस्ट कोस्ट साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
253	033574	दिस्टार इ-कॉम टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
254	033575	महाराजास आग्री कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
255	033622	यूनिमार्न कॉमनेट प्राइवेट लिमिटेड
256	033655	नेति टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
257	033662	लूमिना सबरसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
258	033667	प्रमसाई इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
259	033678	न्यूरॉन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
260	033701	पारामाउन्ट इन्फोटेक लिमिटेड
261	033703	सिन्दुजा कन्सल्टन्स लिमिटेड
262	033708	के के चनुमोलू चिट फण्ड्स लिमिटेड
263	033713	प्रोक्सि सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
264	033725	सिटी सिनी ट्रेडर्स लिमिटेड
265	033729	विजय लक्ष्मि बिबेरेजस एण्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
266	033771	बोसन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
267	033780	श्री शरभोला फार्मा एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
268	033781	डाटा पॉइन्ट सेर्च सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
269	033786	बी.एस. साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
270	033790	ग्लोरि टेक कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
271	033794	पेनिन्सुलार ई-कॉम लिमिटेड

272	033797	उषाकिरण हँउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
273	033805	लॉरविन पोलिमर्स लिमिटेड
274	033812	लॉरविन इन्फोटेक लिमिटेड
275	033819	रवि तेजा प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
276	033822	अमर अब्रासिक्स प्राइवेट लिमिटेड
277	033823	माधवि कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
278	033827	टैन्नील एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
279	033841	अदलान्टिक फार्मा लिमिटेड
280	033843	इन्फोस्टोडस टेक्नोलोजीस लिमिटेड
281	033848	ओमेगा सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
282	033861	कैमडेडिंग.कॉम लिमिटेड
283	033862	केनोनसॉफ्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड
284	033865	विसवा प्रगति निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
285	033868	राधिका सी टी स्कान डैग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
286	033871	श्री काट्यायानि फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड
287	033884	पोपाराज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
288	033885	सूया इन्फोवे लिमिटेड
289	033887	ईक्विनेट टेक्नोलोजीस लिमिटेड
290	033888	सविएन्ट इन्फोटेक (इण्डिया) लिमिटेड
291	033889	सॉफ्टलैन्स मिडियाटेक लिमिटेड
292	033893	पैयोनीर ई एल को लिमिटेड
293	033897	ए एम एस आर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
294	033901	एम आर बी हैडेल-पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
295	033902	श्री गोपी हैडेल पॉवर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
296	033908	मार्कैस गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
297	033910	वेमसेन्द्रीक टेक्नो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
298	033912	लोगिनटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
299	033913	गयात्रि डिजिटल इमेजस लिमिटेड
300	033918	ई लान इन्फोटेक लिमिटेड
301	033919	अस्ट्रा इन्डक्विटव टेक्नोलोजीस लिमिटेड
302	033930	सीबिज सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
303	033933	लिली सॉफ्ट लिमिटेड
304	033942	इडोटेक.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
305	033950	लॉजिकल वेब मिडिया एण्ड इन्टरटैन्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
306	033951	ऑटोनी डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
307	033957	पर्फेक्ट विशन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
308	033958	ईस्सेम-गोफर इन्फोर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड
309	033964	वीप्लान्स इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
310	033966	विर्द्युल लिंक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड
311	033967	लोरल पैकेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
312	033968	मीट्रो न्यूट्रीशन प्राइवेट लिमिटेड
313	033979	प्रिमियर सैबरनेट सर्विसेस लिमिटेड
314	033980	सेन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
315	033988	इन्फोनिक्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
316	033993	हेल्थसॉफ्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
317	034001	आर.हेच. थेराप्युटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
318	034002	सी सी एम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
319	034004	सिरिराज गार्ह हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
320	034005	टार.के.टोबाको ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

321	034006	सन्नीता भाराति इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
		बिजिलि मेरैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
322	034010	
323	034016	कनेक्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
324	034024	पोर्टल्स इण्डिका.कॉम लिमिटेड
325	034033	ई-आईराड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
326	034034	बलाजी टेक्नो असोसीएट्स प्राइवेट लिमिटेड
327	034036	माट्रिक्स रिसोर्स मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
328	034038	पी जे डब्लू कन्सलटेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
		मिनि इन्टरनेट एस.टी.डी. सर्विसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
329	034052	
330	034066	एस्सेम अस्सेट मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
331	034073	मनकैम ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
332	034076	लीड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
333	034079	इमाजिनीस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
334	034080	न्यू विराटार सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
335	034081	टेक वन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
336	034083	एम टी एस ऑफ-शोर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
337	034096	फर्स्ट नेट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
338	034099	रिषी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
339	034100	चानक्या कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
340	034111	आब्जेक्ट नेट.कॉम लिमिटेड
341	034114	जारटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
342	034124	ग्लोबल ई.कॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
343	034126	स्चलटेक इन्फोरमेशन सिस्टम्स लिमिटेड
344	034140	रॉक्सस आग्री सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
345	034141	साट व्हील्स ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
346	034150	एलीगेन्ट सॉफ्टनेट प्राइवेट लिमिटेड
347	034163	ट्रीन्ड्स रिसोर्सस लिमिटेड
		मन्चीर्याल इन्सट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
348	034164	
349	034171	साबित सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
350	034173	साई स्वप्ना होम्स प्राइवेट लिमिटेड
351	034176	चोईस एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
352	034181	ब्लूसोम सॉफ्ट टेक लिमिटेड
353	034183	रोडबिरॉन्ड.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
354	034191	भरति ई-सोल्यूशन्स एण्ड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
355	034199	सुधन्वा इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
356	034200	क्लारिफॉन डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
357	034202	ब्लूसीस नेटवर्क बिसीनेस प्राइवेट लिमिटेड
358	034203	ईप्राम्ट नेटवर्क सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
359	034215	अल्पस इन्फोरमेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
360	034216	साई सूर्या जेटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
361	034229	नागार्जुना इन्ड काफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
362	034235	करनूल स्पेल सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
363	034242	श्री भारती एक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड
364	034244	सम्पूर्ण हबिंग प्राइवेट लिमिटेड
365	034248	जे डी आर लिमिटेड
366	034250	फ़्यूचर ऑफ डेनिंग एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
367	034279	स्कीप्पर इन्फोर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड

368	034281	ए वैं एस इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
369	034282	हेमावति सिरी टेक प्राइवेट लिमिटेड
370	034284	एररोरा ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
371	034296	कम्प्यू इन्फो लिमिटेड
372	034304	सौक्या हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
373	034312	रुलान्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
374	034315	दिव्या साई है-टेक प्राइवेट लिमिटेड
375	034316	धनुन्जया पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
376	034318	जे.सी फयुल्स प्राइवेट लिमिटेड
377	034325	सुस्सी ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
378	034329	इपिक्यूरस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
379	034330	बी.एम.आर ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
380	034331	गुरुगन ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
381	034332	प्रभू साई ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
382	034355	विन्लैन पोलिपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
383	034360	आर के नेट कॉम लिमिटेड
384	034368	एस.एम.बी. टन्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
385	034371	हरिता बयो प्लान्टेक प्राइवेट लिमिटेड
386	034379	लियो एप्लाइमेन्ट कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
387	034382	शिरेंस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
388	034386	गेदावरि फार्मासियुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
389	034387	ग्रीनडेल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
390	034389	आईकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
391	034409	ईट्रेड.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
392	034421	राज इन्फोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
393	034423	तेजा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
394	034444	हुम्म डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
395	034446	मैटी डयाग्नोस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
396	034453	ओम लैफ़ लैन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
397	034465	सुरक्षा गैस लिमिटेड
398	034466	हेरिटेज मिडिटेक प्राइवेट लिमिटेड
399	034494	सैबर-कॉम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
400	034500	सिनसिनाटी मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
401	034506	वेब प्रोडिजीस प्राइवेट लिमिटेड
402	034522	अलफेक्स कन्सल्टेशन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
403	034524	जेटमोर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
404	034538	बी के आर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
405	034543	है-फै इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
406	034544	रैनबो मल्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
407	034551	एस पी आर डिजीटल प्राइवेट लिमिटेड
408	034559	युक्ती सॉफ्टवेयर एण्ड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
409	034566	एस डी ई सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
410	034580	एन्डरसेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
411	034585	विक्रम सिबर डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
412	034592	हर्शा हेल्थ कैर प्रोडॉक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
413	034597	डिजीकॅलर ऑफिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
414	034599	ग्रीन एर्त बयो फयुचर प्राइवेट लिमिटेड
415	034607	सत्या साई कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
416	034613	सूराम्स एडजमर्क प्राइवेट लिमिटेड

417	034621	देवू कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
418	034623	बिसिनेस मैनेजमेन्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
419	034627	के ए एन आर एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
420	034633	न्यू एरा बिसिनेस सोल्युशन्स लिमिटेड
421	034638	ऑप्टिक सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
422	034644	बुमिडि हैड्रो पावर प्लान्ट प्राइवेट लिमिटेड
423	034650	सुमन कम्युनिकेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
424	034651	रिजेल टेक्नोलोजीस लिमिटेड
425	034652	कोररा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
426	034664	आई वन्डर्स.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
427	034667	ई.फोकस सॉफ्ट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
428	034670	रामराज कम्प्युटर एड्युकेशन प्राइवेट लिमिटेड
429	034671	मैकानेट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
430	034677	सैबर सिटी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
431	034678	कवेरि कोप्पर प्राइवेट लिमिटेड
432	034679	सुब्बाराजू आग्रीस प्राइवेट लिमिटेड
433	034684	अमल्या प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
434	034698	श्री चकी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
435	034699	है-रिच कैगिकल्स एण्ड क्यारीस प्राइवेट लिमिटेड
436	034700	इन्टराक्टिव कॉन्सेप्ट डिजिटल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
437	034703	महासाम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
438	034707	सत्यामेघा सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स लिमिटेड
439	034708	एम एण्ड एम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
440	034715	रिजेन्सी लैट बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
441	034719	क्यूबिक टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
442	034720	श्री धनालक्ष्मी टॉनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
443	034722	दिव्या दूर्स एण्ड द्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड
444	034727	रोच ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड
445	034730	मेक इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
446	034731	मिल्लीनियम इडटेक प्राइवेट लिमिटेड
447	034738	ग्रीन ग्लोरि बया-नैचुरल हेर्बस प्राइवेट लिमिटेड
448	034740	एस.वी. ई-सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
449	034744	उधार 4यू कॉम लिमिटेड
450	034747	माणनम ओप्स इण्डस्ट्रीयल कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
451	034749	ऑधा आईटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
452		हारवेस्ट फूड्स एण्ड कॉन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
453	034760	जोल्ली पार्क प्राइवेट लिमिटेड
454	034769	क्वेस्ट इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड
455	034772	उन्नता साई पावर प्राइवेट लिमिटेड
456	034773	मनाक इंजीनीर्स प्राइवेट लिमिटेड
457	034776	पी सी वी अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
458	034779	हैटेक इन्नोवेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
459	034780	मिहिरा इन्फो टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
460	034785	गुदार हॉस्पिटैलीटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
461	034788	वेब जेन इन्फोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
462	034789	मैकना कम्प्युटर्स एण्ड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
463	034791	एल्लन इंजीनीर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड
464	034801	लेखा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

465	034803	प्रोटेक इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
466	034805	कम्युन नेटवर्कस लिमिटेड
467	034806	मेक्सट्राक्स सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
468	034808	बिजमान सोल्युशन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
469	034811	श्री जी.एम. कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
470	034813	पुष्पामि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
471	034823	रोबर नेटवर्क ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
472	034826	विन्सीस सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
473	034827	विरटयुल विटयुस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
474	034832	ऑमीन पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
475	034833	ऑब्जेक्ट वेव टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
476	034834	विमासु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
477	034839	अजय पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
478	34841	एस वी एल सोलैस प्राइवेट लिमिटेड
479	034846	मैस्टीक मर्बल एण्ड ग्रानैट प्राइवेट लिमिटेड
480	034848	साई गंगा मिनी हैडेल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
481	034856	ताडपल्लीगुडेग कगरासिल राविशेरा लिमिटेड
482	034857	बजार.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
483	034865	कोडाड लॉजिस्टिक्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
484	034866	डेक्कन एडवान्सड कैबल मेचिनरी प्राइवेट लिमिटेड
485	034867	श्री कासी शिवा पार्वथी बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
486	034869	मार्गगिन इन्टराक्टिव सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
487	034871	डिजिटल डॉट प्राइवेट लिमिटेड
488	034873	एडवान्सड सॉफनेट लिमिटेड
489	034876	द्वान्सीट इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
490	034886	श्री राम बयो-टेक लिमिटेड
491	034892	संग-फोइड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
492	034893	सावेर्स शोप प्राइवेट लिमिटेड
493	034896	हरिता हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
494	034901	हैदराबाद.कॉ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
495	034916	की 2 कॉम सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
496	034920	सन्प्राफिक्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
497	034923	मीसा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
498	034928	वामिनेनीरा सेबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
499	034937	पाटेल युनिसन्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
500	034941	मिसॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
501	034949	अररम सॉफ्ट सोल्युशन्स लिमिटेड
502	034951	कोबाल्ट इन्फोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
503	034955	है-बीम इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड
504	034960	नियो लोटस सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेर्स प्राइवेट लिमिटेड
505	034962	एम के टि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
506	034967	ई जे एम एक्सपोर्ट सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
507	034969	श्री मालिका होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
508	034979	विग्नान सॉफ्टलैन सर्विसेस लिमिटेड
509	034980	ब्रालाक टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
510	034982	द्रानविचल वेकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
511	034987	ऑन्कोर सैर एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
512	034988	न्युदा जोन हेल्थ कैंर प्राइवेट लिमिटेड
513	034989	जन्माभूमी टेलीफिल्मस लिमिटेड

514	034992	सुरागनि रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
515	34993	स्टारलेट सिस्टम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
516	035006	साक्याता इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
517	035007	एस.वी. ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
518	035008	रवागृहा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
519	035010	सिरी ऑफ़ डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
520	035023	रैनबो सॉफ्टवेक डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
521	035030	युनैटेड फ़्लैट कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
522	035041	आई सी सी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
523	035043	डिस्कवरी आई टी सॉफ्टवेर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
524	035047	दिव्या शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
525	035052	श्री साईनाथ मनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
526	035053	स्पुटनिक हैड्रो पिनियुमाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
527	035058	इन्फोमाटिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
528	035059	हरबिंगर्स हान्डीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
529	035065	विज्जार्ड्स ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड
530	035074	वेब आबजेक्ट्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
531	035076	अल-क्वाबा टूल्स एण्ड ट्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड
532	035077	गोने रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
533	035080	मन्जीरा स्टूडेंट्स कैर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
534	035085	श्री चक्रा पॉर जेन लिमिटेड
535	035087	भावेन वेब टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
536	035094	गिरिधार सिमेंट्स लिमिटेड
537	035097	रीयल डाटा नेटवर्कस प्राइवेट लिमिटेड
538	035098	श्री सुधीर कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
539	035099	जोइन कॅम टेक्नोलोजीस लिमिटेड
540	035102	क्युबा सॉफ्टवेर लिमिटेड
541	035111	एक्सिस-नेट ट्रेड सोल्युशन्स लिमिटेड
542	035112	अग्नी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
543	035115	टालेन्ट हॉट मानवोत्सर्ग कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
544	035116	रॉक सोलिड एप्पारिन्स प्राइवेट लिमिटेड
545	035117	हेक्सागोन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
546	035118	जेन इन्फोक्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
547	035121	गोल्डेन गेट सॉफ्टवेर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
548	035129	गमिंग ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
549	035130	पल रिमिडीस प्राइवेट लिमिटेड
550	035136	श्री साई पूजिता कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड
551	035139	लुनस्रा मरैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
552	035141	सी आर सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
553	035143	जनमित्रा हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
554	035144	दिलसुचि सॉफ्टवेर सोल्युशन्स लिमिटेड
555	035145	रोबस्ट सॉफ्टवेर लिमिटेड
556	035148	अनन्ता विजया रेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
557	035150	मुकुन्द कोच कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
558	035153	डेक्कन सॉफ्ट वेर प्राइवेट लिमिटेड
559	035159	वाल्स प्लस मनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
560	035161	भारत बयो-लोजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
561	035170	वीनॅस-कॅम काम्पोजिशन प्राइवेट लिमिटेड
562	035172	ऑफ़ा विशन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

563	035177	रिनैसन्स पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
564	035178	मल्टीमीडिया वॉरल्ड वैड वन्डर्स मार्केटिंग लिमिटेड
565	035179	सुनान्द सॉफ्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
566	035183	मीडिडा बयो इन्फोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
567	035185	फोटो कैफ.कॉम लिमिटेड
568	035187	डोमाग एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स लिमिटेड
569	035192	ब्रंती इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
570	035198	इन्डस डियुटच कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
571	035199	एस.वी.वी.एस. इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
572	035216	इन्फोक्वेस्ट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
573	035225	सान माको इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
574	035229	काडिड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
575	035241	दूति इन्फोटेक (इण्डिया) लिमिटेड
576	035245	देवा डिस्ट्रीलरीस एण्ड ब्रिबेरीस प्राइवेट लिमिटेड
577	035252	महार्शी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
578	035254	इरि तेज सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
579	035255	श्री वेंकटेश्वारा नेट सोल्युशन्स लिमिटेड
580	035259	अस्क इन्टेक लिमिटेड
581	035261	जरा प्रासान्ना रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
582	035262	सन्दीप इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
583	035272	श्री शिवा कामाक्षी जिवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
584	035279	सेन्चुरी वेब सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
585	035282	वन फौव व्री ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
586	035284	आर.ई.सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
587	035290	एस ओ एस हेल्थकेर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
588	035294	एस्सेसवी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
589	035298	जीयो सॉफ्ट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
590	035301	लैन्स मल्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
591	035302	जयन्त फलकम इन्फोर्मेशन कम्प्युनिकेशन एन्टरटेनमेन्ट लिमिटेड

पी. सी. नन्दा कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयंबतूर-641005, दिनांक 27 मार्च 2008

सं. धारा/560(3)/एमसीए/आरओसी-कोयंबतूर/धारा 560/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित कम्पनियों के नाम जब तक कारण दर्शाए न जाएं उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे :-

873	897	कोयंबतूर लिसिंग प्रइवेट लिमिटेड
874	2995	वैट अन्ड को. प्लास्टिकस प्रइवेट लिमिटेड
875	3226	वैट -- टेक्स इन्जिनयअरस प्रइवेट लिमिटेड
876	3228	नवजीवन स्पिन्नअरस प्रइवेट लिमिटेड
877	3234	राजलक्ष्मी स्टोन्स प्रइवेट लिमिटेड
878	3244	श्रीवरदीनी स्टील रोलिंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
879	3307	एएमएम केम (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
880	3311	गणपती वेल कनफक्शनरी प्रइवेट लिमिटेड
881	3313	गोल्फ है -- टेक इन्जिनयअरस प्रइवेट लिमिटेड
882	3330	सेलटेक स्पिन्निंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
883	3345	के वी टेक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
884	3466	ईकवीटी गारमेंट्स प्रइवेट लिमिटेड
885	3493	बीजे ग्रानैट्स प्रइवेट लिमिटेड
886	3495	तीरूमला पेप्पर मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
887	3496	जेवीएस होम अप्लेयन्स प्रइवेट लिमिटेड
888	3547	विजेष कमिकल प्रइवेट लिमिटेड
889	3551	ब्रलुचिप इन्फरमेशन टेक्नालजी प्रइवेट लिमिटेड
890	4432	श्री वालभुमी सुगर मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
891	4440	सन्तोष पेप्पर टयुब्स प्रइवेट लिमिटेड
892	4441	काली स्त्रीम्प फार्म प्रइवेट लिमिटेड
893	4451	अरजुन एम्बरायडरीस प्रइवेट लिमिटेड
894	4469	टी. एन. टी अग्रो फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
895	4508	गैटान फार्माच्युटीकल्स प्रइवेट लिमिटेड
896	4511	भन्नारी अम्मन पेप्पर मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
897	4515	अग्रीमोनिया एक्सपोर्टर्स प्रइवेट लिमिटेड
898	4522	जे.जे.टान्सफार्मस प्रइवेट लिमिटेड

899	4528	तरेया टान्सपोर्ट कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
900	4532	मुसगन सैगि अन्ड वीवींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
901	4549	अनुश्री इल्क्ट्रो वेक सिस्टम्स इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
902	4550	रमेश काठठन मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
903	4615	श्री कडय इस्परर अग्रो प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
904	4643	रेवीन रियॉट्स प्रइवेट लिमिटेड
905	4653	बीजीता आठठे एक्जुपमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
906	4655	पवार प्लास्टीक्स प्रइवेट लिमिटेड
907	4656	श्री वीगनेष अयसवरया टेक्सटायल्स प्रइवेट लिमिटेड
908	4658	आरटीस्टीक ज्वेल्जरी प्रइवेट लिमिटेड
909	4668	सज्जत इन्डियन गंस एजन्सीस प्रइवेट लिमिटेड
910	4675	मरीयन टेक्सटायल्स प्रइवेट लिमिटेड
911	4679	काहीनुर रिसार्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
912	4711	श्री शकती विनायगर टेक्सटायल्स प्रइवेट लिमिटेड
913	4714	असविन भिंसीनस मशीन्स प्रइवेट लिमिटेड
914	4739	अरुणा मैन्स अन्ड मिनरज्स प्रइवेट लिमिटेड
915	4743	प्रगती है-टेक सरक्युट्स प्रइवेट लिमिटेड
916	4765	पीवीएस अग्रो फार्म प्रइवेट लिमिटेड
917	4768	सेलम रेसीनस प्रइवेट लिमिटेड
918	4770	पीआरपी टेक्सटायल अन्ड मशीन वर्क्स प्रइवेट लिमिटेड
919	5054	कोमरपालयम स्माल स्केल डैरिंग फाक्टरी कामन एफलुयन्ट ट्रीटमेन्ट कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
920	5874	नेल्लुकुप्पम्पन साय भिल्डर्स प्रइवेट लिमिटेड
921	6810	प्रागमेटीक इन्जीनीयरिंग प्रइवेट लिमिटेड
922	6817	तेरान एजन्सीस प्रइवेट लिमिटेड
923	7866	लिप्तास टेक्सटायलस प्रइवेट लिमिटेड
924	7895	एकेएस रबर्स प्रइवेट लिमिटेड
925	7906	वी.जे.पी. एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
926	7920	एबीएस अकयुरा भिंसीनस सिस्टमस प्रइवेट लिमिटेड
927	7921	लीयो शकती मिनरल वाटरस प्रइवेट लिमिटेड
928	7930	ग्रीनविच स्टिलस प्रइवेट लिमिटेड
929	7932	पवर रीट्रेडिंग कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
930	7940	हैवयु एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
931	7941	तायममाल टेक्सटायल इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
932	7947	लिव अन्ड लेट लिव इन्टरनेशनल प्रइवेट लिमिटेड
933	7948	प्रेम इन्डस्ट्रीयल कन्सयुमबलस प्रइवेट लिमिटेड

934	7951	हैमेन्स मारकेटींग प्रइवेट लिमिटेड
935	7957	जुनो गारमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
936	7962	आइरष महिमा मारकेटींग प्रइवेट लिमिटेड
937	7976	पेनमारक इलक्ट्रॉनिकस प्रइवेट लिमिटेड
938	8136	एसपीसी इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड
939	8144	गिल्ड एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
940	8147	युनीसाफ्ट मारकेटींग प्रइवेट लिमिटेड
941	8149	अडवेब कम्प्यूनीकेशन प्रइवेट लिमिटेड
942	8150	अडवेब एजुकेशन प्रइवेट लिमिटेड
943	8155	वैष्णवी स्पिननींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
944	8158	ईसवरी स्पिननींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
945	8170	एन.एस. जयुट अन्ड प्लैवेस्टस प्रइवेट लिमिटेड
946	8177	आर.पी.के.अग्रो फुड्स प्रइवेट लिमिटेड
947	8178	एस.वी.आर. फुड प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
948	8179	कोयंबतूर एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
949	8180	श्री सीवाचलपती स्पिननींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
950	8183	जेरमानीयम बयुटटी प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
951	8188	इमा ईवन्ट मेनेजमेन्ट असोसीयेट्स प्रइवेट लिमिटेड
952	8190	ईसपर राज प्राग्रसिव कन्सलटन्सी सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
953	8191	सन स्टार मैन्स अन्ड मिन्स प्रइवेट लिमिटेड
954	8195	साम्बर्मुत्ती मिलडरस प्रइवेट लिमिटेड
955	8216	रेयनटी कन्ट्री क्लब प्रइवेट लिमिटेड
956	8217	वेरडन्ट पारक हौटल प्रइवेट लिमिटेड
957	9177	जिएस अकार्ड टवल एक्सपोर्ट प्रइवेट लिमिटेड
958	10203	एस.एस नाच्चीमुत्तू चिट फण्ड्स प्रइवेट लिमिटेड
959	11162	केरीट मोरन टी एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड

पी. राजगोपालन
कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बेंगलूर, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 560(5)/सू.मो.दे/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3464	मैसर्स जेनकिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2.	3253	मैसर्स मोहिजानी फैशन फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
3.	3554	मैसर्स वीनस फाईनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	3591	मैसर्स मैसूर पॉलि पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	3588	मैसर्स स्टैंडर्ड मेटालाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	3583	मैसर्स मिया प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	3582	मैसर्स एलिमेंट ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड
8.	3555	मैसर्स रोनाल्ड चेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
9.	3631	मैसर्स के. वी. जे. फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	3629	मैसर्स मेलकॉन फाइन वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	3622	मैसर्स विमलट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	3606	मैसर्स के. एल.एन. फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	3610	मैसर्स कोरल फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड
14.	3556	मैसर्स आटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल आयल्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	3349	मैसर्स श्री मोकाम्बिका प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	30105	मैसर्स एडवांस इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
17.	30111	मैसर्स बेंगलूर कंज्यूमर क्लब प्राइवेट लिमिटेड
18.	30114	मैसर्स फैशन इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	30115	मैसर्स जे. एम. आई. टी. सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
20.	30116	मैसर्स नोलिफंग ग्रीन मेडोस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	30117	मैसर्स प्रलुशा नेटवर्क स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	30118	मैसर्स सीनेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	30120	मैसर्स स्वदेशी हाऊसहोल्ड आर्टिकल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
24.	30127	मैसर्स इंटरलेस्ट क्लब्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	30135	मैसर्स नुवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
26.	30137	मैसर्स मार्कवेल इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	30147	मैसर्स थिली इन्फोसर्व प्राइवेट लिमिटेड
28.	30152	मैसर्स अंश डिस्ट्रीलरीस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
29.	30153	मैसर्स एक्रिट इंडिया मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
30.	30156	मैसर्स आदित्य रिनवेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
31.	30158	मैसर्स इथिय सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
32.	30166	मैसर्स एम. बी. इवेंट्स एण्ड प्रमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड
33.	30181	मैसर्स लिओओल्विन कम्प्यूटर्स टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
34.	30195	मैसर्स लेयर 7 सिस्टम्स एंड टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
35.	30197	मैसर्स शिवसाई पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
36.	30199	मैसर्स सिमरन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
37.	03683	मैसर्स राज आनंद स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	30219	मैसर्स श्री मूकाम्बिका एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
39.	30225	मैसर्स आइडियास मिनवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
40.	30229	मैसर्स स्टेलर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
41.	30234	मैसर्स सिम्पलीफाई डिजाइन आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
42.	30235	मैसर्स विआसना दोनाटा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
43.	30236	मैसर्स नेट्सप्रिंट इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
44.	30239	मैसर्स श्री स्कंद गणपा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
45.	30247	मैसर्स डेली एपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
46.	30249	मैसर्स माई ड्रीम मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
47.	30250	मैसर्स बिलागी सुगर्स लिमिटेड
48.	30252	मैसर्स बॉयसेल ट्रांसिट इंडिया लिमिटेड
49.	30256	मैसर्स डोमोर फाईनेन्शियल्स एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
50.	30269	मैसर्स डेक्कन मिडिया प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
51.	30272	मैसर्स सिनर्जिस सॉफ्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
52.	30284	मैसर्स इम्पैक्स क्रिएटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
53.	30294	मैसर्स टेलीकॉम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर-34, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, आज रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र०	कंपनी नं०	कंपनी का नाम
1	31001	वेरेकॉम साफ्टवेयर प्राइवेलिमि०
2	31002	लोहितास कम्प्यूटर सर्विसेस लिमि०
3	31004	शेप गारमेट सोर्सिंग एंड सर्विसेस प्राइवेलिमि०
4	31005	काबोसिस बाइक एंड टेवरी रेटल सर्विसेस इंडिया प्राइवेलिमि०
5	31016	वेलनित नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेलिमि०
6	31020	फोर्टिस साफ्टवेयर प्राइवेलिमि०
7	31025	उदोशी मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेलिमि०
8	31026	आश्रय मार्केटिंग नेटवर्क प्राइवेलिमि०
9	31047	सिक्वॉल सोल्यो-पेक प्राइवेलिमि०
10	31060	दौलत सीड्स प्राइवेलिमि०
11	31067	इंटीग्रेटेड सिल्क टेक साल्युशंस प्राइवेलिमि०
12	31068	लिम्बा नेटवर्क प्राइवेलिमि०
13	31070	सी०क्यू०आर० प्रेस प्राइवेलिमि०
14	31071	कलकुरा रेफ्रिजेशन एंड किचन इक्विपमेंट्स प्राइवेलिमि०
15	31073	वीथ्री आउटनेशन सर्विसेस प्राइवेलिमि०
16	31076	आईकॉन इन्वोर्टेव होम एप्लायंसेस प्राइवेलिमि०
17	31078	मांडगे डेवलपर्स प्राइवेलिमि०
18	31081	वोस्टेवरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेलिमि०
19	31082	जी३ एट आई साफ्टवेयर साल्युशंस लिमि०
20	31084	टू वेल्थ प्रमोटर एंड डेवलपर्स प्राइवेलिमि०
21	31095	आशपे नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेलिमि०
22	31100	टाइडलट्री कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेलिमि०
23	31107	एस०के० हारपीटलिटी लिमि०
24	31110	कैपिटल साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेलिमि०
25	31114	प्यपिलस रॉयलविज मार्केटिंग प्राइवेलिमि०
26	31123	हेल्थ केयर मेडिक्स प्राइवेलिमि०
27	31128	कमलीट ह्यूमन रिसोर्सेस साल्युशंस प्राइवेलिमि०
28	31129	मेवरीटलिन मेनेजमेंट कंसलटेन्स प्राइवेलिमि०
29	31137	जौरीशंकर कशर्स प्राइवेलिमि०
30	31142	भूमि परस्पर गारुडेटे सेवे प्राइवेलिमि०
31	31146	बेंगलूर लिविगड ऑवरीजीन कंपनी इंडिया प्राइवेलिमि०
32	31148	विश्वास ग्रोथिग नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स प्राइवेलिमि०
33	31150	अदिति होटल्स प्राइवेलिमि०
34	31155	सिगुआ इंफॉटेक प्राइवेलिमि०
35	31176	सिद्धिविनायक साफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स प्राइवेलिमि०
36	31177	विमा इन्श्योरेंस एडवायसरी सर्विसेस प्राइवेलिमि०
37	31179	शरव रेसीडेन्सी एंड रिपोर्ट्स प्राइवेलिमि०
38	31180	गुड रेकॉर्ड एमप्लॉयर्स प्राइवेलिमि०

39	31182	मेगवे मार्केटिंग प्राइवलिमि0
40	31191	कपालिब नेटवर्क प्राइवलिमि0
41	31195	फ्लेक्सी ट्रिडेंट एकेडमी प्राइवलिमि0
42	31197	मेस्ट्रो साफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लिमि0
43	31201	ठंरिलिको साल्युशन्स एंड सर्विसेस प्राइवलिमि0
44	31202	गार्डन फेश सप्लाइस प्राइवलिमि0
45	31205	अपणा इंफोनेट प्राइवलिमि0
46	31222	युनिक एयर बायोटेक सिस्टम्स प्राइवलिमि0
47	31229	एम0सी0एम0एल0 स्पेकॉम प्राइवलिमि0
48	31231	प्लासिंग्टन साफ्टवेयर प्राइवलिमि0
49	31249	बिपको साफ्टवेक प्राइवलिमि0
50	31250	एस0के0 टेकमेक प्रोडक्ट्स प्राइवलिमि0
51	31252	ग्रोथवेल बिजनेस प्राइवलिमि0
52	31257	मल्टीप्लाय एक्सेस एंड शेयरशाप प्राइवलिमि0
53	31261	करुणाडु मिजरल्स एंड मेटल्स प्राइवलिमि0
54	31264	ओजोन देवल्स प्राइवलिमि0
55	31270	एफएलएस एंड एम कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राइवलिमि0
56	31272	कोटेश्वर साफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिस कंसलटेन्ट्स
57	31273	रायल बीड्स प्राइवलिमि0
58	31278	बारिल इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवलिमि0
59	31288	हाश इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवलिमि0
60	31294	सराग जीवन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स प्राइवलिमि0
61	31295	पंचमुखी मार्केट नेटवर्किंग (बेगलोर) प्राइवलिमि0

संजय कुमार गुप्ता
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 9th April 2008

No. 44/2008/SCA(GENL.)—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended), Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed for the annual Summer Vacation from Monday, May 19, 2008 to Sunday July 6, 2008 (both days inclusive) and will reopen on Monday, July 7, 2008.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended), Hon'ble the Chief Justice of India has nominated the following Division Benches for hearing of urgent miscellaneous matters and old regular matters during the Summer Vacation for the period from May 19 to June 3, 2008, June 4 to June 19, 2008 and June 20 to July 6, 2008 :—

Ist Part of Vacation (19.05.2008 to 03.06.2008)		
1. For the period from 19.05.2008 to 03.06.2008	(i) Hon'ble Mr. Justice C. K. Thakker (ii) Hon'ble Mr. Justice Lokeshwar Singh Panta	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and old regular matters from Tuesdays to Fridays.
IInd Part of Vacation (04.06.2008 to 19.06.2008)		
2. For the period from 04.06.2008 to 19.06.2008	(i) Hon'ble Dr. Justice Arijit Pasayat (ii) Hon'ble Mr. Justice P. P. Naolekar	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and old regular matters from Tuesdays to Fridays.
IIIrd Part of Vacation (20.06.2008 to 06.07.2008)		
3. For the period from 20.06.2008 to 06.07.2008	(i) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir (ii) Hon'ble Mr. Justice G. S. Singhvi	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and old regular matters from Tuesdays to Fridays.
4. For the period from 20.06.2008 to 04.07.2008	(i) Hon'ble Mr. Justice R. V. Raveendran (ii) Hon'ble Mr. Justice P. Sathasivam	For hearing regular matters.

During summer vacation the Registry will remain open from 10.00 A. M. to 4. 30 P. M. on all days except Saturdays (other than July 5, 2008), Sundays and holidays, when it shall remain closed. Class-IV staff, however, will remain on duty from 9.30 A. M. to 5.00 P. M. On Saturday, 5th July, 2008, the Registry will remain open as usual.

SUBHASH MALIK
Registrar (Admn. Genl.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 8th February 2008

No. A-19011/3/2003 Admn.-I—Consequent upon his appointment as Chairman, Inland Waterways Authority of India, Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways in the rank and pay of Secretary and Secretariat of the Appointments Committee of the

Cabinet, Department of Personnel & Training Order No. 9/3/2008-EO(SM.I) dated 31.01.2008, Shri Surendra Pal Gaur, IAS (UP : 74) has been relieved of his duties as Secretary in the Commission's office w.e.f. the afternoon of 6th February, 2008 to enable him to take up his new assignment.

Dr. A. S. KHAN
Jt. Secy (Admn.)

New Delhi, the 24th March 2008

No. A-60011/8/2005-RTI Cell (Admn.)—In continuation of earlier Notification dated 18th July & 9th August 2007 in terms of Section 19 and as provided under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Name of the CPIO	Subject matter	Telephone No.	Name of Concerned Appellate Authority
Sh. Jaswant Singh, DS (R-I)	R-I Scrutiny Section, SPC-I, SPC-II, Adv. Cell, P&D Bank and Prog. Unit.	23098548	Ms. Kalpana Rajsinghot, JS (R-I)
Sh. A. K. Singh, DS (R-II, IFC)	R-II, R-III, R-VI Scrutiny Sections, IFC, R(C&P) and other misc. matters.	23381552	Sh. Nuruddin Ansari, JS (R-II)
Sh. S. D. Baijal, DS (R-IV)	R-IV, R-V Scrutiny Sections.	23386979	Sh. Nuruddin Ansari JS (R-II)

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 31st March 2008

No. DPPERS.1/2008/0069/3/2/97—The President is pleased to appoint Shri Azhar Ali Abdulahai Ansari, Assistant Public Prosecutor, CBI as Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 28.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 24th March 2008

No. P.III-2/2008-Pers-3—Consequent on acceptance of his Voluntary retirement w.e.f. 01.03.2008 (FN) from the post

of Administrative/Section Officer, Shri M. T. Zachariah (IRLA-5951) had handed over the charge of Administrative/Section Officer in the Office of Addl. DIGP, Group Centre, CRPF, Gandhinagar from the same date.

K. K. SIVA PRASAD
Addl. DIGP (Pers-III)

The 26th March 2008

No. P.III-2/2008-Pers-3—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation, Shri P. K. Gadekar (IRLA-5511) of Group Centre, CRPF, Talegaon, Pune has relinquished charge of the post of Administrative Officer in the Afternoon of 31.01.2008.

K. K. SIVA PRASAD
Addl. DIGP (Pers-III)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 24th March 2008

No. E-32015(4)/1/LDCE/2006/Pers.I/67—The President is pleased to appoint the following officers (Group 'A') as Assistant Commandant in CISF against the Limited Departmental Competitive Examination (LDEC) 2006 with effect from the date of commencement of Basic training as per details given below. These officer are posted to the CISF Units as shown against each for the purpose of drawal of Pay and Allowances with effect from the same date.

Sl. No.	Name of Officer	Name of the Institution	Place of posting	Date of commencement of Basic Training
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	Vipin Kumar Tomar	NISA Hyderabad	RTC Arakkonam	14.01.2008
2.	Sudhir Kumar	NISA Hyderabad	5th Res Bn Ghaziabad	14.01.2008

1	2	3	4	5
	S/Shri			
3.	Ashish Kumar	NISA Hyderabad	6th DM Bn Arakkonam	14.01.2008
4.	Gurjeet Singh	NISA Hyderabad	7th Res Bn Jaipur	14.01.2008
5.	A. Mohammed Haneef	NISA Hyderabad	RTC Arakkonam	14.01.2008
6.	Vijay Kumar	NISA Hyderabad	6th DM Bn Arakkonam	14.01.2008
7.	Ashok Jalwania	NISA Hyderabad	RTC Deoli-II	14.01.2008
8.	P. C. Dalai	NISA Hyderabad	4th DM Bn Mundali	14.01.2008
9.	Hemanta Kumar Brahma	NISA Hyderabad	4th DM Bn Mundali	14.01.2008

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
DELHI

New Delhi-100002, the 27th March 2008

No. Admn.O.O. No. 183—Consequent upon his Voluntary Retirement Sh. S. S. Kapur, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the forenoon of 01.04.2008.

His date of birth is 28.11.1948 and date of appointment in Govt. Service is 16.09.1972.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 19th March 2008

No. OE (Cash)/Pen/10-2/2007-2008—The following officers of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the date noted against their name.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Smt. M. S. Vijayalakshmi Dy. Accountant General	29.02.2008	Superannuation
2.	Sd/- P. K. Balan, Sr. Audit Officer	29.02.2008	Superannuation
3.	Sd/- P. V. Jayachandran Nair, Sr. Audit Officer	29.02.2008	Superannuation
4.	Sd/- M. J. Joseph, Audit Officer	29.02.2008	Superannuation
5.	Sd/- R. K. Muralicharan, Audit Officer	29.02.2008	Superannuation
6.	Sd/- A. C. Josephan, Sr. Audit Officer	29.02.2008	Superannuation

P. Unnikrishnan
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 31st March 2008

No. 5/1/2008-C.P.I.- The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 increased by 1 point and stood at 135 (one hundred & thirty five) for the month of February, 2008.

R. K. GUPTA
Jt. Director

MINISTRY OF MINES

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 24th March 2008

No. 996A/A-32013/3-DDG(Geochem)/2006/19B, Vol.II—On the recommendations of the Departmental Promotion Committed, the President is pleased to appoint the following Director (Geochemistry) (Selection Grade) as Deputy Director General (Geochemistry) on promotion in the same department in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the officers	Date of joining as Dy. Director General (Geochemistry)
1.	Shri Anish Kr. Mazumder	26.10.2007 (AN)
2.	Dr R. G. Vijay	26.10.2007 (AN)

B. M. GALAV
Administrative Officer, G.I.
for Director General

MINISTRY OF COMMUNICATION & INFORMATION
TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

WIRELESS MONITORING ORGANISATION

New Delhi-110062, the 20th March 2008

No. A-32012/2/03-Admn.(Pt.)—The Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications & Information Technology, Department of Telecommunications, hereby permit Smt. Janaki Shekar, Steno Grade-C of this Organisation to continue to officiate as Administrative Officer (Group B Gazetted) on ad-hoc basis in the Wireless monitoring Organisation, Ministry of Communications & Information Technology, Department of Telecommunications, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for further period of six months with effect from 06.04.2008 to 05.10.2008 or till a regular candidate is appointed to the said post, whichever is earlier.

M. A. SIDDIQUI
Dy. Director
for Wireless Adviser

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE & STORAGE

N. H. -IV, Faridabad-121001, the 25th March 2008

No. 2-22/2007-Adm. I—Plant Protection Adviser to the Govt. of India has appointed the following SSA-II (Chemistry) to the post of Plant Protection Officer (Chemistry) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on promotion basis with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1.	Sh. D. S. Selrawat	31.12.2007 (FN)
2.	Sh. Y. S. Adhana	31.12.2007 (FN)

H. C. RUSTAGI
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 19th March 2008

No. PD/11(1)/2008-III/2008/2443—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Kum. Lalitha S. Das, Assistant Accountant, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 04.02.2008 (FN) to 07.03.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 24th March 2008

No. PD/11(1)/2008-III/2008/2495—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Muthulakshmi Jayaraman, Assistant, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 04.02.2008 (FN) to 07.03.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 26th March 2008

No. PD/11(1)/2008-III/2008/2586—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Sreekala Ramchander, Assistant, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 24.01.2008 (FN) to 22.02.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 26th March 2008

No. PD/2(5)/2007/R-IV/2588—President is pleased to appoint Shri Mudasir Ahmad Parray as Scientific Officer grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 28th February, 2008 until further orders.

N. D. SHARMA
Controller

No. 93/Noti./Est.IA/30980—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof:—

Sr. No.	Name of the Officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
1.	Dr. Shankar Jha	SO/D	18.12.2007 (AN)	Death
2.	Dr. Rakesh Kumar Singh	SO/D	04.02.2008 (AN)	Resignation
3.	Sh. V. S. Kamalapur	SO/G	20.02.2008 (FN)	Voluntary Retirement
4.	Sh. K. R. Marballi	SO/H	29.02.2008 (AN)	Superannuation
5.	Sh. Mahendra Kumar Nema	SO/H	29.02.2008 (AN)	Superannuation

1	2	3	4	5
6.	Sh. Padmanabhan Ramadas	Sr. PS	29.02.2008 (AN)	Superannuation
7.	Sh. D. Anil Kumar	SO/C	29.02.2008 (AN)	Resignation
8.	Sh. Manoj Santosh Chaudhari	SO/D	29.02.2008 (AN)	Resignation
9.	Sh. Subhash Babarao Bodke	SO/H	29.02.2008 (AN)	Superannuation
10.	Sh. C. P. Govindan	SO/G	29.02.2008 (AN)	Superannuation

N. D. SHARMA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 24th March 2008

No. DCSEM/A/2(64)/2001-Rectt./Vol. III/231—Director, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Smt. Geeta K. Iyer, Assistant Accountant in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in Directorate of Construction, Services and Estate Management, DAE as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- on adhoc basis in DCSEM with effect from 28.01.2008 (FN) to 29.02.2008 (AN) against the vacancy of Kumari C. Santhakumari, AAO officiating as Accounts Officer.

G. MURALIDHARAN
Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/2(64)/2001-Rectt./Vol. III/232—Director, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Kum. C. Santhakumari, Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in Directorate of Construction, Services and Estate Management, DAE as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- on adhoc basis in DCSEM with effect from 28.01.2008 (FN) to 29.02.2008 (AN) against the vacancy of Smt. Y. Yegesh, Sr. Accounts Officer officiating as Deputy Controller of Accounts.

G. MURALIDHARAN
Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/2(64)/2001-Rectt./Vol. III/233—Director, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy

appoints Shri P. V. Dhongadi, Accounts Officer as Senior Accounts Officer in this Directorate in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- from the forenoon of 01.09.2007 until further orders.

G. MURALIDHARAN
Administrative Officer-III

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 18th March 2008

No. DPS/11006/Rectt./1309—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Smt. Kannampillil Parameshwara Menon Sathidevi, Accounts Officer (scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-), DPS, Mumbai, as Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, in the same Unit, with effect from the forenoon of 1st October, 2007 until further orders.

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 24th March 2008

No. HWB/R/5(2)-CO/2008/305—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Smt. Prescilla Fernandes, Steno Gr. I, Heavy Water Board (Central office), Mumbai to officiate as Private Secretary (NS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 23.10.2007 (Forenoon) to 31.01.2008 (Afternoon).

R. P. ACHARYA
Administrative Officer

The 26th March 2008

No. HWB/R/5(2)-CO/2008/309—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Shri Pullaikodi Vettil Jagadeesan, Assistant Accounts Officer, Heavy Water Board (Central office), Mumbai to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 04.02.2008 (Forenoon) to 05.03.2008 (Afternoon).

R. P. ACHARYA
Administrative Officer

No. HWB/R/5(2)-CO/2008/310—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Smt. Deepu Sukumaran, Assistant Accountant, Heavy Water Board (Central office), Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 04.02.2008 (Forenoon) to 05.03.2008 (Afternoon).

R. P. ACHARYA
Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION AND RESEARCH**

Hyderabad-500016, the 25th March 2008

No. AMD-16/1/2005-Rectt/Vol. I/1706.—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri N. Sreekumar, Accounts Officer (Scale of pay of Rs. 7,500—12,000/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad as Senior Accounts Officer (Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-) in the same Directorate with effect from the forenoon of 01.09.2007 until further orders.

G. M. NAIR
Chief Administrative & Accounts Officer

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION**

New Delhi-110003, the 18th March 2008

No. A-35018/6/2002-E-II.—The Director General of Civil Aviation is pleased to extend the period of deputation of Shri S. Prakash, Assistant of Central Secretariat Services borne on the cadre of the Ministry of Civil Aviation in the post of Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Administration Directorate of the Directorate General of Civil Aviation, New Delhi for a further period of one year with effect from the forenoon of 1st March, 2008.

MEENA SHARMA
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 28th March 2008

No. 3-1623/08-Sci.Estt./850.—On the recommendations of the DPC (Group-B, Gazetted) the following, Head Surveyor has been promoted to the post of Officer Surveyor (Group-B, Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- per month plus usual allowances applicabale thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of Officer.	Present Place of posting	Place of Posting on promotion	Date of Joining
1.	Sh. Har Bhagwan	CGWB, NWR, Chandigarh	CGWB, NWR, Chandigarh	10.03.2008 (FN)

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

MOOL CHAND VERMA
Administrative Officer

No. 3-1613/2008-Sci.Estt./851.—On the recommendations of the DPC (Group-B, Gazetted), Shri Rajendra Kumar Kalita presently working as Asstt. Hydrogeologist on adhoc basis has been promoted to the post of Assistant Hydrogeologist on regular basis in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances applicabale thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of Officer	Place of posting	Date of Joining
1.	Sh. Rajendra Kumar Kalita	CGWB, NER, Guwahati	24.01.2008 (FN)

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

MOOL CHAND VERMA
Administrative Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. G. M. Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1980PTC002020/5.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. M. Textiles Private Limited has this day been struck off from the register of Registrar of Companies and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gem Transport Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1980PTC002052/7.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gem Transport Private Limited has this day been struck off from the register of Registrar of Companies and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijayalaxmi Exhibitors Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92112RJ1980PTC002056/9.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Vijayalaxmi Exhibitors Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hari Miners and Traders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PTC002673/11.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hari Miners and Traders Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pinkcity Alloys and Castings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1980PTC002088/13.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pinkcity Alloys and Castings Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Power Forge Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1980PTC002122/15.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Power Forge Private Limited has this day been struck

off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tribeni Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1980PTC002125/17.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Tribeni Textiles Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vimal Wire Industries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1980PTC002128/19.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Vimal Wire Industries Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. M. Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PTC002133/21.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. M. M. Enterprises Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Sunderdas Satia Cold Storage and Ice Factory
Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63022RJ1980PTC002141/23.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Sunderdas Satia Cold Storage and Ice Factory
Private Limited has this day been struck off from the
register of Registrar of Companies and the said Company
is dissolved from the date of this publication in Gazette
Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Singhalla Cables Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1981PTC002153/25.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Singhalla Cables Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayur Watches Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U33301RJ1981PTC002154/27.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mayur Watches Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mewar Chemical Products Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1981PTC002156/29.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mewar Chemical Products Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agro Auto Shipping Home Appliances Private
Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U50101RJ1981PTC002164/31.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Agro Auto Shipping Home Appliances Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jain Hardwares Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28939RJ1981PTC002175/33.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jain Hardwares Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kashitiz Woollen and Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1981PTC002180/35.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kashitiz Woollen and Textiles Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sigma Pistoas Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27201RJ1981PTC002182/37—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sigma Pistoas Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maraban Sheo Co. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U19201RJ1981PTC002286/39—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Maraban Sheo Co. Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Progressive Talc Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1981PTC002213/41—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Progressive Talc Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mascot Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17104RJ1981PTC002300/43—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mascot Fabrics Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Wool (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1981PTC002315/45—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Wool (India) Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Standard Gums Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24139RJ1981PTC002321/47—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Standard Gums Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K S Plasto-Chem Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1981PTC002327/49—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. KS Plasto-Chem Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Puja Steels Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1981PTC002374/51—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Puja Steels Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Krishna Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1981PTC002350/53—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Krishna Cements Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vee Kay Plast (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1981PTC002373/55—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Vee Kay Plast (India) Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunama Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002396/57—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sunama Cements Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alton Cables Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1982PTC002482/59—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Alton Cables Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jodhpur Hotels and Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1982PTC002430/61—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jodhpur Hotels and Enterprises Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Gum and Allied Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24139RJ1982PTC002441/63—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Aravali Gum and Allied Chemicals Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. J. Plastics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1982PTC002474/65—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. J. J. Plastics Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prayag Cement Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002454/67—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Prayag Cement Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chetak Tours Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1982PTC002469/69—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Chetak Tours Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsh Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26043RJ1982PTC002402/71—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Harsh Cements Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. North West Resorts Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55104RJ1982PTC002494/73—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. North West Resorts Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. L. Iron and Steel Works Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1982PTC002560/75—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. B. L. Iron and Steel Works Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayur Textile Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1982PTC002528/77—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mayur Textile Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amer Meters Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U33122RJ1982PTC002522/79—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Amer Meters Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Allied Minerals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1982PTC002564/81—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Allied Minerals Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002586/83—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Om Cements Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Angel Drugs Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1982PTC002614/85—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Angel Drugs Private Limited has this day been struck

off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Vijay Trading Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29308RJ1983PTC002664/87—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Vijay Trading Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Syndicate Savings Investments Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1983PTC002639/89—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Syndicate Savings Investments Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Xlo Universal Clutch Co. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U34400RJ1983PTC002643/91—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Xlo Universal Clutch Co. Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Singhvi Cables Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1983PTC002645/93—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Singhvi Cables Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kedia Cement Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1983PLC002652/95—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kedia Cement Limited has this day been struck off
from the register of Registrar of Companies and the said
Company is dissolved from the date of this publication in
Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepak Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002683/97—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deepak Trading Co. Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wizard (India) Industrial Sales Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002683/99—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Wizard (India) Industrial Sales Private Limited has

this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adini Jewellers Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1983PTC002838/101—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Adini Jewellers Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khara Refineries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1983PTC002840/103—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Khara Refineries Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deluxe Thread Mills Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1983PTC002820/105—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deluxe Thread Mills Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leela Electronics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1984PTC002910/107—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Leela Electronics Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Leela Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC002909/109—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shree Leela Trading Co. Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maruadhara Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1984PTC002931/111—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Maruadhara Chemicals Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. India Diamond Co. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC002932/113—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. India Diamond Co. Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Falcon Gulf Enterprises (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC002964/115—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Falcon Gulf Enterprises (India) Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indra Farms Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70109RJ1984PTC002991/117—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Indra Farms Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. T. Refineries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15143RJ1984PTC002957/119—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. J. T. Refineries Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. S. Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC002985/121—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. V. S. Enterprises Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Natraj Lime and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51496RJ1984PTC003026/123—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Natraj Lime and Chemicals Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhardwaj and Co. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1984PTC003047/125—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhardwaj and Co. Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prakash Cement Industries Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26942RJ1984PTC003056/127—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Prakash Cement Industries Private Limited has this

day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prashant Fertilizers and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24124RJ1984PTC003062/129—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Prashant Fertilizers and Chemicals Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ram Bone Crusher Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1984PTC003108/131—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Ram Bone Crusher Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Foster Laboratories (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85195RJ1984PTC003123/133
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Foster Laboratories (India) Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. B. D. Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1984PTC003132/135—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. S. B. D. Private Limited has this day been struck off
from the register of Registrar of Companies and the said
Company is dissolved from the date of this publication in
Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deep Ceramic Industries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26933RJ1984PTC003136/137—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deep Ceramic Industries Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pack Fab (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74994RJ1984PTC003157/139—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pack Fab (India) Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khanna Oil and Vegetable Products Private
Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1984PTC003159/141—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Khanna Oil and Vegetable Products Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navin Film Udyog Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92111RJ1984PTC003163/143—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Navin Film Udyog Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Debikay Systems Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51505RJ1984PLC003165/145—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Debikay Systems Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trend India Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31909RJ1985PLC003204/147—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Trend India Limited has this day been struck off from
the register of Registrar of Companies and the said
Company is dissolved from the date of this publication in
Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radha Krishna Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74994RJ1985PTC003226/149—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Radha Krishna Fabrics Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. T. R. Associates Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1985PTC003241/151.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. T. R. Associates Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Contec Electronic Industries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51105RJ1985PTC003244/153.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Contec Electronic Industries Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajhans Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PTC003255/155.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rajhans Cements Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paragon Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1985PTC003256/157 —
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Paragon Pharmaceuticals Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nirmal Minerals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003272/159.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Nirmal Minerals Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shipra Polytex Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25202RJ1985PTC003298/161 —
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shipra Polytex Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shubham Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1986PTC003669/163.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shubham Chemicals Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. VIP Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003659/165.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. VIP Fabrics Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahendra Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003658/167.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mahendra Fabrics Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trishul Packaging Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74950RJ1986PTC003668/169.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Trishul Packaging Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Builders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1986PTC003631/171.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anand Builders Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Intergroups Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51311RJ1986PTC003620/173.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Om Intergroups Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambica Founders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1986PTC003641/175.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ambica Founders Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanuman Prasad and Brothers Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1986PTC003667/177—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hanuman Prasad and Brothers Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goel and Goel Electronics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1986PTC003649/179—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Goel and Goel Electronics Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Fashions Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74944RJ1985PTC003330/181—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rajasthan Fashions Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trishul Laminates Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27201RJ1985PTC003334/183—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Trishul Laminates Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Perfect Gas Appliances Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ9999PLC003345/185—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Perfect Gas Appliances Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajesh Woollen Mills Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1985PTC003353/187—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rajesh Woollen Mills Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayank Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1985PTC003360/189—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mayank Enterprises Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deluxe Trading Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1985PTC003382/191—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deluxe Trading Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Avanti Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1985PTC003410/193—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Avanti Private Limited has this day been struck off
from the register of Registrar of Companies and the said
Company is dissolved from the date of this publication in
Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sangeeta Engineers and Consultants Private
Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1985PTC003457/195—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sangeeta Engineers and Consultants Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gemini Engineering Industries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74199RJ1985PTC003478/197—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gemini Engineering Industries Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Delfa Manufacturing and Trading Company
Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1985PTC003481/199—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Delfa Manufacturing and Trading Company Private
Limited has this day been struck off from the register of
Registrar of Companies and the said Company is dissolved
from the date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Murli Rolling Mills Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1985PTC003486/201—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Murli Rolling Mills Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Marble Palace Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1986PTC003509/203—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hotel Marble Palace Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. C. P. Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1986PTC003516/205—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. C. P. Cements Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Marwar Minerals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1986PTC003517/207—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Marwar Minerals Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tower Wooltex Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1986PTC003520/209—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Tower Wooltex Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tareek Engineers and Consultants Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1986PTC003524/211—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Tareek Engineers and Consultants Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gautam Suitings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1986PTC003537/213—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gautam Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Udai Jyoti Syntex Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1986PTC003538/215—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Udai Jyoti Syntex Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Detective Security Founders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ1986PTC003547/217—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Detective Security Founders Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Travel Club (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1986PTC003575/219—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Travel Club (India) Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prachi Engineering Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29130RJ1986PTC003584/221—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Prachi Engineering Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anjora Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1986PTC003588/223—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anjora Enterprises Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Providence Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1986PTC003770/225—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Providence Chemicals Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pharma Chem Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1986PLC003795/227—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pharma Chem Limited has this day been struck off
from the register of Registrar of Companies and the said
Company is dissolved from the date of this publication in
Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bikaner Estates Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1986PTC003789/229—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bikaner Estates Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Krishi Udyog Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1986PLC003580/231—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jaipur Krishi Udyog Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shubham Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003787/233—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shubham Textiles Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lee Trading Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1986PTC003740/235—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Lee Trading Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sidhi Vinayak Comprint Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U30009RJ1986PTC003751/237—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shree Sidhi Vinayak Comprint Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. B. Chemicals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24114RJ1986PTC003721/239—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. S. B. Chemicals Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mouldwell Electronics and Plastics Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1987PLC003856/241—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mouldwell Electronics and Plastics Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pink City Plastic Products Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1987PTC003842/243—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pink City Plastic Products Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kunal Proteins Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1987PTC003878/245—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kunal Proteins Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shobhit Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1987PTC003873/247—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shobhit Textiles Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Empire Drugs and Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1987PTC003891/249—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Empire Drugs and Pharmaceuticals Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Plus Brown Realm Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26953RJ1986PTC003839/251—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Plus Brown Realm Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Asbestos Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26953RJ1986PTC003809/253—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Marudhar Asbestos Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marwar Asbestos Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26953RJ1986PTC003808/255—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Marwar Asbestos Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pankaj Steel Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1986PTC003803/257—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pankaj Steel Enterprises Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagia Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1986PTC003804/259—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhagia Enterprises Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Verma Textile Industries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003840/261—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Verma Textile Industries Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arawali Gem Exports Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1987PTC003967/263—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Arawali Gem Exports Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hitech Mim Development Services Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1987PTC003919/267—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hitech Mim Development Services Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttam Deshi Khad Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24124RJ1986PTC003983/269—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Uttam Deshi Khad Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Elastic Products Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1987PTC003991/271—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Krishna Elastic Products Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bikaner Leasing and Finance Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1987PTC003953/273—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bikaner Leasing and Finance Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mangal Exports Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1987PTC003966/275—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mangal Exports Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagdamba Refinery Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1987PTC004028/277—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jagdamba Refinery Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganpati Impex Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1987PTC004041/279—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ganpati Impex Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Suitings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1987PTC004044/281—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sunrise Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganpati Antiques Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28995RJ1987PTC004058/283—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Ganpati Antiques Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tycon Group of Hotels Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1987PTC004089/285—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Tycon Group of Hotels Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Action Suitings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1987PTC004103/287—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Action Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Desert Synthetics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1987PTC004110/289—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Desert Synthetics Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Wiremesh Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1987PTC004116/291—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Balaji Wiremesh Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gini Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1987PTC004124/293—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gini Fabrics Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Triveni Suitings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1987PTC004135/295—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Triveni Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Dyeing Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24114RJ1987PTC004225/297—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Bhilwara Dyeing Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Cloth Mills Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1987PTC004207/299—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhilwara Cloth Mills Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hi-Tech Processors Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1987PTC004219/301—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hi-Tech Processors Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indo Watch Parts Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U33302RJ1987PTC004228/303—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Indo Watch Parts Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raja Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1988PTC004271/305—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Raja Fabrics Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jodhpur Typesetters Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U30001RJ1988PTC004291/307—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jodhpur Typesetters Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Copymat Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U30004RJ1988PTC004292/309—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jaipur Copymat Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alwar Publishing Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1988PTC004293/311—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Alwar Publishing Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajmer Printers Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22211RJ1988PTC004295/313—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ajmer Printers Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bikaner Reprographics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U30006RJ1988PTC004296/315—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bikaner Reprographics Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Printers Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22111RJ1988PTC004298/317—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Udaipur Printers Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Singh Ceramics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26933RJ1988PTC004304/319—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Singh Ceramics Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivang Finance and Investment (India) Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1988PLC004309/321—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shivang Finance and Investment (India) Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Versatile Products and Printers Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22211RJ1988PTC004342/323—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Versatile Products and Printers Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanjay Fabrics Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1988PLC004443/325—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Sanjay Fabrics Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Kundbharti Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1988PTC004386/327—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hotel Kundbharti Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kothari Silk Mills Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1988PTC004405/329—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kothari Silk Mills Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Selfast Publications Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1988PTC004435/331—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Selfast Publications Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Charu Syntex Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/UI7118RJ1988PTC004438/333—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Charu Syntex Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Kamaldeep Finance & Investment Co.
Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1988PTC004478/335—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shree Kamaldeep Finance and Investment Co. Private
Limited has this day been struck off from the register of
Registrar of Companies and the said Company is dissolved
from the date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Hayat Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1988PTC004479/337—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hotel Hayat Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Processors Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/UI7118RJ1988PTC004481/339—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Jai Processors Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kothari Colour Industry Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24114RJ1985PLC003485/341—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kothari Colour Industry Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poonam Suitings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1988PTC004488/343—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Poonam Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lion Cement Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1988PTC004491/345—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Lion Cement Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Himalya T Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1988PTC004568/347—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Himalya T Limited has this day been struck off from
the register of Registrar of Companies and the said
Company is dissolved from the date of this publication in
Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajdeep Dyeing Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24114RJ1988PTC004598/349—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rajdeep Dyeing Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajputana Builders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1988PTC004510/351—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rajputana Builders Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hamir Hotels Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1988PTC004576/355—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Hamir Hotels Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Advance Techno Services Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1988PTC004612/357—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Advance Techno Services Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gangapur Suitings Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1988PTC004631/359—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gangapur Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. All (India) Marketing Services Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1988PTC004644/361—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. All (India) Marketing Services Private Limited has
this day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Tea Marketing Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51226RJ1988PTC004647/363—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sunrise Tea Marketing Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abu Oil Extractions Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U5142RJ1988PTC004670/365—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Abu Oil Extractions Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indsun Enterprises Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1988PTC004684/367—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Indsun Enterprises Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anjali Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1988PTC004685/369—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anjali Textiles Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Thar Chemicals and Pharmaceutical Private
Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1988PTC004687/371—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Thar Chemicals and Pharmaceutical Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Cerawares Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26921RJ1988PTC004694/373—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Royal Cerawares Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agro Processing (India) Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51211RJ1988PTC004697/375—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Agro Processing (India) Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Diamond Suitings Private Limited
Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1988PTC004700/377—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Diamond Suitings Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gaurav Exports (India) Private Limited
Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1989PTC004759/379—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gaurav Exports (India) Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mumal Mercantiles and Trading Company Private
Limited
Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1989PTC004765/381—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mumal Mercantiles and Trading Company Private
Limited has this day been struck off from the register of
Registrar of Companies and the said Company is dissolved
from the date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navrang Fabrics Private Limited
Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1989PTC004768/383—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Navrang Fabrics Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ram Sons Agencies Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1989PTC004779/385—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ram Sons Agencies Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Gems Overseas Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1989PTC004783/387—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Aditya Gems Overseas Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujar Detective Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ1989PTC004816/389—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gujar Detective Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Liberty Textiles Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1989PTC004824/391—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Liberty Textiles Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saduwala Cements Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1989PTC004847/393—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Saduwala Cements Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandana Hotels Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1989PTC004863/395—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Chandana Hotels Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Machinery and Equipments Private
Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1989PTC004872/397—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Marudhar Machinery and Equipments Private Limited
has this day been struck off from the register of Registrar
of Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Fashions Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74994RJ1989PTC004888/399—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sun Fashions Private Limited has this day been struck
off from the register of Registrar of Companies and the
said Company is dissolved from the date of this publication
in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ganesh Refineries Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1989PTC004892/401—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shree Ganesh Refineries Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khushboo Builders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1989PTC004911/403—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Khushboo Builders Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sandoze Oil and Refinery Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1989PTC004913/405—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sandoze Oil and Refinery Private Limited has this
day been struck off from the register of Registrar of
Companies and the said Company is dissolved from the
date of this publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrinath Builders Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1989PTC004924/407—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shrinath Builders Private Limited has this day been
struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ghar Aangan Hotels Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1989PTC004966/409—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ghar Aangan Hotels Private Limited has this day
been struck off from the register of Registrar of Companies
and the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lok-Jeevan Press Private Limited

Jaipur, the 6th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1989PTC004976/411—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Lok-Jeevan Press Private Limited has this day been

struck off from the register of Registrar of Companies and
the said Company is dissolved from the date of this
publication in Gazette Notification.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anon Interchem Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00080—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Anon Interchem Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Katwa Laboratories Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00075—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Katwa Laboratories Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arcanum Pharmachem Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00069—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Arcanum Pharmachem Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deltamike Corrosion Control Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00064—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Deltamike Corrosion Control Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Bombay Prochem Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00060—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. New Bombay Prochem Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vino Synth Chem Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00054—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vino Synth Chem Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Biddle Intermediates Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00049—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Biddle Intermediates Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Regal Spinning and Weaving Mills Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00354—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Regal Spinning and Weaving Mills Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Techtex (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00356—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Techtex (India) Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shankheshwar Parshwanath Garments Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00359—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shankheshwar Parshwanath Garments Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eco Garments (India) Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00382—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Eco Garments (India) Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manisha Farms Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00330—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Manisha Farms Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaya Green Acres Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00333—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Jaya Green Acres Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glass-Hopper Horticultural Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00339—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Glass-Hopper Horticultural Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maldunge Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00346—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Maldunge Farms Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nashik Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00349—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nashik Farms Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parity Software India Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00324—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Parity Software India Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Murli Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00167.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Murli Synthetics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Afford Textile Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00176.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Afford Textile Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayalene Silk Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00192.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mayalene Silk Mills Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jogani Fab Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Jogani Fab Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kapasi Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three month from the date hereof the name
of M/s. Kapasi Synthetics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manju Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00227.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Manju Synthetics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karishma Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00237.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Karishma Fabrics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sathariya Textiles Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00250.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sathariya Textiles Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parag Nylotex Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00259.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Parag Nylotex Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Somex Syntex Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00858.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Somex Syntex Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akhil Fabrics Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00864.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Akhil Fabrics Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Texturising Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00864.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shiv Texturising Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hinganghat Weaving Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00871.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hinganghat Weaving Mills Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansi Textiles Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00879.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mansi Textiles Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seth Overnight Services Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Seth Overnight Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raviraj Finefab Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00883.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Raviraj Finefab Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gajanand Twisters Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00898.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Gajanand Twisters Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shah Knitwear Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00901.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shah Knitwear Industries Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krystal Yarn Industries and Investment Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00908.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Krystal Yarn Industries and Investment Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarla Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00911.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sarla Synthetics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krystal Sizing and Weaving Industries Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00916.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Krystal Sizing and Weaving Industries Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jogani Silk Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00297.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Jogani Silk Mills Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Disha Bhumi Vikas Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00467.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. New Disha Bhumi Vikas Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sati Fine Fab Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00639.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shree Sati Fine Fab Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jay Texo Chemical Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00647.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Jay Texo Chemical Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radharani Silk Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00699.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Radharani Silk Mills Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vibhuti Texo Plast Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00708.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vibhuti Texo Plast Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ravi Knitting and Weaving Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00814.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ravi Knitting and Weaving Mills Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manrupji Kothari Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00826.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three month. from the date hereof the name
of M/s. Manrupji Kothari Synthetics Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unique Yarn Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00838.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three month. from the date hereof the name
of M/s. Unique Yarn Industries Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahadeo Woven and Saw Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00842.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mahadeo Woven and Saw Mills Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khetia Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00850.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Khetia Fabrics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Infab Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00855.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Golden Infab Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Veekay Twisters Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00233.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Veekay Twisters Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ranakpur Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00309.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ranakpur Synthetics Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kabra Textiles Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00399.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kabra Textiles Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Krishna Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00471.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shree Krishna Synthetics Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adep Textile Creations Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00478.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Adep Textile Creations Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Youth Textile Processors Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00487.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Youth Textile Processors Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Industrial Ducts Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00498.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Industrial Ducts Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prestige Synthetic Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00609.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Prestige Synthetic Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaydeep Textile Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00617.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Jaydeep Textile Mills Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalpita Tex-Chem Industries Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00627.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kalpita Tex-Chem Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sushila Silk Mills Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sushila Silk Mills Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seemas Oil Mills Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00221.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Seemas Oil Mills Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sandhya Oil Mill Private Limited.
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00216.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Sandhya Oil Mill Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nandgeet Oils Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00207.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nandgeet Oils Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. L G Extractions Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00204.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. L G Extractions Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vandg Swastik Oil Company Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s 560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vandg Swastik Oil Company Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Omkar Oil Refineries Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00198.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Omkar Oil Refineries Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prime Oleochem Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00168.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Prime Oleochem Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S R Oils and Spices Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. S R Oils and Spices Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K E Proteins Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00028.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. K E Proteins Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ishaan Oils Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00225.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ishaan Oils Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Angel Pipes and Tubes Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00237.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Angel Pipes and Tubes Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daftari Agro Seeds Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Daftari Agro Seeds Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devaki Agro Oil Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00284.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Devaki Agro Oil Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hansraj Khimraj Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00289.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hansraj Khimraj Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ausa Oil Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00294.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ausa Oil Industries Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhavani Extractions Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00299.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Bhavani Extractions Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganesh Lube Oil Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00305.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ganesh Lube Oil Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Renuka Edible Oil Refiners Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00302.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Renuka Edible Oil Refiners Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhanushali Commodity Brokers Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00311.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of M/
s. Bhanushali Commodity Brokers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chokhani Refiners Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00314.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Chokhani Refiners Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. O. Food and Allied Products Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00225.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. A. O. Food and Allied Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Padmanabh Agro Products Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00391.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shri Padmanabh Agro Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kabama Food Industries Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00378.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Kabama Food Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prosario Transport Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00385.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Prosario Transport Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kraft Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00371.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kraft Foods Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nampu Vyapar Kendra Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00358.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nampu Vyapar Kendra Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maheshwari Foods Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00351.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Maheshwari Foods Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Grub Food Production and Services Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007.

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00347.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Grub Food Production and Services Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kosambia Food Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00341.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kosambia Food Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Aquaculture Resource Developments Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00338.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

46—16 GU/2008

of M/s. Aquaculture Resource Developments Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sadguru Masala and Spices Industries
Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00333.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shree Sadguru Masala and Spices Industries Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saijyoti Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00326.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Saijyoti Foods Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bliss Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00321.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bliss Foods Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fairquote Commodities Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00317.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of M/
s. Fairquote Commodities Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kits Agro Food Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00311.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kits Agro Food Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelvert Foods (India) Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00304.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kelvert Foods (India) Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arvi Oils Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00299.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Arvi Oils Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kulu Valley Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00294.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kulu Valley Foods Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Subita Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Subita Foods Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasant Oil Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vasant Oil Industries Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Modern Exports Products (India) Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00124.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Modern Exports Products (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Limpid Trading and Investment Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00280.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Limpid Trading and Investment Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasumati Agro Farms Private Limited
Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00028.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vasumati Agro Farms Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Agro-Industrial Consultants and Exporters
Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00031.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Laxmi Agro-Industrial Consultants and Exporters

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Morarji Agricultural Products Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00034.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Morarji Agricultural Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kinh Agrotech Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00037.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kinh Agrotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prime Movers Fertilisers and Chemicals Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00040.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Prime Movers Fertilisers and Chemicals Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. King Valley Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00043.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. King Valley Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Pastures Consultancy Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00370.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Green-Pastures Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Berar Horticulture Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00247.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Berar Horticulture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hurricane Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00197.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Hurricane Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GSS Advisory Services Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00148.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. GSS Advisory Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rameshwar Krishi Veekas Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00019.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rameshwar Krishi Veekas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekta Goat Farming Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00022.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ekta Goat Farming Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seva Environmental Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Seva Environmental Farms Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Takrani Agrotech Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00009.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Takrani Agrotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. BIM Agro-Processors Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00013.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three month from the date hereof the name
of M/s. BIM Agro-Processors Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Namira Agro Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00019.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Namira Agro Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chanhill Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Chanhill Farm Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ganesh Fertilizer Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00031.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shree Ganesh Fertilizer Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Narbada Multiservices Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00037.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Narbada Multiservices Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vidarbha Poultry Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00046.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vidarbha Poultry Farm Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bagwe Agrotech Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00057.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bagwe Agrotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Herbert Agro Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00069.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Herbert Agro Farms Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aayojan Agriculture Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00079.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Aayojan Agriculture Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagannath Ganeshram Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00102.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Jagannath Ganeshram Foods Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balmo Agro Chemical Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00116.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Balmo Agro Chemical Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lokmangal Plantations Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00148.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Lokmangal Plantations Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pan-Laxmi Super Market Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00159.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pan-Laxmi Super Market Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deogiri Poultry Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00165.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Deogiri Poultry Farms Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Hot Sip Tea Company Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00168.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Surya Hot Sip Tea Company Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hiteshi Agro Development Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00172.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Hiteshi Agro Development Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dakshin Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00045.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Dakshin Agro Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Evergreen Woodstock Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00066.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Evergreen Woodstock Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Serolene Silk Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00073.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Serolene Silk Mills Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhandhania Agro and Horticulture Development
Company Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00076.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Dhandhania Agro and Horticulture Development
Company Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the Register and the said
Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suraloka Farms and Resorts Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00086.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Suraloka Farms and Resorts Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nilkumbh Agro Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00099.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nilkumbh Agro Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dango Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Dango Farms Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragati Tea Company Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00118.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pragati Tea Company Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khiavel Green Fields Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00034.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Khiavel Green Fields Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Foliage Agritrade and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Foliage Agritrade and Investment Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grove Agro Hill Estate and Plantations Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00020.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Grove Agro Hill Estate and Plantations Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Generous Farms and Allied Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00011.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Generous Farms and Allied Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tarun Metals Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00115.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Tarun Metals Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dalvi Premises Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00503.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Dalvi Premises Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Viva Design Studio Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00177.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Viva Design Studio Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sayonara Garments Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00717.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sayonara Garments Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Italian Fashions Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00550.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Italian Fashions Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baba Silk Mills Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00652.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Baba Silk Mills Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swadeshi Dairy and Agro Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00894.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Swadeshi Dairy and Agro Farm Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tasa Agrobases Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00786.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Tasa Agrobases Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soni Organic Health Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00473.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Soni Organic Health Foods Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivaji Yeshwant Hande and Company Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00375.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shivaji Yeshwant Hande and Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mojilal Food Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00179.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mojilal Food Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Capco Indenting Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00491.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Capco Indenting Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devkiran Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00524.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Devkiran Marketing Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gayatri Hatcheries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00274.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Gayatri Hatcheries Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R R Aggarwal Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00688.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. R R Aggarwal Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seemly Traders and Services Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00301.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Seemly Traders and Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamath Printing Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00069.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kamath Printing Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cliff Apparels Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00605.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Cliff Apparels Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kuka Fisheries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00872.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kuka Fisheries Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyanka Attires Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00582.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Priyanka Attires Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. International Cotton Corporation Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00809.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. International Cotton Corporation Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayank Garments Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00565.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mayank Garments Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bagshree Holding Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00903.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Bagshree Holding Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pasuki Agro India Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pasuki Agro India Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Overseas Commercial Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00189.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Overseas Commercial Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crystal Farm Products Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00109.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Crystal Farm Products Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shay Food and Fisheries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shay Food and Fisheries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eupolink Aquaculture Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00313.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Eupolink Aquaculture Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dupont Fisheries Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00241.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Dupont Fisheries Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kiwis Exim Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00356.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Kiwis Exim Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bodycare Products (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00168.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bodycare Products (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunglow Agro Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00368.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sunglow Agro Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

CHINNACHAMY N
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aeromatic Investrade Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00258.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Aeromatic Investrade Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crustacean Marine Products Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00556.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Crustacean Marine Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sudama Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00691.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sudama Foods Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vainganga Leasing and Plantation Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00536.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vainganga Leasing and Plantation Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Key Impex (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00698.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Key Impex (India) Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Genius Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00577.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Genius Marketing Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rachana Contractors and Builders Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00106.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Rachana Contractors and Builders Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agostino Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00093.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Agostino Investment Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Salgaonkar Project Management Services Private
Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00120.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Salgaonkar Project Management Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off from the Register and the said Company will be
dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Magnum Saurabh Infin Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00123.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Magnum Saurabh Infin Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shama Herbal Cosmetic Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00136.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shama Herbal Cosmetic Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AVEC Engineering Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00681.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. AVEC Engineering Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasant Arts Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00212.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vasant Arts Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Summit Services and Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00687.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Summit Services and Marketing Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yash Castings Private Limited

Mumbai-400002, the 26th November 2007

No. u/s.560(3)/MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00177.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Yash Castings Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Netcom Electronics India Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 3027/8754.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Netcom Electronics India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Model Casting Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2509/8766.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Model Casting Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vceyes Food and Beverages Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 3031/8757.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vceyes Food and Beverages Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vandana Ferrous Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2485/8769.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vandana Ferrous Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sutantu Telecom Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 3033/8750.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sutantu Telecom Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hexium Technologies Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2781/8772.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hexium Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phampos Communication Services Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2778/8753.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Phampos Communication Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goa Cashew Specialities (India) Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2798/8775.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goa Cashew Specialities (India) Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satej Engineering Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2967/8778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satej Engineering Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunky Plastic Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2802/8790.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunky Plastic Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hallmark Resorts Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2803/8781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hallmark Resorts Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Allied Millennium Securepack Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2810/8793.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Allied Millennium Securepack Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rostaj Distilleries Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2585/8784.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rostaj Distilleries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Clafaz Trading and Exports Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2835/8796.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Clafaz Trading and Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. United Public Relations and Allied Services
Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2843/8787.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. United Public Relations and Allied Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kocos Intrax Systems Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2825/8799.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kocos Intrax Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pleasure Holiday Resorts Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2815/8802.—Notice is hereby given pursuant to
Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,
1956 that the name of M/s. Pleasure Holiday Resorts Private
Limited has this day been struck off from the Register and
the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chazon Infotech Private Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2841/8805.—Notice is hereby given pursuant to
Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,
1956 that the name of M/s. Chazon Infotech Private Limited

has this day been struck off from the Register and the said
Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sudarshan Resorts and Club Company Private
Limited

Panaji-403001, the 25th March 2008

No. 2805/8808.—Notice is hereby given pursuant to
Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,
1956 that the name of M/s. Sudarshan Resorts and Club
Company Private Limited has this day been struck off
from the Register and the said Company is dissolved

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Hyderabad-500195, the 1st March 2008

No. RAP/560(3)/Suo Motu/D.Swarna-112/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved:—

Serial No.	Company No.	Company Name
1	017008	BABA TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2	017011	VIGNESWARA AGRO PRODUCTS PVT LTD
3	017016	GOLDBEAM SEA FOODS PVT LTD
4	017048	ULTRA AUTO PRODUCTS PVT LTD
5	017051	RANGINENI COMPUTERS PVT LTD
6	017052	POLAM AGRO EXPORTS PVT LTD
7	017076	STERLING EXIM PVT LTD
8	017077	SAMARITAN ENGINEERING COMPANY PVT LTD
9	017078	CAT AIRCONDITIONING LTD
10	017082	CANDID DIGITAL EQUIPMENTS PVT LTD
11	017090	FLAGSHIP AQUA PVT LTD
12	017103	REVOOR AGRO TECH INTERNATIONAL LTD
13	017110	MC WELL ENGINEERS PVT LTD
14	017111	ACE RESOURCE CONSERVATION SERVICES PVT LTD
15	017115	VICTORY PUBLICATIONS PVT LTD
16	017118	BLUE LAGOON AQUA FARMS LTD
17	017119	YOKOHAMA TEXTILE MILLS LTD
18	017126	DOLPHIN BIO-PRODUCTS PVT LTD
19	017133	SATYA AQUABASE PVT LTD
20	017149	KANDAVILLI CONSTRUCTIONS PVT LTD
21	017153	NEEDS EXPORTS LTD
22	017157	KAMPCO AQUATICS PVT LTD
23	017168	MADDI PHARMACEUTICALS LTD
24	017171	ANANTHA MAADHAVA AQUAMARINE AND EXPORTS PVT LTD
25	017174	MERCURY INDUSTRIAL AND INVESTMENTS CONSULTANTS PVT LTD
26	017175	PROGRESS MERCANTILE SERVICES PVT LTD
27	017183	VIJAY SHRIMPEX LTD
28	017186	MIDEAST AQUA-TECH PVT LTD
29	017195	DEALWELL PACKING COMPANY PVT LTD
30	017205	LALITH PAKKING PVT LTD
31	017206	HEMAKRISHNA TEXTILES PVT LTD
32	017213	CITY METAL WORKS PVT LTD
33	017225	A K METALS AND CONSTRUCTIONS PVT LTD
34	017226	BIO-PRAKASH LABS PVT LTD
35	017235	STANDARD FABRICS LTD
36	017237	MIDAS BUILDERS PVT LTD
37	017238	AQUA MERLIN LTD
38	017244	ABHILASH ORION CONSTRUCTIONS PVT LTD
39	017249	JAYANTHI FOODS LTD

40	017256	ESWAR HYDRAULICS PVT LTD
41	017273	VIJAYA TELECOM NETWORK PVT LTD
42	017277	LYNX ENGINEERING COMPANY PVT LTD
43	017281	SANTOSH PUBLICATIONS PVT LTD
44	017284	A.P. YELLOW PAGES PUBLICATIONS PVT LTD
45	017289	NT SOFTWARE CONSULTANCY PVT LTD
46	017299	B.S.R. AQUA FARMS PVT LTD
47	017309	KRANTI KIRAN POULTRY COMPLEX PVT LTD
48	017311	LOKESH MARKETING PVT LTD
49	017318	PAPADIA STEELS PVT LTD
50	017321	RAGHU SOFTWARE RESEARCH PVT LTD
51	017329	VIPPALA AQUA FOODS PVT LTD
52	017333	DATTA SAI ENGINEERING PVT LTD
53	017346	POLARIS AQUA LTD
54	017351	COPRAL INSULATED CONDUCTORS PVT LTD
55	017382	M.P. CAPITALS PVT LTD BROADWAY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY PVT LTD
56	017385	
57	017390	VIMAL POLYMERS PVT LTD
58	017392	SPG EXIM AGENCIES PVT LTD
59	017428	K.L.K. HOTELS AND RESORTS PVT LTD
60	017435	PEGASASU AVIATION AND SHIPPING PVT LTD
61	017441	SYMALA TRANSPORT PVT LTD
62	017442	AMULYA TRANSPORT PVT LTD
63	017450	AMALA AQUA FOODS LTD
64	017451	MADHU AQUA CULTURE ESTATES PVT LTD
65	017464	P.G.M. FOODS AND FEEDS PVT LTD
66	017466	WAKSMAN LABORATORIES (INDIA) LTD
67	017467	RISTAN PHARMA (INDIA) LTD
68	017483	B.L. CHEMICAL INDUSTRIES LTD
69	017513	SHAMS PAINTS PVT LTD
70	017516	FALCON TRADE AND TECHNOLOGY CENTRE PVT LTD
71	017550	M.R.K.C. IMPORTS AND EXPORTS PVT LTD
72	017556	VAMSEE AGRO CHEMICALS AND AUTOMOTIVES PVT LTD
73	017575	PRIME MEDIA SERVICES LTD
74	017584	CHERUKURI MINERALS AND CHEMICALS PVT LTD
75	017624	JASHIKA AGRO-TEK PVT LTD
76	017629	DADIGE ESTATES PVT LTD
77	017637	MICRO MEGA SYSTEMS PVT LTD
78	017647	ASHTEKAR APPAREL EXPORTS PVT LTD
79	017668	GOLD PETRO-CHEM (INDIA) PVT LTD
80	017678	BRAKISH AQUATECH PVT LTD
81	017691	PANCHESHWAR ELECTRICAL APPLIANCES PVT LTD
82	017705	AURA ELECTRICALS PVT LTD
83	017708	RIZO ALIUM PVT LTD
84	017709	CONTINENTAL BLUE WATER FOODS LTD
85	017710	VISWA SHIPPING AGENTS PVT LTD
86	017711	RADHAKISHNA POULTRY PVT LTD
87	017720	SAINAARA ESTATES PVT LTD
88	017726	SIMHAPURI CONSTRUCTIONS PVT LTD
89	017727	ARIES FASTNERS PVT LTD
90	017728	RAVI KIRAN CONSULTANCY PVT LTD
91	017742	SATYAM AQUATECH PVT LTD

92	017749	AKAYS LASERCARE PVT LTD,
93	017750	MATA AGRO PRODUCTS PVT LTD,
94	017757	SRIJAY MARKETING PVT LTD,
95	017759	SOLEMN IMPORT AND EXPORTS PVT LTD,
96	017769	LAXMI POLYFOAM PVT LTD,
97	017776	NUCTEUS MICRO SYSTEMS PVT LTD,
98	017862	SREE KALESWARI PARCEL SERVICE PVT LTD,
99	017900	VINSTAR ENGINEERING PVT LTD,
100	017902	RAVITEJA DAIRY PRODUCTS PVT LTD,
101	017904	AFIA BUILDERS PVT LTD,
102	017914	H S IMPORTS AND EXPORTS PVT LTD,
103	017917	MEGA SOLAR SYSTEMS PVT LTD,
104	017921	SIKHARA ESTATES PVT LTD,
105	017931	PANCHAVATI RESORTS PVT LTD,
106	017940	NOVA NAPKINS PVT LTD,
107	017977	BALAJI EXPLOSIVES PVT LTD,
108	017981	AKHIL ENGINEERS AND DEVELOPERS PVT LTD,
109	017983	SRI SAI BOTTLE TRADERS PVT LTD,
110	017987	GOLDEN STREAK OVERSEAS EXPORTS PVT LTD,
111	017997	BHAGYANAGAR SHEEP FARMS LTD,
112	017999	PAVAN AGRO-FORTUNES LTD,

K. LAKSHMI PRASAD
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Hyderabad-500195, the 1st March 2008

No. RAP/560(3)/Suo Motu/TV-421-JTA/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved:--

Sl. No	Company Name	Company
1	RUSSEL SHELTERS PRIVATE LIMITED	024015
2	ANUSHA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	024017
3	DHARANI DAIRY AND AGRO TECH PRIVATE LIMITED	024060
4	NITHYA AGROS PRIVATE LIMITED	024075
5	VISWAS AGRO-TECH PRIVATE LIMITED	024079
6	RAGHAVENDRA FEEDS PRIVATE LIMITED	024101
7	AL BURHAN SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED	024114
8	V.S. CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	024125
9	BHARGAVI METALS PRIVATE LIMITED	024130
10	IMAGE ENVIRONMENTAL LABS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	024143
11	SAFAL AGROTECH LIMITED	024171
12	MOKKAPATI REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	024180
13	TIRUMALA TOURIST CABS PRIVATE LIMITED	024184
14	SRI SAI VISHNU CONSTRUCTIONS LIMITED	024187
15	ORUGALLU AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024196
16	NEXT AGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	024199
17	NEXT AGE NETWORKS PRIVATE LIMITED	024202
18	TIRUMALA GRUHAVIKAS PRIVATE LIMITED	024203
19	HIGH-WIN SURFACE COATINGS PRIVATE LIMITED	024204
20	SANA PLASTICS PRIVATE LIMITED	024205
21	STANDALONE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	024208
22	RAJ WORLD ONLINE PRIVATE LIMITED	024227
23	CHARMINAR GASKETS LIMITED	024235
24	METAPLAST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	024243
25	NAVAYUGA AGROTECH PRIVATE LIMITED	024264
26	UNIVERSAL SOLDER SYSTEMS PRIVATE LIMITED	024265
27	SRI PANCHESHWARA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	024274
28	REINBERG WIRES LIMITED	024278
29	K.V.R.GREEN WEALTH (INDIA) LIMITED	024293
30	SULTAN VENTURES PRIVATE LIMITED	024295
31	NAVYA ESTATES PRIVATE LIMITED	024296
32	VASTU RAKSHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	024297
33	MARINENI FARMS LIMITED	024304
34	KARUNA AGENCIES PRIVATE LIMITED	024309
35	SRI RUDRANI CONSTRUCTIONS AND AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024318
36	FIDEL HOLDINGS AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	024322
37	SRI CHAITANYA AGRO AND SHEEP FARMS PRIVATE LIMITED	024323

38	SCIO TEMPTRONIX PRIVATE LIMITED	024355
39	ARCTIC ESTATES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	024356
40	KEERTHANA BUILDERS PRIVATE LIMITED	024357
41	SHEPHERD FARMS PRIVATE LIMITED	024365
42	GOMATHA DAIRY PRIVATE LIMITED	024367
43	RAMESH TRANSPORT PRIVATE LIMITED	024372
44	DIVVELA TRAVELS AND TRANSPORT PRIVATE LIMITED	024379
45	INTEGRATED FABS PRIVATE LIMITED	024391
46	V. V. ESTATES PRIVATE LIMITED	024406
47	VISIONARY PROJECT ENGINEERS PRIVATE LIMITED	024422
48	RODASI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	024467
49	KRANTHI WORLD TELUGU RESORTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	024472
50	PRASHANTHI CONSTRUCTIONS LIMITED	024482
51	SHIFAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	024487
52	MASTERJEE EXCAVATORS LIMITED	024488
53	ASTER AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024493
54	ADVAITHA CHEMICAL PRIVATE LIMITED	024495
55	SREELEKHA AGRO FARMS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	024510
56	SHELTER FARMS PRIVATE LIMITED	024512
57	SIRISHA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024519
58	SOWBHAGYA LAKSHMI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024522
59	SULAB AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024523
60	GROWEL GOATS AND AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024530
61	MANCHI EXPORTS PRIVATE LIMITED	024604
62	GREENLANDS MULTI PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	024639
63	S.L.D.FLEET SERVICES PRIVATE LIMITED	024675
64	RAMYA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	024679
65	AJITHA LABORATORIES PRIVATE LIMITED	024680
66	BRACKSHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED	024683
67	SRI DEEVAN RESORTS AND HOTELS LIMITED	024699
68	SESHASAI PACKAGES PRIVATE LIMITED	024709
69	CHILPI KRISH GARMENTS PRIVATE LIMITED	024710
70	RICHWELD AGGLOMERATE LIMITED	024712
71	UDAYAM PUBLISHERS LIMITED	024725
72	UDAYAM CAPITAL RESOURCES LIMITED	024730
73	SUN AND SEA VISAKHA RESORTS PRIVATE LIMITED	024736
74	BRITE CHEM PHARMA PRIVATE LIMITED	024742
75	BILALPUR AGRO-ANIMAL HUSBANDRY PRIVATE LIMITED	024744
76	APG PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	024746
77	WHITE LINE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	024752
78	SUPER STAR ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	024755
79	ANEJA ADVERTISING LIMITED	024761
80	CHARITHA NIRMAN LIMITED	024768
81	BEST GROUP AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	024788
82	KNR POWER CONVERSION PRIVATE LIMITED	024792
83	NIKHILA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	024802
84	RICHE 'N' RICHE GREENFIELDS PRIVATE LIMITED	024808
85	ARUNODAYA HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED	024831
86	SAI JEEVAN ESTATES PRIVATE LIMITED	024836
87	SOFTCOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED	024841
88	GOPI MACHINES PRIVATE LIMITED	024849
89	SHESHADRI TOURISTS RESORTS LIMITED	024859
90	VAISHNAVI TUBES PRIVATE LIMITED	024869

91	AKKINENI EXPORTS LIMITED	024873
92	SRI CHAKRA HOUSING PRIVATE LIMITED	024880
93	SIRI FINCON SERVICES PRIVATE LIMITED	024909
94	SNEHAMITHRA AGRO FARMS LIMITED	024910
95	PRAGATHI LPG PRIVATE LIMITED	024914
96	HIMALAYA GARDENS PRIVATE LIMITED	024915
97	RUMO LEATHERS LIMITED	024918
98	SHREESHAA INFOTECH LIMITED	024927
99	SHIVA SHIVANI ESTATES (INDIA) PRIVATE LIMITED	024947
100	S.V. REALTY PRIVATE LIMITED	024948
101	SUPHALA ORCHARDS PRIVATE LIMITED	024955
102	N.S.R. IMPEX PRIVATE LIMITED	024963
103	MITRA HI-TECH CHEMICALS PRIVATE LIMITED	024971
104	ANEJA FILMS LIMITED	024976
105	HOMEMATE APPLIANCES (INDIA) LIMITED	024991
106	SAS TOWNSHIP PROMOTERS PRIVATE LIMITED	024994
107	VIJAYAVASAVA AUTO AND GENERAL AGENCIES PRIVATE LIMITED	025017
108	VEGA NEWS AND VISIONS PRIVATE LIMITED	025022
109	RUMIK INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	025032
110	SRI SATYA SAI FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED	025053
111	SMART PERIPHERALS PRIVATE LIMITED	025060
112	PUSHPAK ORCHARDS PRIVATE LIMITED	025076
113	POWER SPOT BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED	025077
114	REAL INDIA FORESTS LIMITED	025079
115	CASTLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	025087
116	VASISTHA EXPORTS PRIVATE LIMITED	025089
117	SRI RANGA ACETYLENE PRIVATE LIMITED	025094
118	CCSI NET WORK PRIVATE LIMITED	025111
119	VARSHITHA EXTRUDERS PRIVATE LIMITED	025112
120	PRABHU RESORTS PRIVATE LIMITED	025115
121	WHITE FIELD FARMS PRIVATE LIMITED	025116
122	HUSSAIN ESTATES LIMITED	025117
123	SREE CHAKRA JUCO TAPES PRIVATE LIMITED	025118
124	VIDYA NET SERVICES PRIVATE LIMITED	025123
125	MATRIX SECURITIES PRIVATE LIMITED	025124
126	CITY LIGHT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	025128
127	CITY LIGHT AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	025129
128	ONYX MINERALS PRIVATE LIMITED	025130
129	EMINENT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	025132
130	SRINAYANI INFOTECH PRIVATE LIMITED	025140
131	SRI SATYA SAI BABA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	025143
132	S.J.S.M. AGRO FARMS LIMITED	025147
133	PANCHAJANYA ESTATES INDIA LIMITED	025152
134	BELLSUN PETRO CHEM PRIVATE LIMITED	025160
135	ANUSHA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	025166
136	APEX ESTATES (INDIA) LIMITED	025167
137	JASCO IRRIGATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	025172
138	SPECTRA ORGANICS PRIVATE LIMITED	025175
139	DURGA MULTIWIRED PRODUCTS LIMITED	025177
140	GUILLEMOT OVERSEAS PRIVATE LIMITED	025181
141	KIRITI CHEMICALS PRIVATE LIMITED	025184
142	BHAGYASRI CEMENTS LIMITED	025192

143	SREE SRINIVASA ENVIRONMENTAL CONSULTING ENGINEERS PRIVATE LIMITED	025200
144	WINSOFT IMAGING PRIVATE LIMITED	025210
145	SWARNAMUKHI ESTATES (INDIA) PRIVATE LIMITED	025220
146	SHAHEN COMPUTERS PRIVATE LIMITED	025237
147	KRISHNA SHANTI HOLIDAY RESORTS INDIA LIMITED	025244
148	SWETHA EDIFICES PRIVATE LIMITED	025246
149	PARAGON CEMENTS LIMITED	025255
150	RED SEA INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	025263
151	PEACOCK GEMS LIMITED	025271
152	GOPI KRISHNA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	025303
153	SRI SATYA DEVA CEMENTS PRIVATE LIMITED	025307
154	BHAVANI FARMS AND FEEDS PRIVATE LIMITED	025310
155	SOUJANYA ECO FABRICS PRIVATE LIMITED	025320
156	JANUS FARMS PRIVATE LIMITED	025321
157	LOYA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	025329
158	SOUJANYA FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	025337
159	TRANS WAVE CHARTERS PRIVATE LIMITED	025338
160	SANGRAM AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	025339
161	VIMSUN ELECTRONICS LIMITED	025343
162	SRI ANJANEYA STEELS LIMITED	025345
163	PRAJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	025348
164	CREDENCE AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	025352
165	SRI SAINIDHI HOMES PRIVATE LIMITED	025366
166	AVIAN BREEDING FARMS PRIVATE LIMITED	025369
167	AALAYAM FOODS PRIVATE LIMITED	025376
168	R.K.E. MERCHANDISE LIMITED	025385
169	PRIYANKA AGRI-TECH PRIVATE LIMITED	025391
170	JANATHA HEALTH CARE SERVICES PRIVATE LIMITED	025394
171	TWENTYFIRST CENTURY FARM AND RECREATION PRIVATE LIMITED	025395
172	SHERAWALI PLASTICS PRIVATE LIMITED	025397
173	ZETA TIMESHARE SYNDICATE INDIA PRIVATE LIMITED	025402
174	SANTHISREE REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	025404
175	G.V.R. AND S. AGRO TECH AND ESTATES PRIVATE LIMITED	025423
176	EXALT AUDIO AND VIDEO LIMITED	025426
177	AMBIENCE MARKETING PRIVATE LIMITED	025430
178	SHRI DHUNI FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED	025434
179	DIVYAKSHETRA RESORTS AND HOTELS LIMITED	025437
180	SURYA BHARGAVA CATTLE FARMS PRIVATE LIMITED	025446
181	VICKY AND BROS TRANSPORT PRIVATE LIMITED	025451
182	SKY AND SEA EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED	025459
183	SHAKTI FARM CHEMICALS PRIVATE LIMITED	025464
184	GOLDLINE AGRO PRIVATE LIMITED	025465
185	EXCLUSIVE ALLOYS AND TUBES PRIVATE LIMITED	025468
186	SOWDHA EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED	025476
187	KRISHNAVENI LAMINATES PRIVATE LIMITED	025482
188	KAIVALYAM TEXTILES AND ENGINEERING LIMITED	025494
189	DHANADARSHINI MARKETING PRIVATE LIMITED	025498
190	SUDHA PLOYMERS LIMITED	025499
191	BAGS INDMET PRIVATE LIMITED	025526
192	VARIETY FOODS PRIVATE LIMITED	025528

193	SRI NAVODAYA PARCEL SERVICES PRIVATE LIMITED	025537
194	TULSI CONTRACTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	025546
195	RED-VALLY AGRI-TECH PRIVATE LIMITED	025558
196	KUMARS BUILDCON PRIVATE LIMITED	025560
197	SRI VENGI FARMS AND BREEDERS PRIVATE LIMITED	025566
198	DELUKS HOME NEEDS PRIVATE LIMITED	025616
199	SAI DARSHINI ESTATES PRIVATE LIMITED	025618
200	DELUKS REALATORS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED	025623
201	SUNRISE HARDWARE AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED	025624
202	PRABHAVA MARKETERS PRIVATE LIMITED	025625
203	SHAH AND SHABAN COACH BUILDERS PRIVATE LIMITED	025629
204	VASAVI TRANSPORT PRIVATE LIMITED	025634
205	VIVE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	025636
206	ADARSH SHERATON PRIVATE LIMITED	025637
207	J R R ESTATES PRIVATE LIMITED	025638
208	WISE MEN CHEMICALS PRIVATE LIMITED	025640
209	INDO PENNSYLVANIA HEALTH SERVICES LIMITED	025648
210	GEM DETERGENTS AND SOAPS PRIVATE LIMITED	025649
211	SNEHA COMPUTER PRIVATE LIMITED	025656
212	INDO-TEK ABRASIVES PRIVATE LIMITED	025664
213	PRIZE EXPOSITIONS LIMITED	025673
214	PREMSAI SEA FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED	025678
215	BRUNDA RESORTS PRIVATE LIMITED	025682
216	DIVYA SAI OILS PRIVATE LIMITED	025691
217	JONNALAGADDA HANDLOOM HOUSE PRIVATE LIMITED	025707
218	PLASTIKOS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED	025713
219	PADMAVATHY STEEVES PRIVATE LIMITED	025716
220	SAHANA PROJECTS AND LEASING LIMITED	025718
221	SRI NAGA SAI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	025730
222	CONTINENTAL FOREST INDIA LIMITED	025776
223	SUMITRA ESTATES PRIVATE LIMITED	025778
224	HILL TOP TRANSPORT PRIVATE LIMITED	025779
225	EPURI TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED	025781
226	RAMA CHANDRA STRAW PRODUCTS LIMITED	025790
227	HEMANJALI AGRI FOODS LIMITED	025791
228	DOCTORS SYNDICATE HEALTH AIDS PRIVATE LIMITED	025795
229	OVERTOP BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	025804
230	HYDERABAD OPTO-ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	025814
231	USHA KANTI RESORTS PRIVATE LIMITED	025816
232	SRIGAM EXIMS PRIVATE LIMITED	025822
233	AUSSIE BRICKS AND CEMENTS LIMITED	025824
234	KAVYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	025826
235	GANGA GARDENS INDIA LIMITED	025832
236	DEEPIKA CREATIONS PRIVATE LIMITED	025833
237	FLY DAAK COURIER PRIVATE LIMITED	025834
238	SAI SAHARA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	025842
239	HYSEC CARDIO VAS PRIVATE LIMITED	025847
240	VINSARI FINTECH LIMITED	025854
241	ABODE INDIA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	025867
242	NASR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	025869
243	SRI KADAMBARI AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	025870
244	GOLDEN WOOD FORESTRY PRIVATE LIMITED	025901
245	COMFONICS SYSTEM PRIVATE LIMITED	025909

246	ALAKAPURI BUILDERS LIMITED	025913
247	SUPER STAMPINGS PRIVATE LIMITED	025922
248	ESTATE EXCHANGE PRIVATE LIMITED	025929
249	KAMADHENU CHEESE SPECIALITIES LIMITED	025932
250	PANCHAJANYA AGRO INDIA LIMITED	025939
251	CRE-AD COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	025945
252	SHRI PENNY PROPERTIES DEVELOPERS LIMITED	025948
253	SAI ENTERPRISES (TRANSMISSIONS) PRIVATE LIMITED	025951
254	INTECH COMMUNICATIONS SYSTEMS PRIVATE LIMITED	025966
255	HYDERABAD HAPPY HOMES AND ORCHARDS PRIVATE LIMITED	025975
256	HANSA COMPUTERS PRIVATE LIMITED	025979
257	MITHUNA MARKETING PRIVATE LIMITED	025982
258	L.D. TERRY TEX PRIVATE LIMITED	025984
259	REICH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	025991
260	BHANDHAVI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	025992
261	GLEAM AGROS AND FARMS PRIVATE LIMITED	026000
262	MANI SHAILA RE-ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED	026009
263	MICRO TECH COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	026010
264	FARMA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	026013
265	SAINSON AND SPANSON ENGINEERING INFRASTRUCTURAL COMPANY PRIVATE	026021
266	PENUEL AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	026023
267	DOVETON CHEMICALS PRIVATE LIMITED	026026
268	PISCAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	026033
269	GREENSCOOT EXPRESS SERVICE PRIVATE LIMITED	026047
270	ALPA MEDITRADE LIMITED	026051
271	INTEGRATED CHAINS AND SPROCKETS LIMITED	026057
272	NIRAJ PRECAST BUILDERS PRIVATE LIMITED	026064
273	DHARANIDHARA ENGINEERS PRIVATE LIMITED	026076
274	AL-MIRZA MARKETING SERVICE PRIVATE LIMITED	026081
275	SAI SHREERAM HI-TECH GREENERIES LIMITED	026084
276	BATHINA AND MANDAVA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	026092
277	BHIMANAPATI ESTATES PRIVATE LIMITED	026093
278	SUN-SCAN HOUSING PRIVATE LIMITED	026096
279	SRI SAI KRUPA HOMES PRIVATE LIMITED	026101
280	NAVYA COMPUTERS PRIVATE LIMITED	026103
281	K.S.R. EXIM PRIVATE LIMITED	026113
282	MADHULIKA ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	026122
283	ARIHANT LAMINATIONS PRIVATE LIMITED	026126
284	P.R.C. CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	026130
285	SREE ANNAPURANI TANNERIES PRIVATE LIMITED	026136
286	VIPANI SAVINGS AND AGRO COMMERCIAL SERVICES LIMITED	026142
287	MONARCH ORCHARDS LIMITED	026157
288	SRI SIDDHI MARUTHI DRUGS PRIVATE LIMITED	026170
289	UNI ROYAL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	026174
290	SYNDICATE EXIM (INDIA) LIMITED	026179
291	SYNERGY DRUGS PRIVATE LIMITED	026192
292	WINDSOR-MIN EXPORTS PRIVATE LIMITED	026193
293	VANYA HARINI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	026219
294	AMIS INFORMATICS LIMITED	026224
295	TRANVISION COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	026228
296	GREEN FUTURE FARMS AND FORESTS PRIVATE LIMITED	026238
297	PRERNA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	026239

298	SUCHEM CHLORO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	026241
299	SAI COMPTRA PRIVATE LIMITED	026250
300	MEGA RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED	026251
301	MAXCOOL REFRIGERATION PRIVATE LIMITED	026268
302	SRI VAISHNO PRINT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	026273
303	CYBER ACADEMY PRIVATE LIMITED	026274
304	SRI VENKATASAI AGRI AND DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED	026275
305	MENoor FARMS PRIVATE LIMITED	026279
306	NUTRAMAX LABORATORIES PRIVATE LIMITED	026280
307	ALERT DOMESTIC SERVICES PRIVATE LIMITED	026284
308	TRACC COURIERS AND CARGO PRIVATE LIMITED	026288
309	NASWA VENTURES PRIVATE LIMITED	026290
310	AQUA SPINNING (HYD) LIMITED	026294
311	VIGNESHWARA AGRO-TECH SEEDS PRIVATE LIMITED	026295
312	BHAGYASRI CHEMICALS PRIVATE LIMITED	026300
313	BHAGYASRI INDUSTRIES LIMITED	026301
314	SNEHAMITRA FINTECH LIMITED	026304
315	PRAGATHI SHELTERS PRIVATE LIMITED	026311
316	BHAGYASRI IRON AND ALLOYS PRIVATE LIMITED	026313
317	BHAGYASRI CINE FILMS PRIVATE LIMITED	026314
318	DHOLU AND GHORANI CONSTRUCTIONS AND FARMS PRIVATE LIMITED	026315
319	KARIMNGAR MARUTHI MOTOR CREDITS PRIVATE LIMITED	026318
320	VAIBHAV MINERALS PRIVATE LIMITED	026319
321	ESESAAR CHEM LINES PRIVATE LIMITED	026950
322	DAVIDSON THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED	026959
323	KAVERIPATNNAM CARS LIMITED	026964
324	SPAN ADOBE BLOCKS PRIVATE LIMITED	026978
325	S.R.A. IMPEX LIMITED	026982
326	JANAHITHA ENTERPRENUERS LIMITED	026992
327	SURYA VAMSI FILMS PRIVATE LIMITED	026995
328	VISWA VIKAS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	026996
329	GLOBAL EXPRESS TRANSMITTERS PRIVATE LIMITED	026998
330	CHUKKAPALLI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	027005
331	MAGNET BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED	027016
332	VINNAKOTA SPICES PRIVATE LIMITED	027020
333	RADIANT LIVING ENVIRONMENTS PRIVATE LIMITED	027028
334	A. C. ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	027030
335	SRI SANNIDHI RESORTS PRIVATE LIMITED	027037
336	SAI DURGA COOMPUTERS PRIVATE LIMITED	027038
337	PHANI MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED	027042
338	VIJAYA SAI AGRO-SAP TECH INDIA PRIVATE LIMITED	027043
339	MALLIKARJUNA AGRO TECH PRIVATE LIMITED	027047
340	TRACT PROPERTY MANAGEMENT LIMITED	027049
341	TARNAKA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	027056
342	NEXT COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	027059
343	MAASLA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	027061
344	BHARANI EXIMS PRIVATE LIMITED	027065
345	SRI SAITEJ PLASTICS PRIVATE LIMITED	027069
346	POULOMI MARKETING PRIVATE LIMITED	027076
347	POLESTAR FOOD TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED	027088
348	SAPHALA COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	027089
349	MUKTHI RESORTS AND ESTATES (INDIA) PRIVATE LIMITED	027102
350	KOLLIPARA PACKAGING PRIVATE LIMITED	027105

351	SRI KRISHNA TEJA MARKETING AGENCIES PRIVATE LIMITED	027112
352	VARSHA INTECH AUTOMATION PRIVATE LIMITED	027113
353	IMAGE PUF PRIVATE LIMITED	027115
354	PARAMOUNT EXPRESS PRIVATE LIMITED	027123
355	SWARNA CABLE WORKS PRIVATE LIMITED	027126
356	V.C.L. FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	027128
357	SNIGDHA INFO-TECH LIMITED	027131
358	INTUNE EXPORTS PRIVATE LIMITED	027134
359	SAI AKSHATA PROMOTERS PRIVATE LIMITED	027135
360	ALISON AGRO MARKETING PRIVATE LIMITED	027148
361	VENKATA RAMANA HIRE PURCHASE LIMITED	027151
362	SUJEE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	027172
363	CELESTIAL INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	027183
364	IMMADI FERTILISERS AND AGRI TRADERS PRIVATE LIMITED	027185
365	POLDA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	027186
366	PRIME RESOURCES PRIVATE LIMITED	027190
367	FIRST MEDIA AND ENTERTAINMENT LIMITED	027208
368	DEVI INFOO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	027215
369	KRIELEC ELECTROONICS INDIA LIMITED	027229
370	VIJAYALAKSHMI HANDICRAFTS EXPORTS PRIVATE LIMITED	027243
371	RIDGE AGENCIES PRIVATE LIMITED	027248
372	MACRO PESTICIDES PRIVATE LIMITED	027259
373	FALCON DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	027261
374	RICHEE DRUGS LIMITED	027263
375	GREEN TURF SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	027267
376	BOGOLU ESTATES PRIVATE LIMITED	027274
377	SUMAC AGENCIES PRIVATE LIMITED	027290
378	MAAN POLYALLOYS LIMITED	027300
379	RAZE AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	027303
380	ARUNA SOFTECH PRIVATE LIMITED	027304
381	RAS SOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	027313
382	RAJYALAXMI HIRE PURCHASE LIMITED	027314
383	SAI SADAN ESTATES PRIVATE LIMITED	027315
384	ARK ENGINEERING AND AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	027318
385	VIDURA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	027321
386	RAJANI WARANGAL GUIDE PRIVATE LIMITED	027331
387	SAMBASIVA EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED	027334
388	CHETAN AUTO-TECH PRIVATE LIMITED	027354
389	GRUHALAXMI HOMES PRIVATE LIMITED	027358
390	ALTA-VISTA OVERSEAS PRIVATE LIMITED	027359
391	COMPCORE INFO TECH (INDIA) LIMITED	027362
392	RAVALI HIRE PURCHASE AND FINANCE INDIA LIMITED	027365
393	PADMAPRIYA TRADING PRIVATE LIMITED	027369
394	CHIKKENTA INFOTECH PRIVATE LIMITED	027376
395	MADHAVA FARMS PRIVATE LIMITED	027381
396	PANUGANTI ESTATE PRIVATE LIMITED	027383
397	MITHRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	027408
398	KOTHARI PLASTICS PRIVATE LIMITED	027411
399	BRINDAVAN MANGIUM ESTATES PIVATE LIMITED	027415
400	HIMAN EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED	027423
401	NAGAMANI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	027425
402	SYNOVA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	027426
403	SAWGRASS SOFTWARE INFOTEC PRIVATE LIMITED	027429

404	SAI TEJA SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED	027433
405	PEARL SOFTEC PRIVATE LIMITED	027434
406	PABBA PHARMA PRIVATE LIMITED	027438
407	SAIKRISHNA SILKS PRIVATE LIMITED	027439
408	MANASA IMPEX PRIVATE LIMITED	027448
409	AMULYA MARKETING PRIVATE LIMITED	027453
410	SHREEMAN BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	027454
411	HIMAJA DAIRY PRODUCTS LIMITED	027465
412	POLAMURU AGRI-TECH PRIVATE LIMITED	027468
413	PRATHI HYDRO PARTS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED	027474
414	DREAM SOFT PRIVATE LIMITED	027478
415	PADMAVATHI CRITICAL CARE CENTRE LIMITED	027480
416	SREEMAN CASHEW PRIVATE LIMITED	027487
417	VIDEHI AGRO ESTATES PRIVATE LIMITED	027488
418	VENKATARAMANA AGROTECH (INDIA) LIMITED	027497
419	THULA MONEY AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	027502
420	ADITYA SPOKES PRIVATE LIMITED	027506
421	DR. RM'S DRUGS PRIVATE LIMITED	027507

K. LAKSHMI PRASAD
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies:

Hyderabad-500195, the 1st March 2008

No. RAP/560(3)/Suo Motu/V.satya-238/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No	Company No.	Company Name
1	005587	KAKATIYA SEA FOODS PVT LTD.
2	005590	MAST MARKETING LTD
3	005607	HOEILEX DRUGS PVT LTD
4	005609	NAGAVALLI AGRO INDUSTRIES PVT LTD
5	005611	SABA STEEL RE-ROLLING MILLS PVT LTD
6	005613	RAVIBALA MARKETING AND AGENCIES PVT LTD
7	005614	CONTINENTAL FOOD PRODUCTS PVT LTD
8	005623	ROVINDRA SPINNING MILLS LTD
9	005626	PADMALAYA PUBLISHERS PVT LTD
10	005630	EXXON POLYMERS PVT LTD
11	005633	VARD ORGANICS PVT LTD
12	005639	L V ADVANCE TECHNOLOGIES PVT LTD
13	005647	G V G MARINE CHEMICALS PVT LTD
14	005648	DEEPTHI SREE CONSTRUCTIONS PVT LTD
15	005650	EXPO MOTORS PVT LTD
16	005657	VISU FRANCHISAS PVT LTD
17	005662	HI-PUR SALES PVT LTD
18	005664	ASIAN LAMPS PVT LTD
19	005665	LUCKY GOLD STAR COMMUNICATIONS PVT LTD
20	005673	COASTAL STEELS PVT LTD
21	005674	DVR TRANSPORTS PVT LTD
22	005675	VASU DRUGS PVT LTD
23	005679	B R AND B S CHEMICALS PVT LTD
24	005680	INTEL WINES PVT LTD
25	005683	FARMLAND FOOD COMPANY PVT LTD
26	005684	SAROJINI HOTELS PVT LTD
27	005700	SANGHAMITRA PRINT AIDS PVT, LTD
28	005706	AKTUS PLASTICS PVT LTD
29	005710	NUBUILD CRAFTS PVT LTD
30	005711	DEEPTI QUARTZITE MINES PVT LTD
31	005713	BALAJI STONE WARE PIPES AND REFRACTORIES PVT LTD
32	005714	POTENTIAL MARKETING AND ADVERTISING PVT LTD
33	005717	BIO-MASS FULLS INDIA LTD
34	005718	JAYARAM ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
35	005720	OPACO WINES PVT LTD
36	005723	HI-LITE ADS PVT LTD
37	005753	VISAKHA OVERSEAS MERCANTILE PVT LTD
38	005760	AKSHAYA PACKAGINGS PVT LTD

39	005762	NAGU BUSINESS SERVICES PVT LTD
40	005766	SUPER FINE OIL COMPANY PVT LTD
41	005777	ANAND MARINES PVT LTD
42	005782	KENNARA ALLOY STEEL PVT LTD
43	005786	HEMA PROCESSED FOODS PVT LTD
44	005799	CEM KAR GRANITE DECESS PVT LTD
45	005800	CEM-MAG TOOLS PVT LTD
46	005806	SEVEN STARS LIQUORS PVT LTD
47	005811	JEEVAGADDA PUBLICATIONS PVT LTD
48	005821	SABA CEMENTS PVT LTD
49	005824	KAMAKOTI ELECTRONICS (P) LTD
50	005826	COASTAL IGNITES LTD
51	005827	SRI SAMPURNA HOTEL ENTERPRISES PVT LTD
52	005829	RAGHAVENDRA FARMS PVT LTD
53	005836	VIGVEN PHARMACEUTICALS PVT LTD
54	005846	RELIANCE INDUSTRIAL GASES LTD
55	005855	SHANKAR FILAMENTS PVT LTD
56	005877	MANAIR ELECTRICALS PVT LTD
57	005881	EAST COAST CEMENTS PVT LTD
58	005890	GAJANANDA STEEL RE-ROLLING PVT LTD
59	005902	ACCAMMA FRUIT PRODUCTS PVT LTD
60	005907	SAI TRADING AND CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
61	005915	JELTRON INSTRUMENTS (INDIA) PVT LTD
62	005920	GROW MARKETS PVT LTD
63	005939	CHANDRA PRAKASH COMSTRUCTIONS PVT LTD
64	005950	SHREE DURGA TOBACCO COMPANY PVT LTD
65	005959	NIRMAL VISIONS PVT LTD
66	005962	JYOTHI GANESH PLASTIC INDUSTRIES PVT LTD
67	005968	KAMADENU CEMENTS PVT LTD
68	005971	SNIGDHA GRANITE PVT LTD
69	005973	COSMIC BUSINESS EQUIPMENTS AND AIDS PVT LTD
70	005976	THUNDER DAIRY AND AGRO FARM PRODUCTS PVT LTD
71	005989	NIRMAL CONSUMER PRODUCTS PVT LTD
72	005994	KRISPEN MARKETING PVT LTD
73	006002	GRANITES AND TOOLS PVT LTD
74	006005	ELMECH INDUSTRIAL ENGINEERS PVT LTD
75	006006	MEGHANA MARKETING PRIVATE LTD
76	006009	MOHINISURA DISTILLERIES PVT LTD
77	006017	COSMOTRON ELECTRONICS LTD
78	006020	SANTHAZ ELECTROPLY LTD
79	006022	SUVORNA COMPONENTS PRIVATE LTD
80	006036	TULSI MINERALS PVT LTD
81	006041	SANDS CHEMICALS INDUSTRIES LTD
82	006042	PADMAVARSI CONSTRUCTIONS PVT LTD
83	006051	SYAMALAMBA ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
84	006055	LIWELLS PHARMACEUTICALS PVT LTD
85	006063	JAGANNATH FARMS PVT LTD
86	006067	SAIKRIPA TRANS FUSIONS PVT LTD
87	006071	KOUSALA HOUSING DEVELOPMENT PVT LTD
88	006073	ORIEN MARKETING (INDIA) PVT LTD
89	006074	ORIEN BUSINESS SERVICES PVT LTD
90	006083	RAVIRELA CEMENT LTD
91	006098	MANAIR STEEL RE-ROLLING MILLS PVT LTD

92	006099	VIKRAM FRUIT PRODUCTS P LTD
93	006103	K V ELECTRONICS PVT LTD
94	006120	SATYAWORLD TRAVELS PVT LTD
95	006139	RADHA TRANSPORT PVT LTD
96	006140	RADHA CONSTRUCTIONS PVT LTD
97	006145	U.T. CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
98	006162	SRI VIJAYA KRISHNA MINERAL PRODUCTS PVT LTD
99	006172	EXXON PACKAGING SYSTEMS PVT LTD
100	006180	NITYA SWITCHGEAR PVT LTD
101	006190	BRITE SAX PVT LTD
102	006203	BRIGHT HOSPITALS PVT LTD
103	006213	HYDERABAD LAMINATES PVT LTD
104	006220	VARMA INDUSTRIAL CHEMICALS PVT LTD
105	006224	APOORVA INDUSTRIAL AND REJUVATION CONSULTANCY SERVICESPVT LTD
106	006226	HI-WHEELS TRAILORS PVT LTD
107	006227	TIRUPATI STRIPS LTD
108	006228	VASU COSMETICS PVT LTD
109	006232	KHERA FOODS AND MARINES LTD
110	006233	DELIGHT MARINE FOOD SPECIALITIES LTD
111	006240	BALAJI RE-ROLLING MILLS PVT LTD
112	006242	LAKSHMI BARIUM PVT LTD
113	006245	HI-FLOW OILS PVT LTD
114	006246	VIKAS CONTAINERS PVT LTD
115	006248	SUVISHAL SALES AND SERVICES (AP) PVT LTD
116	006256	PAST-O-MOULD PVT LTD
117	006259	SIDHU SYSTEMS AND ELECTRICALS P LTD
118	006272	AURIC ELECTRO LTD
119	006288	MODERN HABITAT AND NEEDS PVT LTD
120	006293	L V GAS AND PHARMACUTICALS PVT LTD
121	006295	KRISHNARAYA ELECTRONICS PVT LTD
122	006297	SRI DEVI MULTITECHNOLOGIES PVT LTD
123	006299	KURNA PHARMA P LTD
124	006306	CONCEPT ENGINEERING PVT LTD
125	006311	SHENANCK QUALITY FOODS PVT LTD
126	006315	GAUTHAMI PROPERTIES LTD
127	006317	SAROVAR CHEMICALS P LTD
128	006322	BIOMED LABORATORIES P LTD
129	006378	SHANUCK MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
130	006379	NENI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
131	006384	S R INDUSTRIAL CARBONS PRIVATE LIMITED
132	006401	AKSHITHA ESTATES PRIVATE LIMITED
133	006416	SUNCOLA ELECTRONICS PVT LTD
134	006423	UTILITY GRANITES PRIVATE LIMITED
135	006424	CAPTAIN CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
136	006438	RISHI MARKETING PRIVATE LIMITED
137	006457	NEPTUNE FISHERIES PRIVATE LIMITED
138	006462	SHREEPAD METALS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
139	006471	VAMSI PIPES PRIVATE LIMITED
140	006474	SRI SAINATH ROLLING SHUTTERS PRIVATE LIMITED
141	006475	CANDID ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED
142	006479	BHAGYANAGAR REFRACTORIES PRIVATE LIMITED
143	006489	SUDHI DIESEL LIMITED
144	006490	DECCAN PLASMOTICS PRIVATE LIMITED

145	006496	APEL ARAVIND COMMUNITEATIONS LTD.
146	006499	PLUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
147	006500	INDOSAKA SILKS LTD.
148	006504	PAIGAH FARMS PVT. LTD.
149	006512	AVANTI CELLULOSE PVT. LTD.
150	006514	HYDERABAD MILK PRODUCTS PVT. LTD.
151	006515	TELE-POORNA SYSTEMS PVT. LTD.
152	006526	WAJAB PACKAGINGS PVT. LTD.
153	006530	RAYADU CHEMICALS PVT. LTD.
154	006532	LILI DRUGS AND COSMETICS PVT. LTD.
155	006534	CARE CONSULTANTS PVT. LTD.
156	006535	IRA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
157	006547	DAWN MARINES PVT. LTD.
158	006558	COLOROCK PVT. LTD.
159	006559	RAJ CHEM PVT. LTD.
160	006564	MANAI SALES CONSORTIUM PVT. LTD.
161	006581	FIRST REINFORCED PLASTICS PVT. LTD.
162	006599	BRUMELL MARKETING PVT. LTD.
163	006606	DRAKES MARINE FOODS LIMITED
164	006613	BAJAJ ELECTRO STEELS PVT. LTD.
165	006618	PARAGENA MINERALS AND CHEMICALS PVT. LTD.
166	006621	BOPANNA PLANTATIONS AND ORCHARDS PVT. LTD.
167	006622	ORIENT MICROSOFTWEAR PVT. LTD.
168	006630	PARTHASARATHY PACKAGINS PVT. LTD.
169	006634	SRIVET CHMICALS PVT. LTD.
170	006636	SCAMB POLY LIMITED
171	006653	SUDHA PLASTICS PVT. LTD.
172	006670	KAPIAL INNOVATIVE DISTRIBUTION SERVICES PVT. LTD.
173	006677	SUNKARA SUPPLYING TENDERING CONTRACTING CO. PVT. LTD.
174	006679	T. P. K. PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
175	006680	MEOLIE PHILANDERS PVT. LTD.
176	006684	GARDEN VALLY CHEMICALS PVT. LTD.
177	006693	SAP PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
178	006696	SHIVIKAS CEMENTS LIMITED
179	006697	I.M.S. BUSINESS MACHINES PVT. LTD.
180	006702	ADEOMN MULTIMEDIA AND MARKETING PVT. LTD.
181	006706	PENGUIN POLYMERS LIMITED
182	006724	MAHANANDI BOTTLING PVT. LTD.
183	006726	BLUBIRD PRINTING AND PACKAGING PVT. LTD.
184	006727	STATUS PRINTING AND PACKAGING PRIVATE LIMITED
185	006750	SKANDIA TECHNICAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
186	006753	ACCU DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
187	006754	MACK ELECTRICAL AND ACCESSORIES PVT. LTD.
188	006762	KOVANS EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
189	006773	SAMUDRIKA HOTELS PRIVATE LIMITED
190	006780	PREMIER PROCESSCOL FOOD LTD.
191	006782	AUGUST LABORATORIES PRIVATE LTD.
192	006798	PRIYANKA SURGICALS PRIVATE LIMITED
193	006799	KODUR PLASTICS PVT. LTD.
194	006801	ENSCONCA BUILDERS PVT. LTD.
195	006807	RASMI DIES AND ALLOYS PVT. LTD.
196	006814	MINAL PRODUCTS (INDIA) LIMITED
197	006821	BHAGYANAGAR STEELS PVT. LTD.

198	006823	KAKATIYA HATCHERIES PVT. LTD.
199	006832	V.S.L. AGRI AIDS PVT. LTD.
200	006836	ESS BEE SYSTEMS PVT. LTD.
201	006840	ANDHRA ROOFINGS PVT. LTD.
202	006845	HYDERABAD TOBACCO MANUFACTURING COMPANY LTD.
203	006847	SRI VARDHAMAN SAI PIPES PVT. LTD.
204	006855	SANDRA TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
205	006859	VIPANI NEWSPAPER MARKETING PVT. LTD.
206	006871	ACE MARKETING AND ADVERTISING PVT. LTD.
207	006874	MOLD INJE PVT. LTD.
208	006876	FAST FRIGHT SERVICES PVT. LTD.
209	006901	PERFECT PETRO PRODUCTS PVT. LTD.
210	006903	GUSANI STEELS PVT. LTD.
211	006909	CONEL ELECTRONICS (INDIA) LTD.
212	006913	CONSOLIDATED LUBRICANTS AND CHEMICALS PVT. LTD.
213	006915	SRI VENKATALAKSHMI ANDHRA KARAM MASALA PVT. LTD.
214	006940	ANANTAPUR CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
215	006953	KARTIK LAMPS AND COMPONENTS PVT. LTD.
216	006969	MONODEN FISHERIES PVT. LTD.
217	006978	ARKI EXPORTS PVT. LTD.
218	006990	MANDADI HOUSING PVT. LTD.
219	006991	MAYURI CAPITAL MARKET SERVICES PVT. LTD.
220	006993	TRUCKEERS(SOUTH) PVT. LTD.
221	006996	BETA LINES PVT. LTD.
222	006999	KOBROS MARKETING PVT. LTD.
223	007006	ORIENTAL GRANITES PVT. LTD.
224	007007	CLASSIC POLYMERS PVT. LTD.
225	007010	S.L.S. LAMINATES PVT. LTD.
226	007015	M.GURUNATH AND ASSOCIATES PVT. LTD.
227	007022	HARTEX TYRES PVT. LTD.
228	007025	GOOD GLASS OPTICAL COMPANY PVT. LTD.
229	007026	UNIVERSAL MARINE PRODUCTS PVT. LTD.
230	007029	GOLDSTAR OILS AND FATS LTD.
231	007035	FALCON DETECTIVE AND SECURITY PVT. LTD.
232	007037	INTEGRATED TURBOHAND SERVICES PVT. LTD.
233	007038	SUJATHA MARINE PRODUCTS PVT. LTD.
234	007039	TWENTY FIRST CENTURY PACKAGING SYSTEMS PVT. LTD.
235	007041	AI-AASA PLASTICS PVT. LTD.
236	007045	SPAR MARINE PVT. LTD.
237	007048	INTECH BUSINESS MACHINES PVT. LTD.
238	007052	LARSVEN ALLOY STEEL PVT. LTD.

D. RAMA KRISHNAN
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Hyderabad-500195, the 1st March 2008

No. RAP/560(3)/Suo Motu/MA-336/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No	Company No.	Company Name
1	028032	CORONA IMPEX PRIVATE LIMITED
2	028034	ANDHRA COURIERS PRIVATE LIMITED
3	028052	PANCHASHEEL MUSHROOM FARMS PRIVATE LIMITED
4	028053	VEDAM HOUSING CREDIT PRIVATE LIMITED
5	028061	TECHNO VISION AGRI FINANCE PRIVATE LIMITED
6	028063	RAMAVARAM TRANSPORT PRIVATE LIMITED
7	028078	SRIRAM SOFTWARE ARCHITECTS INDIA PRIVATE LIMITED
8	028079	T RAMI REDDY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
9	028099	LAAP INFOTECH PRIVATE LIMITED
10	028151	SRI AIRCON PRIVATE LIMITED
11	028162	SMAIL PHARMA PRIVATE LIMITED
12	028174	MAJESTIC MARKETING PRIVATE LIMITED
13	028186	PRIYANKA GLASS PLANTS PRIVATE LIMITED
14	028224	MUGAMBICA HIRE PURCHASE AND LEASING PRIVATE LIMITED
15	028230	DHARAMPURI VENKATASAI HI-PUR AND FINANCE LIMITED
16	028262	REKH IMPORTS AND EXPORTS LIMITED
17	028282	BOLLINENI MAHESWARI REAL ESTATE AND HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
18	028299	SIMHADRI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
19	028316	VIBGYOR MARKETING LIMITED
20	028334	MAGNIFIQUE HOTELS PRIVATE LIMITED
21	028339	ALAP MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
22	028353	KAKATIYA ENTRANCE COLLEGE PRIVATE LIMITED
23	028375	PRITHVI TRAVELS PRIVATE LIMITED
24	028378	INDIAN CENTER FOR OBJECT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
25	028393	SIRISHA PACKAGING PRIVATE LIMITED
26	028411	TEJA POWER PRIVATE LIMITED
27	028425	RAJA YOGA BENEFIT FUND LIMITED
28	028443	SURL PHARMACEUTICALS LIMITED
29	028474	SHIVA INSTITUTE OF SOFTWARE TRAINING PRIVATE LIMITED
30	028522	ALPINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	028523	SHRI SAI VRUSHA BHADRI ESTATES PRIVATE LIMITED
32	028535	SWAYAM SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
33	028551	DIAMOND BULK MOVERS PRIVATE LIMITED
34	028553	SIRENS DESIGNERS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
35	028575	PATCHDANAM ESTATES PRIVATE LIMITED
36	028578	SPHINX COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
37	028597	JAMPANA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
38	028609	RAGHAVA GARDENS PRIVATE LIMITED
39	028614	RADISE SOFTWARE PRIVATE LIMITED

40	028615	SAKSHI CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
41	028620	NAGENDRA AGRO COMPANY PRIVATE LIMITED
42	028621	BABU PROJECTS LIMITED
43	028624	SESHACHALA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
44	028646	MASTER METER MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
45	028650	INTERCOAST EXIM PRIVATE LIMITED
46	028658	SRI NAMADARAKA RESORTS AND INNS PRIVATE LIMITED
47	028674	L.A.K. TEAK PRIVATE LIMITED
48	028676	K. C. COMPUTER LINKS PRIVATE LIMITED
49	028696	CHEYUTHA CONSTRUCTIONS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
50	028708	CHANDRAMOULI TOBACCO PRIVATE LIMITED
51	028715	SAPTHAGIRI MARKETING PRIVATE LIMITED
52	028725	SAI TEJA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
53	028742	SAKKU GRANITES PRIVATE LIMITED
54	028743	HOVEL HOUSING DEVELOPMENT FINANCE LIMITED
55	028745	BRUNDA HOMES PRIVATE LIMITED
56	028746	MAISA DAIRIES PRIVATE LIMITED
57	028752	WARANGAL TEXTILES PRIVATE LIMITED
58	028757	GEE BEE HOUSING PRIVATE LIMITED
59	028758	PRIME DIGITALS PRIVATE LIMITED
60	028761	SRI SABARISHA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
61	028764	MANNEEDI TEXTILES PROCESSORS PRIVATE LIMITED
62	028769	CARSON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
63	028772	YOGI DIARY FARMS PRIVATE LIMITED
64	028776	SRI BHARADWAJA RESORTS PRIVATE LIMITED
65	028787	NOVEL PHARMA PRIVATE LIMITED
66	028792	SAMCO AQUA PRIVATE LIMITED
67	028796	AMRIT AVIATION SERVICES LIMITED
68	028808	RAMZI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
69	028811	PRAKASH SUPER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
70	028820	MIRACLE PLAY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
71	028823	PANTEJ MARKETING PRIVATE LIMITED
72	028824	PRASANNA JUTE TWINES PRIVATE LIMITED
73	028825	JANAVISWA ESTATES PRIVATE LIMITED
74	028827	A. S. DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
75	028835	MULTI SOFT INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
76	028843	SRI KANAKADURGA RATITE FARMS PRIVATE LIMITED
77	028860	VAIRAJ ENGINEERING PRIVATE LIMITED
78	028872	LA INFORMATHICA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
79	028885	REKHA BIO-FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
80	028889	ESWARASRI ORGANICS PRIVATE LIMITED
81	028890	HYDERABAD SOLAR ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
82	028894	OM SAI OIL EXTRACTS PRIVATE LIMITED
83	028896	AKHILA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
84	028900	EMANI SOLTECH PRIVATE LIMITED
85	028910	CYBER NET MICRO PROCESSORS INDIA LIMITED
86	028917	LA INTERPACK PRIVATE LIMITED
87	028919	KOKKANTI HOUSING PRIVATE LIMITED
88	028922	AMUS CHAINS PRIVATE LIMITED
89	028929	SREE VISWA SAI GRAINAGE PRIVATE LIMITED
90	028932	FEV - SAGAR ITALIA HYDRAULIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
91	028942	PAUL GLASS PRIVATE LIMITED
92	028946	ELGCI AUDIO LABS PRIVATE LIMITED

93	028951	HAMSTER CLUTCH HOUSE PRIVATE LIMITED
94	028955	S.K. GRAPHICS PRIVATE LIMITED
95	028958	TINY TOTS RECREATIONS PRIVATE LIMITED
96	028966	KATYAYANI ELECTRICALS AND DIESELS PRIVATE LIMITED
97	028973	PEREGRINE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
98	028975	SHYAM CASTLE PRIVATE LIMITED
99	028980	SAI SUVARNA AVENUES PRIVATE LIMITED
100	028990	INDO-AMERICAN SOFTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
101	028992	VAISHNOVI DOORS AND WINDOWS PRIVATE LIMITED
102	028993	VAISHNOVI MILK FOODS PRIVATE LIMITED
103	029012	EFFEN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
104	029020	EMKAYAR INFOTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
105	029025	SRI SANE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
106	029028	SRIVEN MARKNET PRIVATE LIMITED
107	029029	SAMATA HOUSING PRIVATE LIMITED
108	029036	CORVILLAS RESORTS PRIVATE LIMITED
109	029041	SILEKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
110	029043	DVK POLY-WARE PRIVATE LIMITED
111	029045	PADMAJA FABNIT PRIVATE LIMITED
112	029049	REGENCY GARDENS PRIVATE LIMITED
113	029053	SRIDHAR TRANSPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
114	029068	SRI RAGANANDINI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
115	029080	KAMNA IMPEX PRIVATE LIMITED
116	029086	HYVEN SOFTLOGICS PRIVATE LIMITED
117	029087	ASKA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
118	029094	LAKSHYA BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
119	029101	SMILES AND SMILES MEDIA PRIVATE LIMITED
120	029111	KYLASA PROJECTS PRIVATE LIMITED
121	029113	ENTRUST CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
122	029124	SAJ BODY CARE PRIVATE LIMITED
123	029134	SGK SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
124	029142	A.N.R. CARGO MOVERS AND COURIER LIMITED
125	029150	SUGUNA SHREE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
126	029152	SRI DURGA FLORITECH LIMITED
127	029159	J.M. GRAPHICS PRIVATE LIMITED
128	029169	SRI SATYASAI ADVERTISING PRIVATE LIMITED
129	029171	SOWMYA FABRICATORS PRIVATE LIMITED
130	029172	R K WELTEL INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
131	029183	APPLE HOMES PRIVATE LIMITED
132	029202	SUJARAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
133	029218	RAN ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
134	029221	TAPATI GRANITES PRIVATE LIMITED
135	029236	VEMURI HOSPITAL PRIVATE LIMITED
136	029238	EMUS EXIM PRIVATE LIMITED
137	029251	NAGALLA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
138	029253	PRERANA CREATIONS PRIVATE LIMITED
139	029267	CONNUSIER INFOTECH PRIVATE LIMITED
140	029270	TIPS COMPUTERS AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
141	029272	SAPARYA HOTELS PRIVATE LIMITED
142	029273	RAMAKRISHNA DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
143	029286	DUODECIMAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
144	029290	RIVEN INFOTECH PRIVATE LIMITED

145	029295	K T PATH FINDERS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
146	029303	NETWORK SILICON INDIA PRIVATE LIMITED
147	029309	SAI SURYA WATER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
148	029313	UZMA DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
149	029315	PRUDHVI POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
150	029333	SUSHRUTH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
151	029340	KOUSHALYA GRANITES PRIVATE LIMITED
152	029343	VAISHNAVI FISHERIES PRIVATE LIMITED
153	029348	HERITAGE PLAST PRIVATE LIMITED
154	029351	CORES ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
155	029352	CHATRA POULTRIES PRIVATE LIMITED
156	029357	BLUEBIRD INFOWAVE PRIVATE LIMITED
157	029362	WINNY EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
158	029379	SAN INFORMATE SOFTWARE LIMITED
159	029385	ABBU MARKETING ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
160	029395	AMITA ALLUMINIUM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
161	029400	GWALIOR HITECH SEEDS PRIVATE LIMITED
162	029405	NAS SOFT-TECH COMPANY PRIVATE LIMITED
163	029408	SRI RAMA KRISHNA SAI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
164	029425	V.R.K. OVERSEAS PRIVATE LIMITED
165	029433	SESHASAYANA IMPEX PRIVATE LIMITED
166	029434	RAINBOW GIFTS AND CARDS PRIVATE LIMITED
167	029477	MEDCHAL WATERS PRIVATE LIMITED
168	029495	SODHI ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
169	029498	RUTUN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
170	029507	PML HYTEC PLACEMENTS PRIVATE LIMITED
171	029513	KENCHE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
172	029522	HRS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
173	029534	CHALLA GRANITES PRIVATE LIMITED
174	029540	SRINIVAS SILVER MERCHANTS PRIVATE LIMITED
175	029549	V.R.K. MARKETING SOLUTIONS AND NETWORK PRIVATE LIMITED
176	029555	H. D. PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
177	029556	ANUBHAV GRANITES PRIVATE LIMITED
178	029563	MAHISAI HOUSING PRIVATE LIMITED
179	029571	VANGA SAVINGS PRIVATE LIMITED
180	029606	MARSP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
181	029607	RHONS INFOTEK PRIVATE LIMITED
182	029628	SHALOM EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
183	029630	JAGADAMBIKA OILS AND SEEDS PRIVATE LIMITED
184	029640	SRI LAKSHMI NARASIMHA SWAMY SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
185	029646	KOKA POULTRY PRIVATE LIMITED
186	029647	MODULAR REALTORS PRIVATE LIMITED
187	029652	GREENEDGE COFFEE EXPORTS LIMITED
188	029656	VEGESNA IMPEX PRIVATE LIMITED
189	029678	GLIDE ELECTRICAL PRIVATE LIMITED
190	029683	MADHURI MEDICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
191	029684	MARUTHI POULTRIES PRIVATE LIMITED
192	029685	MEGA CITY AIDS HOSPITAL PRIVATE LIMITED
193	029688	KOTI VIHARA HOUSING PRIVATE LIMITED
194	029699	HYDERABAD FLYING CLUB PRIVATE LIMITED
195	029701	JAGAN AIR-CONDITIONERS PRIVATE LIMITED
196	029702	SUSHMITHA PLASTICS PRIVATE LIMITED
197	029713	PENUEL INFOTECH PRIVATE LIMITED

198	029719	A. P. CHEMPARK SPECIALITIES LTD
199	029725	VIMTA EXPORTS PRIVATE LIMITED
200	029726	VOIS IMPEX PRIVATE LIMITED
201	029728	DHYANA SOFT PRIVATE LIMITED
202	029736	INDUS HITECH OFFICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
203	029738	PETAL SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
204	029743	BERRY'S APPARELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
205	029744	NUKAMBICA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
206	029746	R.K. TECHNOFAB ELECTRODES PRIVATE LIMITED
207	029759	D. S. CREATIVE COMPUTER PERIPHERALS PRIVATE LIMITED
208	029760	MUTHAVARAPU STORAGES PRIVATE LIMITED
209	029762	GOLDEN CHAIN MARKETING LINK PRIVATE LIMITED
210	029785	DVS ENGINEERING CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
211	029790	CHITTORGADH GARMENTS PRIVATE LIMITED
212	029795	HYDERABAD COMEX ADVISORY PRIVATE LIMITED
213	029800	SAI KRUPA TOURS PRIVATE LIMITED
214	029803	KAKATIYA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
215	029820	PRAVEEN COMPONENTS PRIVATE LIMITED
216	029833	VAISHNAVI GRILLS (INDIA) PRIVATE LIMITED
217	029835	ARHAM LABORATORIES LIMITED
218	029842	PRANUTHI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
219	029846	PATHAK INFOTECH PRIVATE LIMITED
220	029848	ASRITA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
221	029849	VAITLA TRADING PRIVATE LIMITED
222	029856	SRI MARUTHI BOTTLES PRIVATE LIMITED
223	029857	CHANUKYA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
224	029863	ATTIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
225	029875	H.S. INFOTECH PRIVATE LIMITED
226	029880	MIGHTY TECHNOLOGY INFORMATICS PRIVATE LIMITED
227	029891	C. K. CUMMONUCATIONS PRIVATE LIMITED
228	029901	LUCID BIG BIRD EMUS INDIA LIMITED
229	029905	SAI WEBJECT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
230	029933	SRI TEJA DAIRY LIMITED
231	029937	DOLPHIN PERIPHERALS PRIVATE LIMITED
232	029940	U.S.COMPUTERS AND TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
233	029947	SHREEMAAN ESTATES PRIVATE LIMITED
234	029963	AM FAB-TECH PRIVATE LIMITED
235	029965	VAIBHAV GRAPHICS PRIVATE LIMITED
236	029968	SHABANA ADVERTAISING SERVICES PRIVATE LIMITED
237	029969	MEDIKONDA ESTATES PRIVATE LIMITED
238	029981	NMB FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
239	029989	PATLORI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
240	029992	INDUPRIYA MOULDS AND PLASTICS PRIVATE LIMITED
241	029998	VIJAYA NAVATHA TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
242	030007	DOCTOR AMARNATH CONFECTIONARY PRIVATE LIMITED
243	030019	CHARMINAR COURIERS PRIVATE LIMITED
244	030025	PSJ ADVANCED TECHNICAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
245	030027	SREEMALIK MERCANTILE SERVICES PRIVATE LIMITED
246	030059	UNITED TELELINKS (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
247	030077	TSR HOUSING PRIVATE LIMITED
248	030079	OMARAS POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
249	030085	GREAT INDIA HOME CARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
250	030086	NITHIKA ENGINEERING PRIVATE LIMITED

251	030090	JEEVANDHARA DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
252	030093	KRAM PHARMA PRIVATE LIMITED
253	030097	VINTAGE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
254	030114	PRANESH ENGINEERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
255	030116	TROJAN CHEMIE COMPOUNDS PRIVATE LIMITED
256	030121	LARK COMMUNIQUE SERVICES PRIVATE LIMITED
257	030122	SHIV-RAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
258	030123	KAPOK KNITWEAR PRIVATE LIMITED
259	030137	PRAKRUTHI EXIM INDIA PRIVATE LIMITED
260	030144	DECCAN HITECH EARTH MOVING SPARES HOUSE PRIVATE LIMITED
261	030147	PAM INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
262	030148	SRI KAPILA RICE AND PROTEINS PRIVATE LIMITED
263	030149	GR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
264	030150	INDIANA WEIGHBRIDGES AND SCALES PRIVATE LIMITED
265	030151	PRANAV MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
266	030152	SAMEEP AUTOMATION PRIVATE LIMITED
267	030153	SRI SAMBASIVA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
268	030156	AKHILA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
269	030161	SRI SAI MAHARAJ PROPERTY DEVELOPERS LIMITED
270	030198	SUJI CEMENTS INDIA LIMITED
271	030223	ARTICULATE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
272	030230	VARJINIA ESTATES LIMITED
273	030240	B. T. ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
274	030241	AVULA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
275	030264	SHS CERAMICS PRIVATE LIMITED
276	030266	PARVY SURGICALS AND SYRINGES PRIVATE LIMITED
277	030268	CROSSLAND COURIER AND CARGO PRIVATE LIMITED
278	030282	T V R PROPERTIES PRIVATE LIMITED
279	030284	S.K. STUDIO PRIVATE LIMITED
280	030285	WINGS INFOTECH PRIVATE LIMITED
281	030295	TVN FLUORO POLYMERS PRIVATE LIMITED
282	030306	AAKHIRAT TECHNOLABS LIMITED
283	030308	CHANDRA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
284	030313	KANTH AND KANTH HOUSING AND ESTATES PRIVATE LIMITED
285	030321	VIBGYOR EXIM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
286	030327	SRISU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
287	030358	SHIRDI SAI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
288	030365	MADHAVARAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
289	030376	BHARGAV WASHOMATE PRIVATE LIMITED
290	030384	SWARNANDHRA CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED
291	030400	ANUBHAV SEEDS PRIVATE LIMITED
292	030407	D.R.S. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
293	030427	SREE GOWTHAMA SRINIVASDA AYURVEDA ASHRAMAM LIMITED
294	030430	SRI SAI SRAVANTI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
295	030443	SKM INFOTECH PRIVATE LIMITED
296	030451	JAUNTY HOME PRIVATE LIMITED
297	030453	LORVEN ADVERTISING HOUSE PRIVATE LIMITED
298	030456	ARROW ADVERTISING PRIVATE LIMITED
299	030461	SPECTRA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
300	030467	CPB KHAMMAM OIL MILLS PRIVATE LIMITED
301	030474	BALANJANEYA FISHERIES PRIVATE LIMITED
302	030475	LIPICA CARDS PRIVATE LIMITED

303	030480	VALUE LINE INFOTECH PRIVATE LIMITED
304	030482	RAGHU ERP PEOPLE PRIVATE LIMITED
305	030492	J V D PLASTICS PRIVATE LIMITED
306	030495	CHALET CEMENTITIOUS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
307	030497	OM-JEET CARGO CARRIERS PRIVATE LIMITED
308	030507	MARKBIS HOUSING PRIVATE LIMITED
309	030508	DECCAN COMMODITY EXCHANGE (INDIA) LIMITED
310	030514	DISCOVERY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
311	030532	EDIFICE EXIM PRIVATE LIMITED
312	030536	RENDEZVOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
313	030539	SIGMED FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
314	030548	ONLINE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
315	030550	V R HOUSING PRIVATE LIMITED
316	030566	LAKSHMI AND TEJA AQUA MINERAL PRIVATE LIMITED
317	030572	M.D.DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
318	030573	DRAGON SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
319	030584	ROBOTICS INFO TECH PRIVATE LIMITED
320	030594	HYDERABAD ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
321	030596	K.R. COTTONS PRIVATE LIMITED
322	030608	MUNDRU MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
323	030612	SUPRAJA POLYMERS PRIVATE LIMITED
324	030613	BSR MARITECH PRIVATE LIMITED
325	030616	POTHUKUCHI SPINTEX PRIVATE LIMITED
326	030622	ACME SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
327	030632	SWARNA BHARATHI PARABOILED PRIVATE LIMITED
328	030634	SUNITHA HI-TECH POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
329	030654	AJWA TRADE SERVICES PRIVATE LIMITED
330	030657	SRI SAI SATHWIC TELESERVICES PRIVATE LIMITED
331	030658	ORUGULLA INFOTECH PRIVATE LIMITED
332	030659	MACHERLA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
333	030663	BLUEBELL ORGANICS PRIVATE LIMITED
334	030664	SESEMAPHORE SOFTWARE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
335	030666	MIDHUNA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
336	030667	VINTAGE REALTORS PRIVATE LIMITED

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad-500195, the 18th March 2008

No. RAP/560(3)/ Suo Moto JTA/2008- Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register maintained by this office and the said Companies will be dissolved.

1	032005	RUSHALI GARMENTS PRIVATE LIMITED
2	032014	HERITAGE TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
3	032015	SREEVIL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	032016	MAANUDAAR AGENCIES PRIVATE LIMITED
5	032033	M.R. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	032034	DEEPIKA BIO-POER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
7	032038	VR POER PROJECTS PRIVATE LIMITED
8	32041	PRISM BIO ENERGY PRIVATE LIMITED
9	032042	MAHESHWARI FERTILISERS PRIVATE LIMITED
10	032046	ASOFT INDIA PRIVATE LIMITED
11	032058	DR.JAGATH REDDY'S HETEROCYCLICS PRIVATE LIMITED
12	032060	AICA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
13	032062	KORB TECHNOLOGICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
14	032069	KARVEL DISPOSABLE WARES PRIVATE LIMITED
15	032070	COSMOS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	032071	MASTER SOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
17	032075	REMAX HOTELS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
18	032077	KOUNDINYA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
19	032088	S S R GIFT SERICCES PRIVATE LIMITED
20	032087	SURYA ATOM SERVICES PRIVATE LIMITED
21	032090	KALPAKA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
22	032091	DIGIGRAPH TECHNOLOGIES LIMITED
23	32096	SHRI SSV POWR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
24	032099	PROFICIENT SOFT EXPO CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
25	032100	SREE CHAKRA INFOTECH PRIVATE LIMITED
26	032105	GOWELL NETWORK MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
27	032109	MATRIX ADVANCE TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
28	032113	BODDEPALLI FOODS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
29	032115	AGB INTERACTIVE PRIVATE LIMITED
30	032123	ZION MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	032131	PRAYOG TRADING AND MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
32	032132	GOBI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
33	032136	SRI SRINIVASA BUILD TECH PRIVATE LIMITED
34	032138	SRIPADBHAVA JUTE COMPANY PRIVATE LIMITED
35	032139	BHUPATHI TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
36	032140	SAI KIRAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
37	032144	SPRING SOFTWARE EXPORTS PRIVATE LIMITED
38	032145	GUNDIPET BOTTLING CO. PRIVATE LIMITED
39	032150	NIKITA MARINES PRIVATE LIMITED
40	032154	KAUSAR TESNEEM AND SONS AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
41	032165	AXCESS EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
42	032167	VASS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
43	032169	AGRANI CYBER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
44	032237	INDIAN GROW MORE SERVICES PRIVATE LIMITED
45	032239	YAHWEH IMPEX (INDIA) LIMITED
46	032242	A.V.R. PRINTERS PRIVATE LIMITED
47	032243	VYSHESHIKA NIRMAN PRIVATE LIMITED
48	032250	SAI SINDHU BIO MASS POWER PRIVATE LIMITED

49	032252	UNNATI TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
50	032259	PARKAR POLYMERS PRIVATE LIMITED
51	032262	N N DETONATORS PRIVATE LIMITED
52	032263	WEBTEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
53	032266	ALPA PHARMACY PRIVATE LIMITED
54	032267	APNI INFO MEDIA PRIVATE LIMITED
55	032269	DEEPIKA SOFT-TECH LIMITED
56	032274	S A P MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
57	032276	MANISRENI MANAGERIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
58	032279	MANORUP AGRO FARMS INDIA LIMITED
59	032283	HIMAGIRI INDUSTRIAL COMPONENTS PRIVATE LIMITED
60	032284	SIMHAPURI INFOTECH PRIVATE LIMITED
61	032285	SAHETI ELECTRICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
62	032286	ARSHYA FARM HOUSE PRIVATE LIMITED
63	032288	GREEN HARNET SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
64	032299	AL-HAMRA HOUSING PRIVATE LIMITED
65	032305	COLOR STORY INDIA PRIVATE LIMITED
66	032308	SNEHA GOLDEN SERVICES PRIVATE LIMITED
67	032310	TITUS TOWNSHIP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
68	032314	HARINI INFOTECH PRIVATE LIMITED
69	032316	SRI SOMANATH HERBAL AND CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
70	032319	GATES SOFTWARE PRIVATE LIMITED
71	032322	SRI SAI MEGA MIRACLE RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED
72	032330	SAHIL RUBBER PRIVATE LIMITED
73	032334	NEERAJA FARMS PRIVATE LIMITED
74	032341	MITHRA HOUSING PRIVATE LIMITED
75	032347	KUMAARSAI AGRITECH PRIVATE LIMITED
76	032348	SHAKTI RETAINING RINGS PRIVATE LIMITED
77	032353	R.G MAX INDIA PRIVATE LIMITED
78	032356	CHETAN MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
79	032373	HUMMING BIRD ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
80	032380	GHAZI AGRO SHEEP FARMS PRIVATE LIMITED
81	032384	VBG EXIM PRIVATE LIMITED
82	032387	VISAKHA TOURISM SERVICES PRIVATE LIMITED
83	032389	ENEYE CURE CARE MEDICAL PRIVATE LIMITED
84	032392	RAJKATARI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
85	032404	BHARADWAJ ESTATES PRIVATE LIMITED
86	032406	GURUDATTA GARMENTS PRIVATE LIMITED
87	032409	SAV GEN TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
88	032423	CUBISM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
89	032425	HNC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
90	032429	WINRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
91	032434	NETEYE ONLINE PRIVATE LIMITED
92	032436	R.J.RESOURCE NETWORK INTERATIONLPRIVATE LIMITED
93	032458	ALTECH ONLINE PRIVATE LIMITED
94	032460	APP GAS PROJECTS PRIVATE LIMITED
95	032461	BAI REDDY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
96	032471	SRI SATYA AD-VISIONS PRIVATE LIMITED
97	032481	ENVE TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
98	032482	PROVEN TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
99	032485	VIBGYOR SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
100	032494	DUTH PROJECT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
101	032495	DUTH HOLDINGS PRIVATE LIMITED
102	032505	DUTH AGENCIES PRIVATE LIMITED
103	032507	ADITI CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
104	032508	PERFECT GRANITES PRIVATE LIMITED
105	032521	GOLDEN HEIGHTS ESTATES LIMITED

106	032526	PADMA POWER TECH PRIVATE LIMITED
107	032528	SHRI VENKY IMPEX PRIVATE LIMITED
108	032530	BAY CITY SEAFOODS EXPORTS PRIVATE LIMITED
109	032534	MAVURAM COMPUTING PRIVATE LIMITED
110	032598	ANURASHI INFOTECH AND NETWORK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
111	032599	SUPER SOFT INFOTECH PRIVATE LIMITED
112	032604	A.R.FILTERCOMPS PRIVATE LIMITED
113	032605	CHODAY APPAROW STEELS PRIVATE LIMITED
114	032606	PAIKRAMA MARKETING PRIVATE LIMITED
115	032608	NEHAKASH HOMES PRIVATE LIMITED
116	032610	SADBHAVANA SERVICES PRIVATE LIMITED
117	032617	TVP GRAPHICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
118	032620	PANINI LOGIX LIMITED
119	032633	ROHIT TUBES PRIVATE LIMITED
120	032641	ALSHAIK INAMULHASAN RESEARCH AND PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
121	032644	GREATER HYDERABAD PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
122	032646	JANGAM DHARM STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED
123	032649	SUKHEEBHAVA HOUSING PRIVATE LIMITED
124	032658	NORTH SAILS IMPEX PRIVATE LIMITED
125	032659	VENKATSAI TRANSCRIBE PRIVATE LIMITED
126	032660	METEOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
127	032670	MARVEL METAFAB PRIVATE LIMITED
128	032675	BANANA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
129	032676	ADARSH MOTORS PRIVATE LIMITED
130	032678	ARUKU VALLY RESORTS PRIVATE LIMITED
131	032687	MAABHOOMI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
132	032691	VANAJA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
133	032694	AALISHAN HOMES PRIVATE LIMITED
134	032696	ZEAL NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
135	032706	SURYANSH TRANS SERVICES PRIVATE LIMITED
136	032720	GREATWAY MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
137	032722	SIMS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
138	032730	MANASA AGROTECH PRIVATE LIMITED
139	032747	PERURI INFOTECH PRIVATE LIMITED
140	032748	SAISADAN INNS PRIVATE LIMITED
141	032751	DSDR AGENCY SERVICES PRIVATE LIMITED
142	032753	SRI ANUSHA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
143	032755	MONERYMARG SERVICES PRIVATE LIMITED
144	032762	DIAGONAL DATA SOLUTIONS LIMITED
145	032765	NANDIPATI AGROTECH PRIVATE LIMITED
146	032767	ADILABAD INSTITUTE OF INFORMATION AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
147	032774	QURA BUILDERS PRIVATE LIMITED
148	032776	UNIQUE GRAPHIC ARTS PRIVATE LIMITED
149	032778	TWIN CITIES ONLINE HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
150	032783	WITNET SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
151	032787	DIKESH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
152	032798	SRI SHIVAM GRAINAGE PRIVATE LIMITED
153	032801	WINTRAN TRANSTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
154	032809	TROPICAL DAIRY FOODS PRIVATE LIMITED
155	032810	MS.LABS PRIVATE LIMITED
156	032840	SARAS EXIM PRIVATE LIMITED
157	032842	ASPEN WEB SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
158	032847	MERCAND SEA FOODS PRIVATE LIMITED
159	032858	BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL LIMITED
160	032860	SRI RAMANJANEYA PARBOILED PRIVATE LIMITED
161	032860	SRI RAMANJANEYA PARBOILED PRIVATE LIMITED

162	032862	MEDGATE MEDICALS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
163	032875	MEDIVISION COMPUTER CENTRE PRIVATE LIMITED
164	032877	MEZZOTINI DRUGS PRIVATE LIMITED
165	032882	SRI LAKSHMI ENGINEERING CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
166	032886	LYCÉE INFO PRIVATE LIMITED
167	032887	V.S. INFO PRIVATE LIMITED
168	032890	MILLENIUM SMARTCARDS LIMITED
169	032892	MILLENIUM MICROSYSTEMS LIMITED
170	032904	KOTAMRAJU CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
171	032905	AVIRTUAL WORLD SOFTWARE LIMITED
172	032908	SAILAKSHMI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
173	032912	BINARY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
174	032918	UDAYASRI CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
175	032920	F.R.P. FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
176	032921	RICINOLEIC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED
177	032923	ADARSH INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
178	032926	AVANTI FUSES PRIVATE LIMITED
179	032929	PRTHIVI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
180	032960	BHARGAV ROAD LINES PRIVATE LIMITED
181	032967	RIVER VALLEY POWER PRIVATE LIMITED
182	032970	TEJITHA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
183	032983	SVAN MOSQUITO COILS PRIVATE LIMITED
184	032988	AKASH BUSINESS SOFT PRIVATE LIMITED
185	032992	RASASRI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
186	033010	AQUA ZONE ION EXCHANGE PRIVATE LIMITED
187	033020	ZIGANTZ GARMENTS PRIVATE LIMITED
188	033031	S S R SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
189	033048	BALAJI DEVELOPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
190	033066	UNITECH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
191	033072	4CS (INDIA) PRIVATE LIMITED
192	033079	ADESTA COM (INDIA) PRIVATE LIMITED
193	033081	OCEANSOFT SOFTWARE DEVELOPMENT CENTRE PRIVATE LIMITED
194	033086	NETBIOSIS INFOLINK PRIVATE LIMITED
195	033089	SAI GANGA PANACEA PRIVATE LIMITED
196	033098	COM-E-SOFT PRIVATE LIMITED
197	033106	KAMALA SARASWATI AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
198	033112	GREATER HYDERABAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
199	033115	TRANS INFO SOFT PRIVATE LIMITED
200	033119	SUNNY'S SPECTRA SOLUTION PRIVATE LIMITED
201	033125	NIMBLE WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
202	033130	SWARNAANDHRA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
203	033144	ORGANICA INDICA PRIVATE LIMITED
204	033148	REJUVENATING APPROACHES PRIVATE LIMITED
205	033154	ITR INTERACTIVE EDUSOFT PRIVATE LIMITED
206	033155	EMINENT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
207	033170	KIMTEE MILLENNIUM PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
208	033175	SWARNANJALI ESTATES PRIVATE LIMITED
209	033191	E-CUDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
210	033203	CRUISE SYSTEMS LIMITED
211	033208	KOLETI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
212	033214	ALPHA MEDICAMENTS PRIVATE LIMITED
213	033221	SHRISTI TRADE SERVICES PRIVATE LIMITED
214	033241	MEGAS SYSTEMS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
215	033249	SRI KRISHNA DESIGN AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
216	033257	VELUDONDARAYA HOUSING AND ESTATES LIMITED
217	033259	ALAPAJI RAJENDRA PRASAD POWER PROJECT PRIVATE

		LIMITED
218	033266	TIRUMALA AGENCIES PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
219	033270	GOLDEN EDIFICE ELEMENTS PRIVATE LIMITED
220	033280	SAI KRISHNA DRUMS PRIVATE LIMITED
221	033286	P.V.R. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
222	033289	CYBERTEL INFOMEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
223	033299	INDO BHARATI POWER LIMITED
224	033320	PABBA SOFT-TECH PRIVATE LIMITED
225	033325	BASIA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
226	033334	BREATHING TECHNIQUES AND MEDICAL APPLIANCES PRIVATE LIMITED
227	033345	AYYALA SOFT PRIVATE LIMITED
228	033348	SAGARAM COMPUTER SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
229	033365	AQUA SOLAR PRIVATE LIMITED
230	033369	GEM INTELLICOM LIMITED
231	033377	C2TCS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
232	033390	PAVAN SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
233	033394	DURG SECURITY AND INVESTIGATION SERVICES PRIVATE LIMITED
234	033415	TOLIDO NET WORK BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
235	033422	SRI MARUTHI BIO-FERTILISERS PRIVATE LIMITED
236	033433	ORCHASP PROPERTIES LIMITED
237	033454	JOGI AND RISHI INFOTECH PRIVATE LIMITED
238	033457	GODAVARI KHANI CITY RECREATION CLUB PRIVATE LIMITED
239	033466	VUTUKURU HOUSING AND ESTATES PRIVATE LIMITED
240	033470	GRUHASEEMA MARKETING PRIVATE LIMITED
241	33490	E2K.COM INDIA PRIVATE LIMITED
242	033500	NIDHISH POWER PROJECT PRIVATE LIMITED
243	033503	ILLUSION ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
244	033516	WEB ICON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
245	033524	SRI SAI PRABHU COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
246	033529	SRI DURGA LAKSHMI QUARRY AND CRUSHERS PRIVATE LIMITED
247	033534	GOPAL REAL ESTATES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
248	033536	ENNAAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
249	033538	CHARAK GARMENTS PRIVATE LIMITED
250	033558	U.S. TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
251	033561	FANTASY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
252	033572	WEST COAST SOFTECH PRIVATE LIMITED
253	033574	TRISTAR E-COM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
254	033575	MAHARAJA'S AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
255	033622	UNICORN COMNET PRIVATE LIMITED
256	033655	NETHI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
257	033662	LUMINA CYBERSOFT PRIVATE LIMITED
258	033667	PREMASAI INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
259	033678	NEURON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
260	033701	PARAMOUNT INFOTECH LIMITED
261	033703	SINDHUJA CONSTRUCTIONS LIMITED
262	033708	KK CHANUMOLU CHIT FUNDS LIMITED
263	033713	PROXY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
264	033725	CITY CINE TRADERS LIMITED
265	033729	VIJAY LAKSHMI BEVERAGES AND FOODS PRIVATE LIMITED
266	033771	BOSON TECHNOLOGIES LIMITED
267	033780	SRI SHARMILA PHARMA AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
268	033781	DATA POINT SEARCH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

269	033786	B.S. SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
270	033790	GLORY TEK COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
271	033794	PENINSULAR E-COM LIMITED
272	033797	USHAKIRAN HOUSING PRIVATE LIMITED
273	033805	LORVEN POLYMERS LIMITED
274	033812	LORVEN INFOTECH LIMITED
275	033819	RAVI TEJA PRINTERS PRIVATE LIMITED
276	033822	AMAR ABRASIVES PRIVATE LIMITED
277	033823	MADHAVI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
278	033827	TRIANGLE EXIM PRIVATE LIMITED
279	033841	ATLANTIC PHARMA LIMITED
280	033843	INFOSLOTS TECHNOLOGIES LIMITED
281	033848	OMEGA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
282	033861	CHEMTRADING.COM LIMITED
283	033862	CANONSOFT TECHNOLOGIES LIMITED
284	033865	VISWA PRAGATHI NIRMAN PRIVATE LIMITED
285	033868	RADHIKA CT SCAN DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
286	033871	SRI KATYAYANI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
287	033884	POPRAJ INFOTECH PRIVATE LIMITED
288	033885	SURYA INFOWAY LIMITED
289	033887	EQNET TECHNOLOGIES LIMITED
290	033888	SAVIAANT INFOTECH (INDIA) LIMITED
291	033889	SOFTLINES MEDIATECH LIMITED
292	033893	PIONEER ELCO LIMITED
293	033897	AMSR PROJECTS PRIVATE LIMITED
294	033901	MRB HYDEL-POWER PRIVATE LIMITED
295	033902	SRI GOPI HYDEL POWER GENERATION PRIVATE LIMITED
296	033908	MARKER'S GARMENTS PRIVATE LIMITED
297	033910	WEBCENTRIC TECHNOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
298	033912	LOGINTECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
299	033913	GAYATRI DIGITAL IMAGES LIMITED
300	033918	E LAAN INFOTECH LIMITED
301	033919	ASTAR INTERACTIVE TECHNOLOGIES LIMITED
302	033930	SYSBIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
303	033933	LILY SOFT LIMITED
304	033942	IDOTECHO.COM PRIVATE LIMITED
305	033950	LOGICAL WEB MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
306	033951	AUTOANY DOT COM PRIVATE LIMITED
307	033957	PERFECT VISION HOSPITAL PRIVATE LIMITED
308	033958	ESSEMM - GOPHER INFORMATION SYSTEMS LIMITED
309	033964	VEPLANS INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED
310	033966	VIRTUAL LINKS SOFTEK LIMITED
311	033967	LORAL PACKAGING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
312	033968	METRO NUTRITION PRIVATE LIMITED
313	033979	PREMIER CYBERNET SERVICES LIMITED
314	033980	SUN TECHNOLOGIES LIMITED
315	033988	INFONICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
316	033993	HELLOSOFT INDIA PRIVATE LIMITED
317	034001	R.H. THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED
318	034002	C C M SOFTWARE PRIVATE LIMITED
319	034004	SIRIRAJ GROUP HOUSING PRIVATE LIMITED
320	034005	R.K. TOBACCO TRADERS PRIVATE LIMITED
321	034006	SANGHVI BHARATI INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED
322	034010	BIJILI MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
323	034016	CONNECT AUTOMATION PRIVATE LIMITED
324	034024	PORTALS INDICA.COM LIMITED
325	034033	E-ICED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
326	034034	BALAJI TECHNO ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

327	034036	MATRIX RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
328	034038	PJW CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
329	034052	MINI INTERNET S.T.D. SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
330	034066	ESSEMM ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
331	034073	MANCHEM TRANSPORT PRIVATE LIMITED
332	034076	LEAD PHARMA PRIVATE LIMITED
333	034079	IMAGINEERS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
334	034080	NEW VISTAS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
335	034081	TECH ONE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
336	034083	MTS OFF - SHORE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
337	034096	FIRST NET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
338	034099	RISHI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
339	034100	CHANAKYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
340	034111	OBJECT NET.COM LIMITED
341	034114	ZARTECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
342	034124	GLOBAL E.COM CORPORATION LIMITED
343	034126	SCHALTECH INFORMATION SYSTEMS LIMITED
344	034140	SUCCESS AGRO SEEDS PRIVATE LIMITED
345	034141	SAT WHEELS TRANSPORT PRIVATE LIMITED
346	034150	ELEGENT SOFTNET PRIVATE LIMITED
347	034163	TRINDUS RESOURCES LIMITED
348	034164	MANCHERIAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
349	034171	SABIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
350	034173	SAI SWAPNA HOMES PRIVATE LIMITED
351	034176	CHOICE EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
352	034181	BLOSSOM SOFT TECH LIMITED
353	034183	ROADBEYOND.COM PRIVATE LIMITED
354	034191	BHARATHI E-SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
355	034199	SUGANDHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
356	034200	CLARION DISTRIBUTION SERVICES PRIVATE LIMITED
357	034202	BLUESEAS NETWORK BUSINESS PRIVATE LIMITED
358	034203	EPROMT NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
359	034215	ALPS INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
360	034216	SAI SURYA COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
361	034229	NAGARJUNA WOOD CRAFT PRIVATE LIMITED
362	034235	KURNOOL SCAN CENTRE PRIVATE LIMITED
363	034242	SRI MARUTHI OXYGEN PRIVATE LIMITED
364	034244	SAMPOORNA HOUSING PRIVATE LIMITED
365	034248	J D ARTS LIMITED
366	034250	FUTURE I.T. TRAINING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
367	034279	SKIPPER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
368	034281	AYS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
369	034282	HEMAVATHI SERI TECH PRIVATE LIMITED
370	034284	ESSESS TRADELINKS PRIVATE LIMITED
371	034296	COMPU INFO LIMITED
372	034304	SOWKHYA HOUSING PRIVATE LIMITED
373	034312	ROOLANS EXPORTS PRIVATE LIMITED
374	034315	DIVYA SAI HI-TECH PRIVATE LIMITED
375	034316	DHANUNJAYA PACKAGES PRIVATE LIMITED
376	034318	J.C.FUELS PRIVATE LIMITED
377	034325	SUSEE GRANITES PRIVATE LIMITED
378	034329	EPICUROUS MARKETING PRIVATE LIMITED
379	034330	B.M.R GRANITES PRIVATE LIMITED
380	034331	MURUGAN GRANITES PRIVATE LIMITED
381	034332	PRABHU SAI GRANITES PRIVATE LIMITED
382	034355	WINLINE POLYPACKS PRIVATE LIMITED
383	034360	ARK NETCOM LIMITED
384	034368	S.M.B. TRANSPORT PRIVATE LIMITED

385	034371	HARITHA BIO PLANTECH PRIVATE LIMITED
386	034379	LEO EMPLOYMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
387	034382	SIRIUS IMPEX PRIVATE LIMITED
388	034386	GODAVARI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
389	034387	GREENDALE ESTATES PRIVATE LIMITED
390	034389	ICON PROJECTS LIMITED
391	034409	ETREAD.COM PRIVATE LIMITED
392	034421	RAJ INFORMATICS PRIVATE LIMITED
393	034423	TEJAH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
394	034444	HUMMM DOTCOM PRIVATE LIMITED
395	034446	MIGHTY DIAGNOSTIC SERVICES PRIVATE LIMITED
396	034453	OM LIFE LINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
397	034465	SURAKSHA GAS LIMITED
398	034466	HERITAGE MEDITECH PRIVATE LIMITED
399	034494	CYBER-COM NETWORK MARKETING SYSTEMS (P) LIMITED
400	034500	CINCINATI MINERALS PRIVATE LTD
401	034506	WEB PRODIGIES PRIVATE LIMITED
402	034522	ALFEX CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LIMITED
403	034524	GETMORE INFOTECH PRIVATE LIMITED
404	034538	BKR ESTATES PRIVATE LIMITED
405	034543	HI-FY IMPEX PRIVATE LIMITED
406	034544	RAINBOW MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
407	034551	SPR DIGITAL PRIVATE LIMITED
408	034559	YUKTHI SOFTWARE AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
409	034566	SDE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
410	034580	ANDERSEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
411	034585	VIKRAM CYBER DOT COM PRIVATE LIMITED
412	034592	HARSHA HEALTH CARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
413	034597	DIGICOLOR OFFICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
414	034599	GREEN EARTH BIO FUTURE PRIVATE LIMITED
415	034607	SATYA SAI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
416	034613	SURAMS ADZMARK PRIVATE LIMITED
417	034621	DEVUOC COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
418	034623	BUSINESS MANAGEMENT INFOTECH PRIVATE LIMITED
419	034627	KANR EXIM PRIVATE LIMITED
420	034633	NEW ERA BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
421	034638	OPTIC SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
422	034644	VUMMADI HYDRO POWER PLANT PRIVATE LIMITED
423	034650	SUMAN COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
424	034651	RIGEL TECHNOLOGIES LIMITED
425	034652	KORRA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
426	034664	IWONDERS.COM PRIVATE LIMITED
427	034667	E. FOCUS SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
428	034670	RAMRAJ COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
429	034671	MICRONET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
430	034677	CYBER CITY STEELS PRIVATE LIMITED
431	034678	KAVERI COPPER PRIVATE LIMITED
432	034679	SUBBARAO AGROS PRIVATE LIMITED
433	034684	AMARTIYA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
434	034698	SRI CHAKRI EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
435	034699	HI-RICH CHEMICALS AND QUARRIES PRIVATE LIMITED
436	034700	INTERACTIVE CONCEPTS DIGITAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
437	034703	MAHASAMA IMPEX PRIVATE LIMITED
438	034707	SATYAM CTA SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED
439	034708	M AND S INFOTECH PRIVATE LIMITED
440	034715	REGENEIGHT BUILD PRIVATE LIMITED
441	034719	CUBIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
442	034720	SRI DHARMA LAKSHMI TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED

443	034722	DIVYA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
444	034727	ROCH E-COM PRIVATE LIMITED
445	034730	MEK IMPEX PRIVATE LIMITED
446	034731	MILLENNIUM EDTECH PRIVATE LIMITED
447	034738	GREENGLORY BIO-NATURAL HERBS PRIVATE LIMITED
448	034740	S.V. E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
449	034744	UDHAAR 4U.COM LIMITED
450	034747	MAGNUM OPUS INDUSTRIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
451	034749	ANDHRA IT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
452		HARVEST FOODS AND CONFECTIONARY PRIVATE LIMITED
453	034760	JOLLY PARK PRIVATE LIMITED
454	034769	QUEST INFOWAY PRIVATE LIMITED
455	034772	UNNATHA SAI POWER PRIVATE LIMITED
456	034773	MANAC ENGINEERS PRIVATE LIMITED
457	034776	PCV AQUA PRIVATE LIMITED
458	034779	HITECH INNOVATIVE COMMUNICATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
459	034780	MIHIRA INFO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
460	034785	NUDAR HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
461	034788	WEB GEN INFORMATICS PRIVATE LIMITED
462	034789	MECCA COMPUTERS AND IMPEX PRIVATE LIMITED
463	034791	ALLEN ENGINEERS AND CONSULTANTS LIMITED
464	034801	LEKHA SOFTECH PRIVATE LIMITED
465	034803	PROTECH INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED
466	034805	COMMUNE NETWORKS LIMITED
467	034806	MAXTRACKS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
468	034808	BIZMAN SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
469	034811	SHREE G.M. CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
470	034813	PUSHYAMI MARKETING PRIVATE LIMITED
471	034823	CYBERNETIX ONLINE PRIVATE LIMITED
472	034826	WINSYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
473	034827	VIRTUAL VIRTUES INFOTECH PRIVATE LIMITED
474	034832	AUMEEN PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
475	034833	OBJECT WAVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
476	034834	VIMASU INFOTECH PRIVATE LIMITED
477	034839	AJAY POWER PRIVATE LIMITED
478	34841	S V L SOLUS PRIVATE LIMITED
479	034846	MYSTIC MARBLE AND GRANITE PRIVATE LIMITED
480	034848	SAI GANGA MINI HYDEL POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
481	034856	TADEPALLIGUDEM COMMERCIAL SERVICES LIMITED
482	034857	BAZAARE.COM PRIVATE LIMITED
483	034865	KODAD LOGISTICS AND POWER PRIVATE LIMITED
484	034866	DECCAN ADVANCED CABLE MACHINERY PRIVATE LIMITED
485	034867	SRI KASI SIVA PARVATHI BIOTECH PRIVATE LIMITED
486	034869	MARGGIN INTERACTIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
487	034871	DIGITAL DOT PRIVATE LIMITED
488	034873	ADVANCED SOFTNET LIMITED
489	034876	TRANSIT IMPORTERS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED
490	034886	SHRIRAM BIO-TECH LIMITED
491	034892	SANG-FROID TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
492	034893	SAVER'S SHOP PRIVATE LIMITED
493	034896	HARITA HOUSING PRIVATE LIMITED
494	034901	HYDERABAD .COM SERVICES PRIVATE LIMITED
495	034916	KEY2COM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
496	034920	SUNGRAFIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
497	034923	MESA INFOTECH PRIVATE LIMITED
498	034928	KAMINENI'S CYBERTECH PRIVATE LIMITED

499	034937	PATEL UNISONS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
500	034941	MISOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
501	034949	ARRAM SOFT SOLUTIONS LIMITED
502	034951	COBALT INFORMATICS PRIVATE LIMITED
503	034955	HI-BEAM INFOWAY PRIVATE LIMITED
504	034960	NEO LOTUS SYSTEMS AND SOFTWARES PRIVATE LIMITED
505	034962	MKT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
506	034967	EJM XPORTSOFT PRIVATE LIMITED
507	034969	SRI MAALIKA HOTELS PRIVATE LIMITED
508	034979	VIGNAN SOFTLINE SERVICES LIMITED
509	034980	BRALAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
510	034982	TRANQUIL VACATIONS PRIVATE LIMITED
511	034987	ANCHOR CYBER ESTATE PRIVATE LIMITED
512	034988	NUTRAZONE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
513	034989	JANMABHOOMI TELEFILMS LIMITED
514	034992	SURAGANI RESORTS PRIVATE LIMITED
515	34993	STARLET SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
516	035006	SAKHYATA INFOTECH PRIVATE LIMITED
517	035007	S.V. AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
518	035008	SWAGRUHA REALTORS PRIVATE LIMITED
519	035010	SIRI ANDHRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
520	035023	RAINBOW SOFTEC DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
521	035030	UNITED FLYHIGH COURIERS PRIVATE LIMITED
522	035041	ICC NETWORKS PRIVATE LIMITED
523	035043	DISCOVER IT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
524	035047	DIVYA SHELTERS PRIVATE LIMITED
525	035052	SREE SAINATH MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
526	035053	SPUTNIK HYDRO PNEUMATICS PRIVATE LIMITED
527	035058	INFOMATRIX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
528	035059	HARBINGERS HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
529	035065	WIZZARDS INFO GLEBE PRIVATE LIMITED
530	035074	WEBOBJECTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
531	035076	AL-QUBA'A TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
532	035077	GONAY RESORTS PRIVATE LIMITED
533	035080	MANJEERA STUDENTS CARE CENTRE PRIVATE LIMITED
534	035085	SRI CHAKRA POWER GEN LIMITED
535	035087	BHAVEN WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
536	035094	GIRIDHAR CEMENTS LIMITED
537	035097	REAL DATA NETWORKS PRIVATE LIMITED
538	035098	SRI SUDHEER CHEMICALS PRIVATE LIMITED
539	035099	JOINCOMM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
540	035102	QUBA SOFTWARE LIMITED
541	035111	AXIS-NET TRADE SOLUTIONS LIMITED
542	035112	AGNI INFOTECH PRIVATE LIMITED
543	035115	TALENT HUT MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
544	035116	ROCK SOLID APPARELS PRIVATE LIMITED
545	035117	HEXACELL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
546	035118	ZEN INFOQUEST PRIVATE LIMITED
547	035121	GOLDEN GATE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
548	035129	GAMING ONLINE PRIVATE LIMITED
549	035130	PAL REMEDIES PRIVATE LIMITED
550	035136	SRI SAI POOJITHA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
551	035139	LANSRA MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
552	035141	CR SOFT TECH PRIVATE LIMITED
553	035143	JANAMITHRA HOUSING PRIVATE LIMITED
554	035144	DIKSUCHI SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED
555	035145	ROBUST SOFTWARE LIMITED
556	035148	ANANTHAVIJAYA RICE EXPORTS LIMITED
557	035150	MOKUNA COACH COMPANY PRIVATE LIMITED
558	035153	DECCAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
559	035158	VALUE PLUS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED

560	035161	BHARAT BIO-LOGICALS PRIVATE LIMITED
561	035170	VENUS-CHEM COMPOSITION PRIVATE LIMITED
562	035172	ANDHRA VISION INFOTEK PRIVATE LIMITED
563	035177	RENAISSANCE POWER PRIVATE LIMITED
564	035178	MULTIMEDIA WORLD WIDE WONDERS MARKETING LIMITED
565	035179	SUNAND SOFT INDIA PRIVATE LIMITED
566	035183	MEDIDA BIO INFORMATICS PRIVATE LIMITED
567	035185	FOTOCAFE.COM LIMITED
568	035187	DOMAGK EXPORTS AND IMPORTS LIMITED
569	035192	KRANTHI INFOTECH PRIVATE LIMITED
570	035198	INDUS DEUTSCHE CONSULTING PRIVATE LIMITED
571	035199	S.V.V.S. IMPEX PRIVATE LIMITED
572	035216	INFOQUEST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
573	035225	SAN MACRO INFOTECH PRIVATE LIMITED
574	035229	CANDID SYSTEMS PRIVATE LIMITED
575	035241	DRUTI INFOTEK (INDIA) LIMITED
576	035245	DEVA DISTILLERIES AND BREWERIES PRIVATE LIMITED
577	035252	MAHARSHI EXPORTS PRIVATE LIMITED
578	035254	HARI TEJ SEA FOODS PRIVATE LIMITED
579	035255	SRI VENKATESWARA NET SOLUTIONS LIMITED
580	035259	ASK INTEK LIMITED
581	035261	JANA PRASANNA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
582	035262	SUNDEEP IMPEX PRIVATE LIMITED
583	035272	SRI SIVA KAMAKSHI JEWELLERS PRIVATE LIMITED
584	035279	CENTURY WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
585	035282	ONE FIVE THREE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
586	035284	R.E. SOFT TECH PRIVATE LIMITED
587	035290	SOS HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
588	035294	ESESVI ESTATES PRIVATE LIMITED
589	035298	GEO SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
590	035301	LINES MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
591	035302	JAYANTH FULCRUM INFORMATION COMMUNICATION ENTERTAINMENT LIMITED

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Coimbatore-641005, the 27th March 2008

No. U/S. 560(3)/MCA/ROC-Coimbatore/Sec. 560/2007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off under Section 560(5) of the Act from the Register of Registrar of Companies and the said Companies will be dissolved:—

873	897	COIMBATORE LEASING PRIVATE LIMITED
874	2995	WHITE AND CO. PLASTICS PRIVATE LIMITED
875	3226	WHITE - TEX ENGINEERS PRIVATE LIMITED
876	3228	NAVAJEEVAN SPINNERS PRIVATE LIMITED
877	3234	RAJA LAKSHMI STONES PRIVATE LIMITED
878	3244	SHRIVARDHINI STEEL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED

879	3307	AMM CHEM(INDIA) PRIVATE LIMITED
880	3311	GANAPATHY VEL CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
881	3313	GOLF HIGH-TECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
882	3330	SHELTEK SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
883	3345	K V TEXPORTS PRIVATE LIMITED
884	3466	EQUITY GARMENTS PRIVATE LIMITED
885	3493	BEEJAY GRANITES PRIVATE LIMITED
886	3495	THIRUMALA PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
887	3496	JAYVEEYES HOME APPLIANCES LIMITED
888	3547	VIJESH CHEMICAL PRIVATE LIMITED
889	3551	BLUECHIP INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
890	4432	SRI VALABOOMI SUGAR MILLS PRIVATE LIMITED
891	4440	SANTOSH PAPER TUBES PRIVATE LIMITED
892	4441	KALI SHRIMP FARM PRIVATE LIMITED
893	4451	ARJUN EMBROIDERIES PRIVATE LIMITED
894	4469	T.N.T. AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
895	4508	GYTON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
896	4511	BANNARI AMMAN PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
897	4515	AGRIMONIA EXPORTERS PRIVATE LIMITED
898	4522	J.J. TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
899	4528	THREYA TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
900	4532	MURUGAN SIZING AND WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
901	4549	ANUSHREE ELECTRO VAC SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
902	4550	RAMESH COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
903	4615	SRI KADAIY EESWARAR AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
904	4643	RAYWIN RESORTS PRIVATE LIMITED
905	4653	VIJITHA AUTO EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
906	4655	PAWAR PLASTICS PRIVATE LIMITED
907	4656	SRI VIGNESH AAISHWARYA TEXTILES PRIVATE LIMITED
908	4658	ARTISTIC JEWELLERY PRIVATE LIMITED
909	4668	SOUTH INDIAN GAS AGENCIES PRIVATE LIMITED
910	4675	MARIAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
911	4679	KOHINOOR RESORTS PRIVATE LIMITED
912	4711	SRI SAKTHI VINAYAGAR TEXTILES PRIVATE LIMITED
913	4714	ASWIN BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
914	4739	ARUNA MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
915	4743	PRAGATI HI-TECH CIRCUITS PRIVATE LIMITED
916	4765	PVS AGRO FARM PRIVATE LIMITED
917	4768	SALEM RESINS PRIVATE LIMITED
918	4770	PRP TEXTILE AND MACHINE WORKS PRIVATE LIMITED
919	5054	KOMARAPALAYAM SMALL SCALE DYEING FACTORY COMMON EFFLUENT TREATMENT COMPANY LIMITED
920	5874	NELLUKUPPAMMAN SAI BUILDERS PRIVATE LIMITED
921	6810	PRAGMATIC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
922	6817	THERAN AGENCIES PRIVATE LIMITED
923	7866	LINTAS TEXTILES PRIVATE LIMITED
924	7895	AKS RUBBERS PRIVATE LIMITED
925	7906	V.J.P. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
926	7920	ABS AQUA BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
927	7921	LEO SAKTHI MINERAL WATERS PRIVATE LIMITED
928	7930	GREENWICH STEELS PRIVATE LIMITED

929	7932	POWER RETREADING COMPANY PRIVATE LIMITED
930	7940	HIGHVIEW ESTATES PRIVATE LIMITED
931	7941	THAYAMMAL TEXTILES (INDIA) PRIVATE LIMITED
932	7947	LIVE AND LET LIVE INTERNATIONAL LIMITED
933	7948	PRIME INDUSTRIAL CONSUMABLES PRIVATE LIMITED
934	7951	HYMENS MARKETING PRIVATE LIMITED
935	7957	JHUNO GARMENTS PRIVATE LIMITED
936	7962	ADHARSH MAHIMA MARKETING PRIVATE LIMITED
937	7976	PENMARC ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
938	8136	SPC IMPEX PRIVATE LIMITED
939	8144	SHIELD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
940	8147	UNISOFT MARKETING PRIVATE LIMITED
941	8149	ADWEB COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
942	8150	ADWEB EDUCATION PRIVATE LIMITED
943	8155	VYSHNAVI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
944	8158	ISHWARI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
945	8170	N.S.JUTE AND PLYCHESTS PRIVATE LIMITED
946	8177	R.P.K. AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
947	8178	S.V.R.FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
948	8179	COIMBATORE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
949	8180	SREE SIVACHALAPATHY SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
950	8183	GERMANIUM BEAUTY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
951	8188	EMA EVENT MANAGEMENT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
952	8190	ESWAAR RAAJ PROGRESSIVE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
953	8191	SUN STAR MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
954	8195	SAMBAMURTHY BUILDERS PRIVATE LIMITED
955	8216	RAINTREE COUNTRY CLUB PRIVATE LIMITED
956	8217	VERDANT PAARK HOTEL PRIVATE LIMITED
957	9177	GS ACCORD TOWEL EXPORT PRIVATE LIMITED
958	10203	S S NACHIMUTHU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
959	11162	CARRITT MORAN TEA MATRKETING PRIVATE LIMITED

P. RAJAGOPALAN
Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Bangalore, the 25th March 2008

No. TA/H/S. 560(5)/Suo Motu/08—Notice is hereby given pursuant to the Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies shall stand dissolved on the date of publication of this notice in the Official Gazette:—

Sl.No.	Name of the company / ies	Company Number
1	Jenkins (India) Private Limited	3464
2.	Mohinani Fashion Factory Private Limited.	3253
3.	Veenus Finance and Investment Private Limited	3554
4.	Mysore poly Pipes Private Limited	3591
5.	Standard Metallizers Private Limited	3588
6	Mia Professionals Private Limited	3583
7	Elegant Overseas Private Limited	3582
8.	Ronald Chains (India) Private Limited	3555
9.	K.V.J.Films Private Limited	3631
10.	Melcon Fine Wires Private Limited	3629
11.	Vimaltronix Private Limited	3622
12.	KLN Filters Private Limited	3606
13.	Coral Fisheries Private Limited	3610
14.	Automotive & Industrial Oils Private Limited	3556
15.	Sri Mookambika Printers and Publishers Private Ltd.	3349
16.	Advance Infocom Private Limited	30105
17.	Bangalore Consumer Club Private Limited	30111
18.	Fashion Inventors Private Limited	30114
19.	JM IT Services Private Limited	30115
20.	Golfing Green Meadows Builders and Developers P.Ltd	30116
21.	Prathusha Network Supports Private Limited	30117
22.	Senate Ventures Private Limited	30118
23.	Swadeshi Household Articles Marketing Private Ltd.	30120
24.	Interlaced Clubs Private Limited	30127

25. Nuway Marketing Private Limited.	30135
26. Markwell Entertainments Private Limited	30137
27. Thyli Infoserv Private Limited	30147
28. Ans Distilleries Private Limited	30152
29. Accrete India Marketing Services Private Limited	30153
30. Aditya Renewable Energy Private Limited	30156
31. Itheeta Software Private Limited	30158
32. MB Events “n” Promotions Private Limited.	30166
33. Leovolvin Computers Technologies Private Limited	30181
34. Layer 7 systems and Technologies Private Limited.	30195
35. Shivasai Power Systems Private Limited	30197
36. Simran Publications Private Limited	30199
37. Raj Anand Steels Private Limited	03683
38. Sri Mookambikaa Education Private Limited	30219
39. Ideas Ninventions Private Limited	30225
40. Stellar Infotech Private Limited	30229
41. Symplify Design Automation Private Limited	30234
42. Viasna Donata Imports & Exports Private Limited	30235
43. Netsprint Institute of Hardware Technology Private Ltd	30236
44. Sree Skanda Ganapa Marketing Private Limited.	30239
45. Daily Apparels Private Limited	30247
46. Mydream Marketing Services Private Limited.	30249
47. Bilagi Sugars Limited	30250
48. Bysel Transit India Limited	30252
49. Domore Financials & Consulting Private Limited	30256
50. Deccan Media Productions Private Limited	30269
51. Synergence Soft Solutions Private Limited	30272
52. Impetus Creative Marketing Private Limited	30284
53. Telecom Labs Private Limited	30294

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Bangalore, the 26th March 2008

No. TA/H/S. 560(3)/Suo Motu/08—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following Companies, mentioned herein below, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl	Name of the company / ies	
1.	Verecom Software Private Limited	31001
2.	Lohitas Computer Services Private	31002
3.	Shape Garment Sourcing and Services Private Limited	31004
4.	Cabrohsys Byke & Taxi Rental Services India Private Limited	31005
5.	Wellknit Network Systems Private Limited	31016
6.	Fortese Software Private Limited	31020
7.	Udoshi Medical Informatics Private Limited	31025
8.	Ashrya Marketing Network Private Limited	31026
9.	Cipcon-Holo-Pack Private Limited	31047
10.	Daulat Seeds Private Limited	31060
11.	Integrated Silk Tech Solutions Private Limited	31067
12.	Leembra Network Private Limited	31068
13.	CQR Press Private Limited	31070
14.	Kalkura Refrigeration and Kitchen Equipments Private Limited	31071
15.	Veesree Automation Services Private Limited	31073
16.	Icon Innovative Home Appliances Private Limited	31076
17.	Bhandage Developers Private Limited	31078
18.	Vortexi Information Technology Private Limited	31081
19.	G3 at I Software Solutions Limited	31082
20.	True Value Promoter & Developers Private Limited	31084
21.	Ashpre Network Marketing Private Limited	31095
22.	Tidaltree Consultancy Services Private Limited	31100
23.	S.K.Hospitality Limited	31107
24.	Capitol Software Technologies Private Limited	31110
25.	Peoples Royalbiz Marketing Private Limited	31114
26.	Health Care Matrix Private Limited	31123
27.	Complete Human Resources Solutions Private Limited	31128
28.	Maxitulin Management Consultants Private Limited	31129
29.	Gowrishankar Crushers Private Limited	31137
30.	Bhumi Paraspara Marukatte Seve Private Limited	31142
31.	Bangalore Liquid Oxygen Company India Private Limited	31146
32.	Vishwas Growrich Network Concepts Private Limited	31148

33.	Aditi Hotels Private Limited	31150
34.	Sigua Infotech Private Limited	31155
35.	Siddhivinayak Software Concepts Private Limited	31176
36.	Vima Insurance Advisory Services Private Limited	31177
37.	Sharavu Residency & Resorts Private Limited	31179
38.	Good Shepherd Exports Private Limited	31180
39.	Magway Marketing Private Limited	31182
40.	Kapalin Network Private Limited	31191
41.	Flexi trident Academy Private Limited	31195
42.	Maestro Software Products Limited	31197
43.	Insilico Solutions & Services Private Limited	31201
44.	Garden Fresh Supplies Private Limited	31202
45.	Aparna Infonet Private Limited	31205
46.	Unik Air Biotech Systems Private Limited	31222
47.	MCML Specom Private Limited	31229
48.	Plassington Software Private Limited	31231
49.	Bipco Softech Private Limited	31249
50.	SK Techmech Products Private Limited	31250
51.	Growthwell Business Private Limited	31252
52.	Multipty Access & Shareshoppe Private Ltd	31257
53.	Karunadu Minerals & Metals Private Limited	31261
54.	Ozone Travels Private Limited	31264
55.	FLS & M Consultancy Services Private Limited	31270
56.	Koteshwar Software & Technology Consultants	31272
57.	Royal Needs Private Limited	31273
58.	Basil Integrated Software Technologies P.Ltd	31278
59.	Hash Electronic Research Centre Private Ltd.	31288
60.	Saraag Jeevan Marketing Concepts Private Ltd	31294
61.	Panchamukhi Market Networking (Bangalore) Private Limited	31295

Sanjay
(Sanjay Kumar Gupta)

Asst. Registrar of Companies

Karnataka:

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 2008